

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 सितम्बर 2010—भाद्र 30, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. एफ-6-1-2002-आ.प्र.-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची तीन  
(नियम 3 देखिए)

1. कार्यालय का नाम
2. पद/संवर्ग का नाम
3. वेतनमान
4. स्वीकृत पदों की संख्या

वर्ग तीन/चार

## जिला स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्ग हेतु माडल रोस्टर

1. जिला मुरैना		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 1%		
		अनुसूचित जाति 21%	30	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	31	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		32	अनुसूचित जाति
(1)	(2)		33	अनारक्षित
1	अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	अनारक्षित		35	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
4	अनारक्षित		37	अनुसूचित जाति
5	अनारक्षित		38	अनारक्षित
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनारक्षित
7	अनारक्षित		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		41	अनारक्षित
9	अनुसूचित जाति		42	अनुसूचित जाति
10	अनारक्षित		43	अनारक्षित
11	अनारक्षित		44	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
13	अनारक्षित		46	अनुसूचित जाति
14	अनुसूचित जाति		47	अनारक्षित
15	अनारक्षित		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		49	अनारक्षित
17	अनुसूचित जाति		50	अनारक्षित
18	अनारक्षित		51	अनुसूचित जाति
19	अनारक्षित		52	अनारक्षित
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		53	अनारक्षित
21	अनारक्षित		54	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		55	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति		56	अनुसूचित जाति
24	अनारक्षित		57	अनारक्षित
25	अनारक्षित		58	अनारक्षित
26	अन्य पिछड़ा वर्ग		59	अनुसूचित जनजाति
27	अनारक्षित		60	अनारक्षित
28	अनारक्षित		61	अनारक्षित
29	अनुसूचित जाति		62	अनुसूचित जाति
			63	अनारक्षित

(1)	(2)	2. जिला श्योपुर		आरक्षण प्रतिशत	
64	अन्य पिछड़ा वर्ग			अनुसूचित जनजाति	22%
65	अनारक्षित			अनुसूचित जाति	16%
66	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग	14%
67	अनुसूचित जाति	रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		
68	अनारक्षित	(1)	(2)		
69	अनारक्षित	1	अनारक्षित		
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	अनुसूचित जनजाति		
71	अनारक्षित	3	अनारक्षित		
72	अनारक्षित	4	अनुसूचित जाति		
73	अनुसूचित जाति	5	अनारक्षित		
74	अनारक्षित	6	अन्य पिछड़ा वर्ग		
75	अनुसूचित जाति	7	अनारक्षित		
76	अनारक्षित	8	अनुसूचित जनजाति		
77	अनारक्षित	9	अनारक्षित		
78	अन्य पिछड़ा वर्ग	10	अनुसूचित जाति		
79	अनारक्षित	11	अनारक्षित		
80	अनारक्षित	12	अन्य पिछड़ा वर्ग		
81	अनुसूचित जाति	13	अनारक्षित		
82	अनारक्षित	14	अनुसूचित जनजाति		
83	अनारक्षित	15	अनारक्षित		
84	अन्य पिछड़ा वर्ग	16	अनुसूचित जाति		
85	अनारक्षित	17	अनारक्षित		
86	अनारक्षित	18	अनुसूचित जनजाति		
87	अनुसूचित जाति	19	अनारक्षित		
88	अनारक्षित	20	अन्य पिछड़ा वर्ग		
89	अनारक्षित	21	अनारक्षित		
90	अनुसूचित जाति	22	अनुसूचित जनजाति		
91	अनारक्षित	23	अनारक्षित		
92	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	अनुसूचित जाति		
93	अनारक्षित	25	अनारक्षित		
94	अनारक्षित	26	अनुसूचित जनजाति		
95	अनुसूचित जाति	27	अनारक्षित		
96	अनारक्षित	28	अन्य पिछड़ा वर्ग		
97	अनारक्षित	29	अनारक्षित		
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	30	अनुसूचित जाति		
99	अनारक्षित	31	अनारक्षित		
100	अनुसूचित जाति				

(1)	(2)	(1)	(2)
32	अनुसूचित जनजाति	67	अनुसूचित जनजाति
33	अनारक्षित	68	अनारक्षित
34	अन्य पिछड़ा वर्ग	69	अनुसूचित जाति
35	अनारक्षित	70	अनारक्षित
36	अनुसूचित जनजाति	71	अन्य पिछड़ा वर्ग
37	अनारक्षित	72	अनारक्षित
38	अनुसूचित जाति	73	अनुसूचित जनजाति
39	अनारक्षित	74	अनुसूचित जाति
40	अनुसूचित जनजाति	75	अनारक्षित
41	अनारक्षित	76	अनुसूचित जनजाति
42	अन्य पिछड़ा वर्ग	77	अनारक्षित
43	अनारक्षित	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
44	अनुसूचित जाति	79	अनारक्षित
45	अनारक्षित	80	अनुसूचित जाति
46	अनुसूचित जनजाति	81	अनारक्षित
47	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
48	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
49	अनुसूचित जाति	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
50	अनुसूचित जनजाति	85	अनारक्षित
51	अनारक्षित	86	अनुसूचित जनजाति
52	अनारक्षित	87	अनारक्षित
53	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जाति
54	अनारक्षित	89	अनारक्षित
55	अनुसूचित जाति	90	अनुसूचित जनजाति
56	अनारक्षित	91	अनारक्षित
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनारक्षित	93	अनारक्षित
59	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जाति
60	अनारक्षित	95	अनारक्षित
61	अनुसूचित जाति	96	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	97	अनारक्षित
63	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
64	अनारक्षित	99	अनुसूचित जाति
65	अन्य पिछड़ा वर्ग	100	अनुसूचित जनजाति
66	अनारक्षित		

3. जिला भिण्ड		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 0%		
		अनुसूचित जाति 21%	32	अनुसूचित जाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	33	अनारक्षित
			34	अनारक्षित
			35	अन्य पिछड़ा वर्ग
			36	अनारक्षित
			37	अनारक्षित
			38	अनुसूचित जाति
			39	अनारक्षित
			40	अन्य पिछड़ा वर्ग
			41	अनारक्षित
			42	अनारक्षित
			43	अनुसूचित जाति
			44	अनारक्षित
			45	अनारक्षित
			46	अनुसूचित जाति
			47	अनारक्षित
			48	अनारक्षित
			49	अन्य पिछड़ा वर्ग
			50	अनारक्षित
			51	अनारक्षित
			52	अनुसूचित जाति
			53	अनारक्षित
			54	अनारक्षित
			55	अन्य पिछड़ा वर्ग
			56	अनारक्षित
			57	अनारक्षित
			58	अनुसूचित जाति
			59	अनारक्षित
			60	अनारक्षित
			61	अनुसूचित जाति
			62	अनारक्षित
			63	अन्य पिछड़ा वर्ग
			64	अनारक्षित
			65	अनारक्षित
			66	अनुसूचित जाति

रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)
1	अनारक्षित
2	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति
4	अनारक्षित
5	अनारक्षित
6	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अनारक्षित
8	अनारक्षित
9	अनुसूचित जाति
10	अनारक्षित
11	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	अनारक्षित
14	अनारक्षित
15	अनुसूचित जाति
16	अनारक्षित
17	अनारक्षित
18	अनुसूचित जाति
19	अनारक्षित
20	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अनारक्षित
22	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति
24	अनारक्षित
25	अनारक्षित
26	अन्य पिछड़ा वर्ग
27	अनारक्षित
28	अनारक्षित
29	अनुसूचित जाति
30	अनारक्षित
31	अनारक्षित

(1)	(2)	4. जिला-ग्वालियर		आरक्षण प्रतिशत	
		रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)	अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग	3% 19% 14%
67	अनारक्षित				
68	अनारक्षित				
69	अन्य पिछड़ा वर्ग				
70	अनारक्षित				
71	अनारक्षित				
72	अनुसूचित जाति	1	अनारक्षित		
73	अनारक्षित	2	अनारक्षित		
74	अनारक्षित	3	अनुसूचित जाति		
75	अनुसूचित जाति	4	अनारक्षित		
76	अनारक्षित	5	अनारक्षित		
77	अनारक्षित	6	अन्य पिछड़ा वर्ग		
78	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	अनारक्षित		
79	अनारक्षित	8	अनारक्षित		
80	अनुसूचित जाति	9	अनुसूचित जाति		
81	अनारक्षित	10	अनारक्षित		
82	अनारक्षित	11	अनारक्षित		
83	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	अन्य पिछड़ा वर्ग		
84	अनारक्षित	13	अनारक्षित		
85	अनारक्षित	14	अनुसूचित जाति		
86	अनुसूचित जाति	15	अनारक्षित		
87	अनारक्षित	16	अनारक्षित		
88	अनारक्षित	17	अनारक्षित		
89	अनुसूचित जाति	18	अन्य पिछड़ा वर्ग		
90	अनारक्षित	19	अनारक्षित		
91	अनारक्षित	20	अनुसूचित जाति		
92	अन्य पिछड़ा वर्ग	21	अनारक्षित		
93	अनारक्षित	22	अनारक्षित		
94	अनारक्षित	23	अनुसूचित जनजाति		
95	अनुसूचित जाति	24	अनारक्षित		
96	अनारक्षित	25	अनुसूचित जाति		
97	अनारक्षित	26	अनारक्षित		
97	अनारक्षित	27	अनारक्षित		
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	28	अन्य पिछड़ा वर्ग		
99	अनारक्षित	29	अनारक्षित		
100	अनुसूचित जाति	30	अनारक्षित		

(1)	(2)	(1)	(2)
31	अनुसूचित जाति	66	अनारक्षित
32	अनारक्षित	67	अनुसूचित जाति
33	अनारक्षित	68	अनारक्षित
34	अन्य पिछड़ा वर्ग	69	अनारक्षित
35	अनारक्षित	70	अन्य पिछड़ा वर्ग
36	अनारक्षित	71	अनारक्षित
37	अनुसूचित जाति	72	अनारक्षित
38	अनारक्षित	73	अनुसूचित जाति
39	अनारक्षित	74	अनारक्षित
40	अन्य पिछड़ा वर्ग	75	अनारक्षित
41	अनारक्षित	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	अनुसूचित जाति	77	अनारक्षित
43	अनारक्षित	78	अनुसूचित जाति
44	अनारक्षित	79	अनारक्षित
45	अनुसूचित जाति	80	अनारक्षित
46	अनारक्षित	81	अनारक्षित
47	अनारक्षित	82	अनुसूचित जाति
48	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
49	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
50	अनारक्षित	85	अनारक्षित
51	अनुसूचित जाति	86	अनारक्षित
52	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जनजाति	88	अनारक्षित
54	अनारक्षित	89	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	90	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	91	अनारक्षित
57	अनारक्षित	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनारक्षित	93	अनारक्षित
59	अनुसूचित जाति	94	अनारक्षित
60	अनारक्षित	95	अनुसूचित जाति
61	अनारक्षित	96	अनारक्षित
62	अनुसूचित जाति	97	अनारक्षित
63	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	99	अनारक्षित
65	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति

5. जिला-दतिया		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 2%		
		अनुसूचित जाति 25%	32	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	33	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		35	अनुसूचित जाति
1	अनारक्षित		36	अनारक्षित
2	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
3	अनुसूचित जाति		38	अनारक्षित
4	अनारक्षित		39	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अनुसूचित जाति
6	अनारक्षित		41	अनारक्षित
7	अनारक्षित		42	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनुसूचित जाति		43	अनारक्षित
9	अनारक्षित		44	अनुसूचित जाति
10	अनारक्षित		45	अनारक्षित
11	अनुसूचित जाति		46	अनारक्षित
12	अनारक्षित		47	अनुसूचित जाति
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		48	अनारक्षित
14	अनारक्षित		49	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	अनुसूचित जाति		50	अनारक्षित
16	अनारक्षित		51	अनारक्षित
17	अनारक्षित		52	अनुसूचित जाति
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		53	अनारक्षित
19	अनारक्षित		54	अन्य पिछड़ा वर्ग
20	अनुसूचित जाति		55	अनारक्षित
21	अनारक्षित		56	अनारक्षित
22	अनारक्षित		57	अनुसूचित जाति
23	अनुसूचित जाति		58	अनारक्षित
24	अनारक्षित		59	अनुसूचित जाति
25	अनारक्षित		60	अनारक्षित
26	अन्य पिछड़ा वर्ग		61	अन्य पिछड़ा वर्ग
27	अनारक्षित		62	अनारक्षित
28	अनुसूचित जाति		63	अनारक्षित
29	अनारक्षित		64	अनुसूचित जाति
30	अनारक्षित		65	अनारक्षित
31	अनुसूचित जाति		66	अनारक्षित



(1)	(2)	6. जिला-शिवपुरी		आरक्षण प्रतिशत
67	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति 11%
68	अनारक्षित			अनुसूचित जाति 19%
69	अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य पिछड़ा वर्ग 14%
70	अनारक्षित	रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	
71	अनुसूचित जाति	(1)	(2)	
72	अनारक्षित	1	अनारक्षित	
73	अनारक्षित	2	अनारक्षित	
74	अनारक्षित	3	अनुसूचित जाति	
75	अनुसूचित जाति	4	अनारक्षित	
76	अनारक्षित	5	अन्य पिछड़ा वर्ग	
77	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	अनारक्षित	
78	अनारक्षित	7	अनुसूचित जनजाति	
79	अनुसूचित जाति	8	अनारक्षित	
80	अनारक्षित	9	अनारक्षित	
81	अनुसूचित जनजाति	10	अनुसूचित जाति	
82	अनारक्षित	11	अनारक्षित	
83	अनुसूचित जाति	12	अन्य पिछड़ा वर्ग	
84	अनारक्षित	13	अनारक्षित	
85	अनारक्षित	14	अनुसूचित जाति	
86	अन्य पिछड़ा वर्ग	15	अनारक्षित	
87	अनारक्षित	16	अनुसूचित जनजाति	
88	अनुसूचित जाति	17	अनारक्षित	
89	अनारक्षित	18	अनारक्षित	
90	अनारक्षित	19	अन्य पिछड़ा वर्ग	
91	अनुसूचित जाति	20	अनारक्षित	
92	अनारक्षित	21	अनुसूचित जाति	
93	अन्य पिछड़ा वर्ग	22	अनारक्षित	
94	अनारक्षित	23	अनुसूचित जनजाति	
95	अनारक्षित	24	अनारक्षित	
96	अनुसूचित जाति	25	अनुसूचित जाति	
97	अनारक्षित	26	अनारक्षित	
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	अनारक्षित	
99	अनारक्षित	28	अन्य पिछड़ा वर्ग	
100	अनुसूचित जाति	29	अनारक्षित	
		30	अनुसूचित जाति	
		31	अनारक्षित	

(1)	(2)	(1)	(2)
32	अनुसूचित जनजाति	67	अनारक्षित
33	अनारक्षित	68	अनारक्षित
34	अनारक्षित	69	अन्य पिछड़ा वर्ग
35	अन्य पिछड़ा वर्ग	70	अनारक्षित
36	अनारक्षित	71	अनुसूचित जनजाति
37	अनुसूचित जाति	72	अनारक्षित
38	अनारक्षित	73	अनुसूचित जाति
39	अनारक्षित	74	अनारक्षित
40	अन्य पिछड़ा वर्ग	75	अनारक्षित
41	अनुसूचित जाति	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	अनारक्षित	77	अनारक्षित
43	अनारक्षित	78	अनुसूचित जाति
44	अनुसूचित जनजाति	79	अनारक्षित
45	अनारक्षित	80	अनुसूचित जनजाति
46	अनुसूचित जाति	81	अनारक्षित
47	अनारक्षित	82	अनुसूचित जाति
48	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
49	अनारक्षित	84	अनारक्षित
50	अनारक्षित	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनुसूचित जाति	86	अनारक्षित
52	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जनजाति	88	अनारक्षित
54	अनारक्षित	89	अनुसूचित जाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अनारक्षित
56	अनारक्षित	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
57	अनुसूचित जाति	92	अनारक्षित
58	अनारक्षित	93	अनारक्षित
59	अनारक्षित	94	अनुसूचित जाति
60	अनुसूचित जनजाति	95	अनारक्षित
61	अनारक्षित	96	अनुसूचित जनजाति
62	अनुसूचित जाति	97	अनारक्षित
63	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	99	अनारक्षित
65	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
66	अनुसूचित जाति		

7. जिला-गुना		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 15%		
		अनुसूचित जाति 16%	32	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	33	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		35	अनारक्षित
1	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
2	अनारक्षित		37	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		38	अनुसूचित जनजाति
4	अनारक्षित		39	अनारक्षित
5	अनुसूचित जनजाति		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
6	अनारक्षित		41	अनारक्षित
7	अन्य पिछड़ा वर्ग		42	अनारक्षित
8	अनारक्षित		43	अनुसूचित जाति
9	अनुसूचित जाति		44	अनारक्षित
10	अनारक्षित		45	अनुसूचित जनजाति
11	अनारक्षित		46	अनारक्षित
12	अनुसूचित जनजाति		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	अनारक्षित		48	अनारक्षित
14	अन्य पिछड़ा वर्ग		49	अनुसूचित जाति
15	अनारक्षित		50	अनारक्षित
16	अनुसूचित जाति		51	अनारक्षित
17	अनारक्षित		52	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति		53	अनारक्षित
19	अनारक्षित		54	अनुसूचित जाति
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		55	अनारक्षित
21	अनारक्षित		56	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		57	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति		58	अनुसूचित जनजाति
24	अनारक्षित		59	अनारक्षित
25	अनुसूचित जनजाति		60	अनुसूचित जाति
26	अनारक्षित		61	अनारक्षित
27	अन्य पिछड़ा वर्ग		62	अनारक्षित
28	अनारक्षित		63	अन्य पिछड़ा वर्ग
29	अनुसूचित जाति		64	अनारक्षित
30	अनारक्षित		65	अनुसूचित जनजाति
31	अनारक्षित		66	अनारक्षित

(1)	(2)	8. जिला-अशोकनगर		आरक्षण प्रतिशत	
		रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)	अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग	9% 20% 14%
67	अनुसूचित जाति				
68	अनारक्षित				
69	अन्य पिछड़ा वर्ग				
70	अनारक्षित				
71	अनारक्षित				
72	अनुसूचित जनजाति	1	अनारक्षित		
73	अनारक्षित	2	अनारक्षित		
74	अनुसूचित जाति	3	अनुसूचित जाति		
75	अनारक्षित	4	अनारक्षित		
76	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	अन्य पिछड़ा वर्ग		
77	अनारक्षित	6	अनारक्षित		
78	अनुसूचित जनजाति	7	अनारक्षित		
79	अनारक्षित	8	अनुसूचित जनजाति		
80	अनुसूचित जाति	9	अनारक्षित		
81	अनारक्षित	10	अनुसूचित जाति		
82	अनारक्षित	11	अनारक्षित		
83	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	अन्य पिछड़ा वर्ग		
84	अनारक्षित	13	अनारक्षित		
85	अनुसूचित जनजाति	14	अनुसूचित जाति		
86	अनारक्षित	15	अनारक्षित		
87	अनुसूचित जाति	16	अनारक्षित		
88	अनारक्षित	17	अनुसूचित जनजाति		
89	अनारक्षित	18	अनारक्षित		
90	अन्य पिछड़ा वर्ग	19	अनुसूचित जाति		
91	अनारक्षित	20	अनारक्षित		
92	अनुसूचित जनजाति	21	अन्य पिछड़ा वर्ग		
93	अनारक्षित	22	अनारक्षित		
94	अनुसूचित जाति	23	अनारक्षित		
95	अनारक्षित	24	अनुसूचित जाति		
96	अन्य पिछड़ा वर्ग	25	अनारक्षित		
97	अनारक्षित	26	अनारक्षित		
98	अनुसूचित जनजाति	27	अन्य पिछड़ा वर्ग		
99	अनारक्षित	28	अनारक्षित		
99	अनारक्षित	29	अनुसूचित जाति		
100	अनुसूचित जाति	30	अनारक्षित		
		31	अनुसूचित जनजाति		

(1)	(2)	(1)	(2)
32	अनारक्षित	67	अनारक्षित
33	अन्य पिछड़ा वर्ग	68	अनुसूचित जाति
34	अनारक्षित	69	अनारक्षित
35	अनुसूचित जाति	70	अन्य पिछड़ा वर्ग
36	अनारक्षित	71	अनारक्षित
37	अनारक्षित	72	अनारक्षित
38	अनारक्षित	73	अनुसूचित जाति
39	अनुसूचित जाति	74	अनारक्षित
40	अनारक्षित	75	अनुसूचित जनजाति
41	अन्य पिछड़ा वर्ग	76	अनारक्षित
42	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
43	अनुसूचित जनजाति	78	अनारक्षित
44	अनारक्षित	79	अनारक्षित
45	अनुसूचित जाति	80	अनुसूचित जाति
46	अनारक्षित	81	अनारक्षित
47	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनारक्षित
48	अनारक्षित	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
49	अनारक्षित	84	अनारक्षित
50	अनुसूचित जाति	85	अनुसूचित जाति
51	अनारक्षित	86	अनारक्षित
52	अनुसूचित जनजाति	87	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	88	अनारक्षित
54	अनुसूचित जाति	89	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	90	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
57	अनारक्षित	92	अनारक्षित
58	अनारक्षित	93	अनारक्षित
59	अनुसूचित जाति	94	अनुसूचित जाति
60	अनारक्षित	95	अनारक्षित
61	अनारक्षित	96	अनुसूचित जनजाति
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनारक्षित
63	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
64	अनुसूचित जाति	99	अनारक्षित
65	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
66	अनुसूचित जनजाति		

9. जिला-टीकमगढ़		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 4%		
		अनुसूचित जाति 24%	32	अनुसूचित जाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	33	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		35	अनारक्षित
1	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
2	अनारक्षित		37	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		38	अनारक्षित
4	अनारक्षित		39	अनुसूचित जनजाति
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अनारक्षित
6	अनारक्षित		41	अनुसूचित जाति
7	अनारक्षित		42	अनारक्षित
8	अनुसूचित जाति		43	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	अनारक्षित		44	अनारक्षित
10	अनारक्षित		45	अनारक्षित
11	अनुसूचित जाति		46	अनुसूचित जाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनारक्षित
13	अनारक्षित		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनारक्षित		49	अनारक्षित
15	अनुसूचित जाति		50	अनुसूचित जाति
16	अनारक्षित		51	अनारक्षित
17	अनारक्षित		52	अनारक्षित
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		53	अनुसूचित जाति
19	अनारक्षित		54	अनारक्षित
20	अनुसूचित जनजाति		55	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अनारक्षित		56	अनारक्षित
22	अनुसूचित जाति		57	अनारक्षित
23	अनारक्षित		58	अनुसूचित जाति
24	अनुसूचित जाति		59	अनारक्षित
25	अनारक्षित		60	अनारक्षित
26	अनारक्षित		61	अनुसूचित जाति
27	अन्य पिछड़ा वर्ग		62	अन्य पिछड़ा वर्ग
28	अनारक्षित		63	अनारक्षित
29	अनुसूचित जाति		64	अनारक्षित
30	अनारक्षित		65	अनुसूचित जाति
31	अनारक्षित		66	अनारक्षित

(1)	(2)	10. जिला-छतरपुर		आरक्षण प्रतिशत	
		रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)	अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग	4% 23% 14%
67	अनुसूचित जनजाति				
68	अनारक्षित				
69	अनारक्षित				
70	अन्य पिछड़ा वर्ग				
71	अनारक्षित				
72	अनुसूचित जाति	1	अनारक्षित		
73	अनारक्षित	2	अनारक्षित		
74	अनुसूचित जाति	3	अनुसूचित जाति		
75	अनारक्षित	4	अनारक्षित		
76	अनारक्षित	5	अन्य पिछड़ा वर्ग		
77	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	अनारक्षित		
78	अनारक्षित	7	अनारक्षित		
79	अनुसूचित जाति	8	अनुसूचित जाति		
80	अनारक्षित	9	अनारक्षित		
81	अनारक्षित	10	अनारक्षित		
82	अनुसूचित जाति	11	अन्य पिछड़ा वर्ग		
83	अनारक्षित	12	अनारक्षित		
84	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	अनुसूचित जाति		
85	अनारक्षित	14	अनारक्षित		
86	अनुसूचित जाति	15	अनुसूचित जनजाति		
87	अनारक्षित	16	अनारक्षित		
88	अनारक्षित	17	अनारक्षित		
89	अनारक्षित	18	अनुसूचित जाति		
90	अनुसूचित जनजाति	19	अनारक्षित		
91	अनुसूचित जाति	20	अन्य पिछड़ा वर्ग		
92	अनारक्षित	21	अनारक्षित		
93	अन्य पिछड़ा वर्ग	22	अनुसूचित जाति		
94	अनारक्षित	23	अनारक्षित		
95	अनारक्षित	24	अनारक्षित		
96	अनुसूचित जाति	25	अनुसूचित जाति		
97	अनारक्षित	26	अनारक्षित		
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	अन्य पिछड़ा वर्ग		
99	अनारक्षित	28	अनारक्षित		
99	अनारक्षित	29	अनारक्षित		
100	अनुसूचित जाति	30	अनुसूचित जाति		
		31	अनारक्षित		

(1)	(2)	(1)	(2)
32	अनारक्षित	67	अनारक्षित
33	अन्य पिछड़ा वर्ग	68	अनारक्षित
34	अनारक्षित	69	अनुसूचित जाति
35	अनुसूचित जाति	70	अनारक्षित
36	अनारक्षित	71	अन्य पिछड़ा वर्ग
37	अनारक्षित	72	अनारक्षित
38	अनुसूचित जाति	73	अनारक्षित
39	अनारक्षित	74	अनुसूचित जाति
40	अनुसूचित जनजाति	75	अनारक्षित
41	अनारक्षित	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	अन्य पिछड़ा वर्ग	77	अनारक्षित
43	अनारक्षित	78	अनारक्षित
44	अनुसूचित जाति	79	अनुसूचित जाति
45	अनारक्षित	80	अनारक्षित
46	अनारक्षित	81	अनुसूचित जाति
47	अनुसूचित जाति	82	अनारक्षित
48	अनारक्षित	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	84	अनारक्षित
50	अनारक्षित	85	अनारक्षित
51	अनारक्षित	86	अनुसूचित जाति
52	अनुसूचित जाति	87	अनारक्षित
53	अनारक्षित	88	अनारक्षित
54	अनारक्षित	89	अनुसूचित जनजाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अनारक्षित
56	अनारक्षित	91	अनुसूचित जाति
57	अनुसूचित जाति	92	अनारक्षित
58	अनारक्षित	93	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनारक्षित	94	अनारक्षित
60	अनुसूचित जाति	95	अनारक्षित
61	अनारक्षित	96	अनुसूचित जाति
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनारक्षित
63	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
64	अनुसूचित जाति	99	अनारक्षित
65	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
66	अनुसूचित जनजाति		



11. जिला-पन्ना		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 15%		
		अनुसूचित जाति 20%	32	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	33	अन्य पिछड़ा वर्ग
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		34	अनारक्षित
(1)	(2)		35	अनुसूचित जाति
1	अनारक्षित		36	अनारक्षित
2	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
3	अनुसूचित जाति		38	अनारक्षित
4	अनारक्षित		39	अनुसूचित जाति
5	अनुसूचित जनजाति		40	अनारक्षित
6	अनारक्षित		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अन्य पिछड़ा वर्ग		42	अनारक्षित
8	अनारक्षित		43	अनुसूचित जाति
9	अनुसूचित जाति		44	अनारक्षित
10	अनारक्षित		45	अनुसूचित जनजाति
11	अनुसूचित जनजाति		46	अनारक्षित
12	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		48	अनारक्षित
14	अनारक्षित		49	अनुसूचित जाति
15	अनुसूचित जाति		50	अनारक्षित
16	अनारक्षित		51	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		52	अनुसूचित जनजाति
18	अनारक्षित		53	अनारक्षित
19	अनुसूचित जाति		54	अनुसूचित जाति
20	अनारक्षित		55	अनारक्षित
21	अन्य पिछड़ा वर्ग		56	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		57	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति		58	अनुसूचित जनजाति
24	अनारक्षित		59	अनारक्षित
25	अनुसूचित जनजाति		60	अनुसूचित जाति
26	अनारक्षित		61	अनारक्षित
27	अन्य पिछड़ा वर्ग		62	अन्य पिछड़ा वर्ग
28	अनारक्षित		63	अनारक्षित
29	अनुसूचित जाति		64	अनुसूचित जाति
30	अनारक्षित		65	अनारक्षित
31	अनुसूचित जनजाति		66	अनुसूचित जनजाति

(1)	(2)	12. जिला-सागर		आरक्षण प्रतिशत	
		रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)	अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग	10% 21% 14%
67	अनारक्षित				
68	अनुसूचित जाति				
69	अनारक्षित				
70	अन्य पिछड़ा वर्ग				
71	अनारक्षित				
72	अनुसूचित जनजाति	1	अनारक्षित		
73	अनारक्षित	2	अनारक्षित		
74	अनुसूचित जाति	3	अनुसूचित जाति		
75	अनारक्षित	4	अनारक्षित		
76	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	अन्य पिछड़ा वर्ग		
77	अनारक्षित	6	अनारक्षित		
78	अनुसूचित जनजाति	7	अनुसूचित जनजाति		
79	अनारक्षित	8	अनारक्षित		
80	अनुसूचित जाति	9	अनुसूचित जाति		
81	अनारक्षित	10	अनारक्षित		
82	अनारक्षित	11	अनारक्षित		
83	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	अन्य पिछड़ा वर्ग		
84	अनुसूचित जाति	13	अनारक्षित		
85	अनारक्षित	14	अनुसूचित जाति		
86	अनुसूचित जनजाति	15	अनारक्षित		
87	अनारक्षित	16	अनुसूचित जनजाति		
88	अनुसूचित जाति	17	अनारक्षित		
89	अनारक्षित	18	अनुसूचित जाति		
90	अन्य पिछड़ा वर्ग	19	अनारक्षित		
91	अनारक्षित	20	अन्य पिछड़ा वर्ग		
92	अनुसूचित जनजाति	21	अनारक्षित		
93	अनारक्षित	22	अनारक्षित		
94	अनुसूचित जाति	23	अनुसूचित जाति		
95	अनारक्षित	24	अनारक्षित		
96	अनारक्षित	25	अनारक्षित		
97	अन्य पिछड़ा वर्ग	26	अन्य पिछड़ा वर्ग		
98	अनुसूचित जनजाति	27	अनुसूचित जनजाति		
99	अनारक्षित	28	अनारक्षित		
100	अनुसूचित जाति	29	अनुसूचित जाति		
		30	अनारक्षित		
		31	अनारक्षित		

(1)	(2)	(1)	(2)
32	अनुसूचित जाति	67	अनुसूचित जनजाति
33	अनारक्षित	68	अनारक्षित
34	अन्य पिछड़ा वर्ग	69	अन्य पिछड़ा वर्ग
35	अनारक्षित	70	अनारक्षित
36	अनुसूचित जनजाति	71	अनारक्षित
37	अनारक्षित	72	अनुसूचित जाति
38	अनुसूचित जाति	73	अनारक्षित
39	अनारक्षित	74	अनुसूचित जाति
40	अन्य पिछड़ा वर्ग	75	अनारक्षित
41	अनारक्षित	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	अनारक्षित	77	अनारक्षित
43	अनुसूचित जाति	78	अनुसूचित जनजाति
44	अनारक्षित	79	अनारक्षित
45	अनारक्षित	80	अनुसूचित जाति
46	अनुसूचित जाति	81	अनारक्षित
47	अनुसूचित जनजाति	82	अनारक्षित
48	अनारक्षित	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	84	अनारक्षित
50	अनारक्षित	85	अनुसूचित जाति
51	अनारक्षित	86	अनारक्षित
52	अनुसूचित जाति	87	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	88	अनारक्षित
54	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	90	अनारक्षित
56	अनुसूचित जाति	91	अनारक्षित
57	अनारक्षित	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनुसूचित जनजाति	93	अनारक्षित
59	अनारक्षित	94	अनुसूचित जाति
60	अनुसूचित जाति	95	अनारक्षित
61	अनारक्षित	96	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	97	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
64	अनारक्षित	99	अनारक्षित
65	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जाति
66	अनारक्षित		

13. जिला-दमोह		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 13%		
		अनुसूचित जाति 19%	32	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	33	अन्य पिछड़ा वर्ग
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		34	अनारक्षित
(1)	(2)		35	अनुसूचित जाति
1	अनारक्षित		36	अनारक्षित
2	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
3	अनुसूचित जाति		38	अनारक्षित
4	अनारक्षित		39	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
6	अनारक्षित		41	अनारक्षित
7	अनुसूचित जनजाति		42	अनुसूचित जाति
8	अनारक्षित		43	अनारक्षित
9	अनुसूचित जाति		44	अनुसूचित जनजाति
10	अनारक्षित		45	अनारक्षित
11	अनारक्षित		46	अनुसूचित जाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनारक्षित
13	अनारक्षित		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनुसूचित जनजाति		49	अनारक्षित
15	अनारक्षित		50	अनारक्षित
16	अनुसूचित जाति		51	अनुसूचित जाति
17	अनारक्षित		52	अनारक्षित
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		53	अनुसूचित जनजाति
19	अनारक्षित		54	अनारक्षित
20	अनुसूचित जाति		55	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अनारक्षित		56	अनारक्षित
22	अनुसूचित जनजाति		57	अनुसूचित जाति
23	अनारक्षित		58	अनारक्षित
24	अनुसूचित जाति		59	अनुसूचित जनजाति
25	अनारक्षित		60	अनारक्षित
26	अनारक्षित		61	अनुसूचित जाति
27	अन्य पिछड़ा वर्ग		62	अनारक्षित
28	अनारक्षित		63	अनारक्षित
29	अनुसूचित जनजाति		64	अन्य पिछड़ा वर्ग
30	अनारक्षित		65	अनारक्षित
31	अनुसूचित जाति		66	अनुसूचित जनजाति

(1)	(2)	14. जिला-सतना		आरक्षण प्रतिशत	
		रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)	अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग	14% 16% 14%
67	अनारक्षित				
68	अनुसूचित जाति				
69	अनारक्षित				
70	अन्य पिछड़ा वर्ग				
71	अनारक्षित				
72	अनुसूचित जाति	1	अनारक्षित		
73	अनारक्षित	2	अनारक्षित		
74	अनुसूचित जनजाति	3	अनुसूचित जाति		
75	अनारक्षित	4	अनारक्षित		
76	अनारक्षित	5	अन्य पिछड़ा वर्ग		
77	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	अनारक्षित		
78	अनारक्षित	7	अनुसूचित जनजाति		
79	अनुसूचित जाति	8	अनारक्षित		
80	अनारक्षित	9	अनारक्षित		
81	अनुसूचित जनजाति	10	अनुसूचित जाति		
82	अनारक्षित	11	अनारक्षित		
83	अनुसूचित जाति	12	अन्य पिछड़ा वर्ग		
84	अनारक्षित	13	अनारक्षित		
85	अन्य पिछड़ा वर्ग	14	अनुसूचित जनजाति		
86	अनारक्षित	15	अनारक्षित		
87	अनुसूचित जाति	16	अनुसूचित जाति		
88	अनारक्षित	17	अनारक्षित		
89	अनारक्षित	18	अनारक्षित		
90	अनुसूचित जनजाति	19	अन्य पिछड़ा वर्ग		
91	अनारक्षित	20	अनारक्षित		
92	अन्य पिछड़ा वर्ग	21	अनुसूचित जनजाति		
93	अनारक्षित	22	अनारक्षित		
94	अनुसूचित जाति	23	अनुसूचित जाति		
95	अनारक्षित	24	अनारक्षित		
96	अनुसूचित जनजाति	25	अनारक्षित		
97	अनारक्षित	26	अन्य पिछड़ा वर्ग		
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	अनारक्षित		
99	अनारक्षित	28	अनुसूचित जनजाति		
100	अनुसूचित जाति	29	अनारक्षित		
		30	अनुसूचित जाति		
		31	अनारक्षित		

(1)	(2)	(1)	(2)
32	अनारक्षित	67	अनारक्षित
33	अन्य पिछड़ा वर्ग	68	अनारक्षित
34	अनारक्षित	69	अन्य पिछड़ा वर्ग
35	अनुसूचित जनजाति	70	अनारक्षित
36	अनारक्षित	71	अनुसूचित जनजाति
37	अनुसूचित जाति	72	अनारक्षित
38	अनारक्षित	73	अनुसूचित जाति
39	अनारक्षित	74	अनारक्षित
40	अन्य पिछड़ा वर्ग	75	अन्य पिछड़ा वर्ग
41	अनुसूचित जनजाति	76	अनारक्षित
42	अनारक्षित	77	अनारक्षित
43	अनारक्षित	78	अनुसूचित जनजाति
44	अनुसूचित जाति	79	अनारक्षित
45	अनारक्षित	80	अनुसूचित जाति
46	अनारक्षित	81	अनारक्षित
47	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनारक्षित
48	अनुसूचित जनजाति	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
49	अनारक्षित	84	अनारक्षित
50	अनुसूचित जाति	85	अनुसूचित जनजाति
51	अनारक्षित	86	अनारक्षित
52	अनारक्षित	87	अनुसूचित जाति
53	अनुसूचित जाति	88	अनारक्षित
54	अनारक्षित	89	अनारक्षित
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
56	अनारक्षित	91	अनारक्षित
57	अनुसूचित जनजाति	92	अनुसूचित जनजाति
58	अनारक्षित	93	अनारक्षित
59	अनारक्षित	94	अनुसूचित जाति
60	अनुसूचित जाति	95	अनारक्षित
61	अनारक्षित	96	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अन्य पिछड़ा वर्ग
63	अनारक्षित	98	अनुसूचित जनजाति
64	अनुसूचित जनजाति	99	अनारक्षित
65	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
66	अनुसूचित जाति		

15. जिला-रीवा		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 13%		
		अनुसूचित जाति 16%	30	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	31	अनुसूचित जाति
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		32	अनारक्षित
(1)	(2)		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		34	अनारक्षित
2	अनारक्षित		35	अनुसूचित जनजाति
3	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
4	अनारक्षित		37	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनुसूचित जाति
6	अनारक्षित		39	अनारक्षित
7	अनुसूचित जनजाति		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		41	अनारक्षित
9	अनारक्षित		42	अनुसूचित जाति
10	अनुसूचित जाति		43	अनारक्षित
11	अनारक्षित		44	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनुसूचित जनजाति
13	अनारक्षित		46	अनारक्षित
14	अनुसूचित जनजाति		47	अनुसूचित जाति
15	अनारक्षित		48	अनारक्षित
16	अनारक्षित		49	अन्य पिछड़ा वर्ग
17	अनुसूचित जाति		50	अनारक्षित
18	अनारक्षित		51	अनारक्षित
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		52	अनुसूचित जनजाति
20	अनारक्षित		53	अनारक्षित
21	अनुसूचित जनजाति		54	अनुसूचित जाति
22	अनारक्षित		55	अनारक्षित
23	अनारक्षित		56	अन्य पिछड़ा वर्ग
24	अनुसूचित जाति		57	अनारक्षित
25	अनारक्षित		58	अनारक्षित
26	अन्य पिछड़ा वर्ग		59	अनुसूचित जनजाति
27	अनारक्षित		60	अनारक्षित
28	अनुसूचित जनजाति		61	अनुसूचित जाति
29	अनारक्षित		62	अनारक्षित

(1)	(2)	(1)	(2)
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	98	अनारक्षित
64	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
66	अनुसूचित जनजाति		
67	अनारक्षित	16. जिला शहडोल	आरक्षण प्रतिशत
68	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति 43%
69	अनारक्षित		अनुसूचित जाति 7%
70	अन्य पिछड़ा वर्ग		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%
71	अनारक्षित	रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित
72	अनारक्षित	(1)	(2)
73	अनुसूचित जाति	1	अनारक्षित
74	अनारक्षित	2	अनुसूचित जनजाति
75	अनुसूचित जनजाति	3	अनारक्षित
76	अनारक्षित	4	अनुसूचित जनजाति
77	अनारक्षित	5	अनारक्षित
78	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	अन्य पिछड़ा वर्ग
79	अनारक्षित	7	अनुसूचित जनजाति
80	अनुसूचित जाति	8	अनारक्षित
81	अनारक्षित	9	अनुसूचित जनजाति
82	अनुसूचित जनजाति	10	अनुसूचित जाति
83	अनारक्षित	11	अनारक्षित
84	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	अनुसूचित जनजाति
85	अनारक्षित	13	अन्य पिछड़ा वर्ग
86	अनारक्षित	14	अनारक्षित
87	अनुसूचित जाति	15	अनुसूचित जनजाति
88	अनारक्षित	16	अनुसूचित जनजाति
89	अनुसूचित जनजाति	17	अनारक्षित
90	अनारक्षित	18	अनुसूचित जनजाति
91	अन्य पिछड़ा वर्ग	19	अन्य पिछड़ा वर्ग
92	अनारक्षित	20	अनारक्षित
93	अनारक्षित	21	अनुसूचित जनजाति
94	अनुसूचित जाति	22	अनारक्षित
95	अनारक्षित	23	अनुसूचित जाति
96	अनारक्षित	24	अनुसूचित जनजाति
97	अनुसूचित जनजाति	25	अनारक्षित



(1)	(2)	(1)	(2)
26	अनुसूचित जनजाति	61	अनारक्षित
27	अनारक्षित	62	अन्य पिछड़ा वर्ग
28	अन्य पिछड़ा वर्ग	63	अनारक्षित
29	अनुसूचित जनजाति	64	अनुसूचित जनजाति
30	अनारक्षित	65	अनुसूचित जनजाति
31	अनुसूचित जनजाति	66	अनारक्षित
32	अनुसूचित जनजाति	67	अनुसूचित जाति
33	अनारक्षित	68	अनुसूचित जनजाति
34	अन्य पिछड़ा वर्ग	69	अनारक्षित
35	अनुसूचित जनजाति	70	अनुसूचित जनजाति
36	अनारक्षित	71	अन्य पिछड़ा वर्ग
37	अनुसूचित जनजाति	72	अनारक्षित
38	अनारक्षित	73	अनुसूचित जनजाति
39	अनुसूचित जाति	74	अनुसूचित जनजाति
40	अनुसूचित जनजाति	75	अनारक्षित
41	अनारक्षित	76	अनुसूचित जनजाति
42	अन्य पिछड़ा वर्ग	77	अनारक्षित
43	अनुसूचित जनजाति	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
44	अनारक्षित	79	अनुसूचित जनजाति
45	अनुसूचित जनजाति	80	अनारक्षित
46	अनुसूचित जनजाति	81	अनुसूचित जाति
47	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
48	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
49	अनारक्षित	84	अनुसूचित जनजाति
50	अनुसूचित जनजाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनुसूचित जनजाति	86	अनारक्षित
52	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जाति	88	अनुसूचित जनजाति
54	अनुसूचित जनजाति	89	अनारक्षित
55	अनारक्षित	90	अनुसूचित जनजाति
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
57	अनुसूचित जनजाति	92	अनारक्षित
58	अनारक्षित	93	अनुसूचित जनजाति
59	अनुसूचित जनजाति	94	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति	95	अनुसूचित जनजाति

(1)	(2)	(1)	(2)
96	अनुसूचित जाति	19	अन्य पिछड़ा वर्ग
97	अनारक्षित	20	अनारक्षित
98	अनुसूचित जनजाति	21	अनुसूचित जनजाति
99	अन्य पिछड़ा वर्ग	22	अनारक्षित
100	अनुसूचित जनजाति	23	अनुसूचित जनजाति
17. जिला उमरिया	आरक्षण प्रतिशत	24	अनुसूचित जाति
	अनुसूचित जनजाति 44%	25	अनारक्षित
	अनुसूचित जाति 7%	26	अनुसूचित जनजाति
	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	27	अन्य पिछड़ा वर्ग
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	28	अनारक्षित
(1)	(2)	29	अनुसूचित जनजाति
1	अनारक्षित	30	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति	31	अनारक्षित
3	अनारक्षित	32	अनुसूचित जनजाति
4	अनुसूचित जनजाति	33	अन्य पिछड़ा वर्ग
5	अनारक्षित	34	अनारक्षित
6	अन्य पिछड़ा वर्ग	35	अनुसूचित जनजाति
7	अनुसूचित जनजाति	36	अनुसूचित जनजाति
8	अनारक्षित	37	अनारक्षित
9	अनुसूचित जनजाति	38	अनुसूचित जाति
10	अनुसूचित जाति	39	अनुसूचित जनजाति
11	अनारक्षित	40	अनारक्षित
12	अनुसूचित जनजाति	41	अनुसूचित जनजाति
13	अन्य पिछड़ा वर्ग	42	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनारक्षित	43	अनारक्षित
15	अनुसूचित जनजाति	44	अनुसूचित जनजाति
16	अनुसूचित जनजाति	45	अनारक्षित
17	अनारक्षित	46	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति		

(1)	(2)	(1)	(2)
47	अनुसूचित जनजाति	74	अनारक्षित
48	अनारक्षित	75	अनुसूचित जनजाति
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
50	अनुसूचित जनजाति	77	अनारक्षित
51	अनारक्षित	78	अनुसूचित जनजाति
52	अनुसूचित जाति	79	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जनजाति	80	अनारक्षित
54	अनारक्षित	81	अनुसूचित जाति
55	अनुसूचित जनजाति	82	अनुसूचित जनजाति
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
57	अनारक्षित	84	अनुसूचित जनजाति
58	अनुसूचित जनजाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनुसूचित जनजाति	86	अनारक्षित
60	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	89	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
64	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
65	अनारक्षित	92	अनारक्षित
66	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
67	अनुसूचित जाति	94	अनारक्षित
68	अनारक्षित	95	अनुसूचित जनजाति
69	अनुसूचित जनजाति	96	अनुसूचित जाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनारक्षित
71	अनुसूचित जनजाति	98	अनुसूचित जनजाति
72	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति

18. जिला—अनूपपुर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 46 %		
		अनुसूचित जाति 7 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अनुसूचित जनजाति
1	अनारक्षित		27	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति		28	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनारक्षित		29	अनुसूचित जनजाति
4	अनुसूचित जनजाति		30	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनुसूचित जनजाति
6	अनारक्षित		32	अनुसूचित जनजाति
7	अनुसूचित जनजाति		33	अनारक्षित
8	अनुसूचित जनजाति		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	अनारक्षित		35	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
11	अनुसूचित जनजाति		37	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनुसूचित जाति
13	अनारक्षित		39	अनारक्षित
14	अनुसूचित जनजाति		40	अनुसूचित जनजाति
15	अनारक्षित		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनुसूचित जनजाति		42	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
18	अनारक्षित		44	अनुसूचित जनजाति
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
20	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जनजाति
21	अनारक्षित		47	अनुसूचित जनजाति
22	अनुसूचित जनजाति		48	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति		49	अन्य पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनुसूचित जनजाति
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जाति	78	अनारक्षित
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनुसूचित जनजाति
54	अनारक्षित	80	अनुसूचित जनजाति
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनुसूचित जाति
57	अनारक्षित	83	अनुसूचित जनजाति
58	अनुसूचित जनजाति	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जनजाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनारक्षित	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनारक्षित	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनुसूचित जनजाति	90	अनारक्षित
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनारक्षित	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनुसूचित जाति	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जाति
70	अनुसूचित जनजाति	96	अनारक्षित
71	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जनजाति	99	अनुसूचित जनजाति
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

19. जिला—सीधी		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 28 %		
		अनुसूचित जाति 11 %	24	अनुसूचित जाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अनारक्षित
1	अनारक्षित		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति		28	अनारक्षित
3	अनारक्षित		29	अनुसूचित जनजाति
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		30	अनारक्षित
5	अनारक्षित		31	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जनजाति		32	अनारक्षित
7	अनारक्षित		33	अनुसूचित जाति
8	अनुसूचित जाति		34	अनारक्षित
9	अनारक्षित		35	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	अनुसूचित जनजाति		36	अनारक्षित
11	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनारक्षित
13	अनारक्षित		39	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति		40	अनारक्षित
15	अनारक्षित		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनुसूचित जाति		42	अनारक्षित
17	अनारक्षित		43	अनुसूचित जनजाति
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		44	अनुसूचित जाति
19	अनारक्षित		45	अनारक्षित
20	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जनजाति
21	अनारक्षित		47	अनारक्षित
22	अनुसूचित जनजाति		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
23	अनारक्षित		49	अनारक्षित

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अनुसूचित जनजाति	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अनुसूचित जाति	88	अनुसूचित जाति
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनुसूचित जनजाति	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनारक्षित	94	अनारक्षित
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनुसूचित जनजाति
70	अनारक्षित	96	अनारक्षित
71	अनुसूचित जनजाति	97	अन्य पिछड़ा वर्ग
72	अनुसूचित जाति	98	अनुसूचित जाति
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

20. जिला—सिंगरौली		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 32 %		
		अनुसूचित जाति 13 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		27	अनुसूचित जनजाति
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जाति
3	अनारक्षित		30	अनारक्षित
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनुसूचित जनजाति
5	अनारक्षित		32	अनारक्षित
6	अनुसूचित जाति		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अनुसूचित जनजाति		34	अनारक्षित
8	अनारक्षित		35	अनुसूचित जनजाति
9	अनुसूचित जनजाति		36	अनारक्षित
10	अनारक्षित		37	अनुसूचित जाति
11	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनुसूचित जनजाति
12	अनारक्षित		39	अनारक्षित
13	अनुसूचित जनजाति		40	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जाति		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	अनारक्षित		42	अनारक्षित
16	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
17	अनारक्षित		44	अनारक्षित
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनुसूचित जाति
19	अनुसूचित जनजाति		46	अनारक्षित
20	अनारक्षित		47	अनुसूचित जनजाति
21	अनुसूचित जनजाति		48	अनारक्षित
22	अनुसूचित जाति		49	अन्य पिछड़ा वर्ग
23	अनारक्षित			



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनुसूचित जनजाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनुसूचित जाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनुसूचित जनजाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनुसूचित जाति	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अनुसूचित जनजाति	89	अनुसूचित जाति
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनुसूचित जनजाति	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनुसूचित जनजाति	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनुसूचित जनजाति
71	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनुसूचित जाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनुसूचित जनजाति		

21. जिला—मंदसौर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
	अनुसूचित जनजाति	3 %		
	अनुसूचित जाति	18 %	24	अनुसूचित जनजाति
	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अनारक्षित
(1)	(2)		27	अनुसूचित जाति
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनारक्षित		29	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनुसूचित जाति		30	अनारक्षित
4	अनारक्षित		31	अनारक्षित
5	अनारक्षित		32	अनुसूचित जाति
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		33	अनारक्षित
7	अनारक्षित		34	अनारक्षित
8	अनारक्षित		35	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
10	अनारक्षित		37	अनारक्षित
11	अनारक्षित		38	अनुसूचित जाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनारक्षित
13	अनारक्षित		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनारक्षित		41	अनारक्षित
15	अनुसूचित जाति		42	अनारक्षित
16	अनारक्षित		43	अनुसूचित जाति
17	अनारक्षित		44	अनारक्षित
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
19	अनारक्षित		46	अनारक्षित
20	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अनुसूचित जाति		48	अनारक्षित
22	अनारक्षित		49	अनुसूचित जाति
23	अनारक्षित			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अनुसूचित जाति
52	अनारक्षित	78	अनारक्षित
53	अनुसूचित जाति	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अनारक्षित	81	अनुसूचित जाति
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनारक्षित
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनुसूचित जनजाति	85	अनारक्षित
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनुसूचित जाति	87	अनुसूचित जाति
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनुसूचित जाति	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनारक्षित	94	अनुसूचित जाति
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अन्य पिछड़ा वर्ग
72	अनुसूचित जाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
75	अन्य पिछड़ा वर्ग		

22. जिला—नीमच		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 9 %		
		अनुसूचित जाति 13 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		27	अनारक्षित
1	अनारक्षित		28	अनुसूचित जाति
2	अनारक्षित		29	अनारक्षित
3	अन्य पिछड़ा वर्ग		30	अनारक्षित
4	अनारक्षित		31	अनुसूचित जनजाति
5	अनारक्षित		32	अनारक्षित
6	अनुसूचित जाति		33	अनारक्षित
7	अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		35	अनारक्षित
9	अनुसूचित जनजाति		36	अनारक्षित
10	अनारक्षित		37	अनुसूचित जाति
11	अनारक्षित		38	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनारक्षित
13	अनारक्षित		40	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जाति		41	अनारक्षित
15	अनारक्षित		42	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		43	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		44	अनारक्षित
18	अनारक्षित		45	अनुसूचित जाति
19	अनारक्षित		46	अनारक्षित
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनारक्षित
21	अनारक्षित		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		49	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनुसूचित जाति	77	अनारक्षित
52	अनारक्षित	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनुसूचित जाति
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनुसूचित जाति	85	अनारक्षित
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनारक्षित
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अनुसूचित जनजाति	90	अनुसूचित जाति
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनारक्षित	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनुसूचित जाति	93	अनारक्षित
68	अनारक्षित	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जनजाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनारक्षित	98	अनुसूचित जाति
73	अनुसूचित जनजाति	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अन्य पिछड़ा वर्ग
75	अनुसूचित जाति		

23. जिला—रतलाम		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 26 %		
		अनुसूचित जाति 13 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अन्य पिछड़ा वर्ग
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अनारक्षित
(1)	(2)		27	अनुसूचित जनजाति
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जाति
3	अनारक्षित		30	अनारक्षित
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनुसूचित जनजाति
5	अनारक्षित		32	अनारक्षित
6	अनुसूचित जाति		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अनारक्षित		34	अनुसूचित जनजाति
8	अनुसूचित जनजाति		35	अनारक्षित
9	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
10	अनुसूचित जनजाति		37	अनारक्षित
11	अनारक्षित		38	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनारक्षित
13	अनारक्षित		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनुसूचित जाति		41	अनारक्षित
15	अनारक्षित		42	अनुसूचित जनजाति
16	अनुसूचित जनजाति		43	अनारक्षित
17	अनारक्षित		44	अनुसूचित जाति
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
19	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जनजाति
20	अनारक्षित		47	अनारक्षित
21	अनुसूचित जाति		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		49	अनारक्षित
23	अनुसूचित जनजाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनुसूचित जनजाति
51	अनुसूचित जाति	77	अनारक्षित
52	अनारक्षित	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनुसूचित जनजाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनुसूचित जाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनुसूचित जनजाति	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जनजाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अनुसूचित जाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

24. जिला—उज्जैन		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
	अनुसूचित जनजाति	3 %		
	अनुसूचित जाति	25 %	24	अनुसूचित जाति
	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अनारक्षित
(1)	(2)		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनारक्षित		29	अनुसूचित जाति
3	अनुसूचित जाति		30	अनारक्षित
4	अनारक्षित		31	अनुसूचित जाति
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनारक्षित
6	अनारक्षित		33	अनारक्षित
7	अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनुसूचित जाति		35	अनारक्षित
9	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
10	अनुसूचित जाति		37	अनारक्षित
11	अनारक्षित		38	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनुसूचित जाति
13	अनारक्षित		40	अनारक्षित
14	अनारक्षित		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	अनुसूचित जाति		42	अनारक्षित
16	अनारक्षित		43	अनुसूचित जाति
17	अनारक्षित		44	अनारक्षित
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
19	अनारक्षित		46	अनुसूचित जाति
20	अनुसूचित जाति		47	अनारक्षित
21	अनारक्षित		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनुसूचित जनजाति		49	अनारक्षित
23	अनारक्षित			



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जाति	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनारक्षित	78	अनारक्षित
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनुसूचित जाति
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अनुसूचित जाति	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जाति
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अन्य पिछड़ा वर्ग	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जाति	86	अनुसूचित जाति
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनारक्षित
63	अनारक्षित	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनुसूचित जाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जाति	93	अन्य पिछड़ा वर्ग
68	अनारक्षित	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनुसूचित जाति
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनुसूचित जाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जाति
75	अनारक्षित		

25. जिला—शाजापुर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 3 %		
		अनुसूचित जाति 22 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अनुसूचित जाति
(1)	(2)		27	अनारक्षित
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनारक्षित		29	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनुसूचित जाति		30	अनारक्षित
4	अनारक्षित		31	अनुसूचित जाति
5	अनारक्षित		32	अनारक्षित
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		33	अनारक्षित
7	अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनुसूचित जाति		35	अनारक्षित
9	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
10	अनारक्षित		37	अनारक्षित
11	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनारक्षित
12	अनारक्षित		39	अनुसूचित जाति
13	अनुसूचित जाति		40	अनारक्षित
14	अनारक्षित		41	अनारक्षित
15	अनारक्षित		42	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनुसूचित जाति		43	अनारक्षित
17	अनारक्षित		44	अनुसूचित जाति
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
19	अनारक्षित		46	अनारक्षित
20	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अनुसूचित जाति		48	अनारक्षित
22	अनारक्षित		49	अनुसूचित जाति
23	अनारक्षित			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अनुसूचित जाति
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनारक्षित
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जाति	80	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनारक्षित
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनारक्षित	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जाति	85	अनुसूचित जाति
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अनुसूचित जाति
65	अनुसूचित जाति	91	अनारक्षित
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जाति	93	अन्य पिछड़ा वर्ग
68	अनारक्षित	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनुसूचित जाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
75	अन्य पिछड़ा वर्ग		

26. जिला—देवास		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 16 %		
		अनुसूचित जाति 18 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		27	अनारक्षित
1	अनारक्षित		28	अनुसूचित जाति
2	अनारक्षित		29	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		30	अनुसूचित जनजाति
4	अनारक्षित		31	अनारक्षित
5	अनुसूचित जनजाति		32	अनुसूचित जाति
6	अनारक्षित		33	अनारक्षित
7	अन्य पिछड़ा वर्ग		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		35	अनारक्षित
9	अनुसूचित जाति		36	अनुसूचित जनजाति
10	अनारक्षित		37	अनारक्षित
11	अनुसूचित जनजाति		38	अनुसूचित जाति
12	अनारक्षित		39	अनारक्षित
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनारक्षित		41	अनारक्षित
15	अनुसूचित जाति		42	अनुसूचित जनजाति
16	अनारक्षित		43	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		44	अनुसूचित जाति
18	अनारक्षित		45	अनारक्षित
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		46	अनारक्षित
20	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अनुसूचित जाति		48	अनुसूचित जनजाति
22	अनारक्षित		49	अनारक्षित
23	अनुसूचित जनजाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जाति	76	अनुसूचित जाति
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनारक्षित	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
53	अनुसूचित जाति	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनुसूचित जनजाति
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जाति
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनुसूचित जाति	85	अनारक्षित
60	अनारक्षित	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनारक्षित
62	अनारक्षित	88	अनुसूचित जाति
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनुसूचित जाति	91	अनारक्षित
66	अनारक्षित	92	अनुसूचित जनजाति
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनारक्षित
68	अनारक्षित	94	अनुसूचित जाति
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनारक्षित
71	अनुसूचित जाति	97	अन्य पिछड़ा वर्ग
72	अनारक्षित	98	अनुसूचित जनजाति
73	अनुसूचित जनजाति	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
75	अनारक्षित		

27. जिला—झाबुआ		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 85 %		
		अनुसूचित जाति 2 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 5 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अनुसूचित जनजाति
1	अनारक्षित		27	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति		28	अनुसूचित जनजाति
3	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जनजाति
4	अनुसूचित जनजाति		30	अनुसूचित जनजाति
5	अनुसूचित जनजाति		31	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जनजाति		32	अनुसूचित जनजाति
7	अनुसूचित जनजाति		33	अनुसूचित जनजाति
8	अनुसूचित जनजाति		34	अनुसूचित जनजाति
9	अनुसूचित जनजाति		35	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति		36	अनारक्षित
11	अनुसूचित जनजाति		37	अनुसूचित जनजाति
12	अनुसूचित जनजाति		38	अनुसूचित जनजाति
13	अनारक्षित		39	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	अनुसूचित जनजाति		41	अनुसूचित जनजाति
16	अनुसूचित जनजाति		42	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		44	अनुसूचित जनजाति
19	अनुसूचित जनजाति		45	अनुसूचित जनजाति
20	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जनजाति
21	अनुसूचित जनजाति		47	अनुसूचित जनजाति
22	अनुसूचित जनजाति		48	अनुसूचित जाति
23	अनुसूचित जनजाति		49	अनुसूचित जनजाति

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनुसूचित जनजाति
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनुसूचित जनजाति
52	अनुसूचित जनजाति	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनुसूचित जनजाति
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनुसूचित जनजाति
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनुसूचित जनजाति
56	अनुसूचित जनजाति	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनारक्षित
58	अनुसूचित जनजाति	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनुसूचित जनजाति	85	अनुसूचित जनजाति
60	अन्य पिछड़ा वर्ग	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनुसूचित जनजाति	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनुसूचित जनजाति	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जनजाति	92	अनुसूचित जनजाति
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनुसूचित जनजाति	95	अनुसूचित जाति
70	अनुसूचित जनजाति	96	अनुसूचित जनजाति
71	अनुसूचित जनजाति	97	अनारक्षित
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनुसूचित जनजाति
73	अनुसूचित जनजाति	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनुसूचित जनजाति		

28. जिला—अलीराजपुर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 89 %		
		अनुसूचित जाति 4 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 5 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अनुसूचित जनजाति
1	अनारक्षित		27	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति		28	अनुसूचित जनजाति
3	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जनजाति
4	अनुसूचित जनजाति		30	अनुसूचित जनजाति
5	अनुसूचित जनजाति		31	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जनजाति		32	अनुसूचित जनजाति
7	अनुसूचित जनजाति		33	अनुसूचित जनजाति
8	अनुसूचित जनजाति		34	अनुसूचित जनजाति
9	अनुसूचित जनजाति		35	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति		36	अनुसूचित जनजाति
11	अनुसूचित जनजाति		37	अनुसूचित जनजाति
12	अनुसूचित जनजाति		38	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	अनुसूचित जनजाति		39	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति		40	अनुसूचित जनजाति
15	अनुसूचित जनजाति		41	अनुसूचित जनजाति
16	अनुसूचित जनजाति		42	अनुसूचित जनजाति
17	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		44	अनुसूचित जनजाति
19	अनुसूचित जनजाति		45	अनुसूचित जनजाति
20	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जनजाति
21	अनुसूचित जनजाति		47	अनुसूचित जनजाति
22	अनुसूचित जनजाति		48	अनुसूचित जाति
23	अनुसूचित जाति		49	अनुसूचित जनजाति



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनुसूचित जनजाति
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनुसूचित जनजाति
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनुसूचित जनजाति
54	अनुसूचित जनजाति	80	अन्य पिछड़ा वर्ग
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनुसूचित जनजाति
56	अनुसूचित जनजाति	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनुसूचित जनजाति
58	अनुसूचित जनजाति	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनुसूचित जनजाति	85	अनुसूचित जनजाति
60	अन्य पिछड़ा वर्ग	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनुसूचित जनजाति	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनुसूचित जनजाति	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनारक्षित	92	अनुसूचित जनजाति
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनुसूचित जनजाति	95	अनुसूचित जनजाति
70	अनुसूचित जनजाति	96	अनुसूचित जाति
71	अनुसूचित जनजाति	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जाति	99	अनुसूचित जनजाति
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनुसूचित जनजाति		

29. जिला—धार		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 55 %		
		अनुसूचित जाति 6 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		27	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति		28	अनारक्षित
3	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जनजाति
4	अनारक्षित		30	अनुसूचित जाति
5	अनुसूचित जनजाति		31	अनुसूचित जनजाति
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनारक्षित
7	अनुसूचित जनजाति		33	अनुसूचित जनजाति
8	अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	अनुसूचित जनजाति		35	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
11	अनुसूचित जनजाति		37	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनुसूचित जनजाति
13	अनारक्षित		39	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनुसूचित जनजाति		40	अनुसूचित जनजाति
15	अनुसूचित जनजाति		41	अनारक्षित
16	अनारक्षित		42	अनुसूचित जनजाति
17	अनुसूचित जनजाति		43	अन्य पिछड़ा वर्ग
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		44	अनारक्षित
19	अनुसूचित जनजाति		45	अनुसूचित जनजाति
20	अनारक्षित		46	अनुसूचित जाति
21	अनुसूचित जनजाति		47	अनुसूचित जनजाति
22	अनुसूचित जनजाति		48	अनारक्षित
23	अनुसूचित जनजाति		49	अनुसूचित जनजाति

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अन्य पिछड़ा वर्ग	76	अनारक्षित
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनुसूचित जनजाति
52	अनारक्षित	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनुसूचित जाति
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनारक्षित
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनुसूचित जनजाति
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनुसूचित जनजाति	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जाति	85	अनुसूचित जनजाति
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनुसूचित जनजाति	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनारक्षित	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जनजाति	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनारक्षित	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनुसूचित जनजाति	95	अनुसूचित जाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनारक्षित
71	अनुसूचित जनजाति	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनारक्षित	98	अनुसूचित जनजाति
73	अनुसूचित जनजाति	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अन्य पिछड़ा वर्ग		

30. जिला—इंदौर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 7 %		
		अनुसूचित जाति 16 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अनारक्षित
1	अनारक्षित		27	अनारक्षित
2	अनारक्षित		28	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनुसूचित जाति		29	अनारक्षित
4	अनारक्षित		30	अनुसूचित जाति
5	अनारक्षित		31	अनारक्षित
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनारक्षित
7	अनारक्षित		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		34	अनारक्षित
9	अनुसूचित जनजाति		35	अनारक्षित
10	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
11	अनुसूचित जाति		37	अनारक्षित
12	अनारक्षित		38	अनुसूचित जनजाति
13	अनारक्षित		39	अनारक्षित
14	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अनारक्षित
15	अनारक्षित		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		42	अनारक्षित
17	अनुसूचित जाति		43	अनारक्षित
18	अनारक्षित		44	अनुसूचित जाति
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
20	अनारक्षित		46	अनारक्षित
21	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनुसूचित जनजाति		48	अनारक्षित
23	अनारक्षित		49	अनुसूचित जाति

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनारक्षित
53	अनारक्षित	79	अनुसूचित जाति
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अनुसूचित जाति	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जाति	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनुसूचित जाति
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनारक्षित
66	अनारक्षित	92	अनुसूचित जाति
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जाति	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जनजाति
70	अनारक्षित	96	अनारक्षित
71	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनारक्षित
72	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जाति	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
75	अनारक्षित		

31. जिला—खरगौन		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 35 %		
		अनुसूचित जाति 11 %	24	अनुसूचित जाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अनुसूचित जनजाति
(1)	(2)		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जनजाति
3	अनारक्षित		30	अनारक्षित
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनुसूचित जनजाति
5	अनुसूचित जनजाति		32	अनारक्षित
6	अनारक्षित		33	अनुसूचित जाति
7	अनुसूचित जाति		34	अनुसूचित जनजाति
8	अनारक्षित		35	अनारक्षित
9	अनुसूचित जनजाति		36	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
11	अनुसूचित जनजाति		38	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनुसूचित जनजाति
13	अनारक्षित		40	अनारक्षित
14	अनुसूचित जनजाति		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	अनारक्षित		42	अनारक्षित
16	अनुसूचित जाति		43	अनुसूचित जनजाति
17	अनुसूचित जनजाति		44	अनुसूचित जाति
18	अनारक्षित		45	अनारक्षित
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		46	अनुसूचित जनजाति
20	अनुसूचित जनजाति		47	अनारक्षित
21	अनारक्षित		48	अनुसूचित जनजाति
22	अनुसूचित जनजाति		49	अन्य पिछड़ा वर्ग
23	अनारक्षित			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनारक्षित
52	अनारक्षित	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जाति	79	अनुसूचित जाति
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनारक्षित
55	अनारक्षित	81	अनुसूचित जनजाति
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनारक्षित
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनुसूचित जनजाति
58	अनारक्षित	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जनजाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनारक्षित	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जाति	87	अनारक्षित
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनारक्षित	89	अनुसूचित जाति
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अनारक्षित
65	अनारक्षित	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जनजाति	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनुसूचित जनजाति
71	अनुसूचित जाति	97	अनुसूचित जाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

32. जिला—बड़वानी		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 67 %		
		अनुसूचित जाति 6 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		27	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति		28	अनुसूचित जनजाति
3	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जाति
4	अनुसूचित जनजाति		30	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जनजाति		32	अनुसूचित जनजाति
7	अनारक्षित		33	अनुसूचित जनजाति
8	अनुसूचित जनजाति		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	अनुसूचित जनजाति		35	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति		36	अनुसूचित जनजाति
11	अनुसूचित जाति		37	अनुसूचित जनजाति
12	अनुसूचित जनजाति		38	अनारक्षित
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति		40	अनुसूचित जनजाति
15	अनुसूचित जनजाति		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		42	अनुसूचित जनजाति
17	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति		44	अनुसूचित जाति
19	अनुसूचित जनजाति		45	अनुसूचित जनजाति
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		46	अनुसूचित जनजाति
21	अनुसूचित जनजाति		47	अनारक्षित
22	अनुसूचित जनजाति		48	अनुसूचित जनजाति
23	अनारक्षित		49	अन्य पिछड़ा वर्ग



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनुसूचित जनजाति
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	79	अनुसूचित जनजाति
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनुसूचित जाति
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनुसूचित जनजाति
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनुसूचित जनजाति	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनुसूचित जाति	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनुसूचित जनजाति	89	अनुसूचित जनजाति
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जनजाति	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जाति
70	अनुसूचित जनजाति	96	अनुसूचित जनजाति
71	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जनजाति	99	अनुसूचित जनजाति
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अन्य पिछड़ा वर्ग		

33. जिला—खण्डवा		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 32 %		
		अनुसूचित जाति 12 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित / अनारक्षित (2)		26	अनारक्षित
1	अनारक्षित		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति		28	अनारक्षित
3	अनारक्षित		29	अनुसूचित जनजाति
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		30	अनारक्षित
5	अनारक्षित		31	अनुसूचित जाति
6	अनुसूचित जाति		32	अनुसूचित जनजाति
7	अनारक्षित		33	अनारक्षित
8	अनुसूचित जनजाति		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	अनारक्षित		35	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति		36	अनारक्षित
11	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनारक्षित
13	अनुसूचित जनजाति		39	अनुसूचित जाति
14	अनारक्षित		40	अनारक्षित
15	अनुसूचित जाति		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनुसूचित जनजाति		42	अनुसूचित जनजाति
17	अनारक्षित		43	अनारक्षित
18	अनुसूचित जनजाति		44	अनुसूचित जनजाति
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
20	अनारक्षित		46	अनुसूचित जनजाति
21	अनुसूचित जनजाति		47	अनारक्षित
22	अनारक्षित		48	अनुसूचित जाति
23	अनुसूचित जाति		49	अन्य पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनारक्षित
53	अनारक्षित	79	अनुसूचित जनजाति
54	अन्य पिछड़ा वर्ग	80	अनारक्षित
55	अनारक्षित	81	अनुसूचित जनजाति
56	अनुसूचित जनजाति	82	अनुसूचित जाति
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अनुसूचित जाति	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनारक्षित	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनुसूचित जाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जनजाति	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनुसूचित जनजाति
71	अनारक्षित	97	अनुसूचित जाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनुसूचित जनजाति		

34. जिला—बुरहानपुर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 26 %		
		अनुसूचित जाति 9 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित / अनारक्षित		26	अनारक्षित
(1)	(2)		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनारक्षित		29	अनुसूचित जाति
3	अनुसूचित जनजाति		30	अनारक्षित
4	अनारक्षित		31	अनुसूचित जनजाति
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनारक्षित
6	अनारक्षित		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अनुसूचित जनजाति		34	अनारक्षित
8	अनारक्षित		35	अनुसूचित जनजाति
9	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
10	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
11	अनुसूचित जनजाति		38	अनारक्षित
12	अनारक्षित		39	अनारक्षित
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनारक्षित		41	अनुसूचित जाति
15	अनुसूचित जनजाति		42	अनारक्षित
16	अनारक्षित		43	अनुसूचित जनजाति
17	अनुसूचित जाति		44	अनारक्षित
18	अनारक्षित		45	अनुसूचित जनजाति
19	अनुसूचित जनजाति		46	अनारक्षित
20	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अन्य पिछड़ा वर्ग		48	अनारक्षित
22	अनारक्षित		49	अनुसूचित जनजाति
23	अनुसूचित जनजाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनुसूचित जनजाति
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जाति	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनुसूचित जनजाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनारक्षित
57	अनारक्षित	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनुसूचित जनजाति	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जाति
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अनुसूचित जाति	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनुसूचित जनजाति	92	अनुसूचित जनजाति
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जनजाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अनुसूचित जाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

35. जिला—राजगढ़		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 4 %		
		अनुसूचित जाति 17 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		27	अनारक्षित
2	अनारक्षित		28	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		29	अनुसूचित जाति
4	अनारक्षित		30	अनारक्षित
5	अनारक्षित		31	अनारक्षित
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनारक्षित
7	अनारक्षित		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		34	अनारक्षित
9	अनुसूचित जाति		35	अनुसूचित जाति
10	अनारक्षित		36	अनारक्षित
11	अनारक्षित		37	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनारक्षित
13	अनारक्षित		39	अनुसूचित जाति
14	अनारक्षित		40	अनारक्षित
15	अनुसूचित जनजाति		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		42	अनारक्षित
17	अनारक्षित		43	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जाति		44	अनारक्षित
19	अनारक्षित		45	अनारक्षित
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		46	अनुसूचित जाति
21	अनारक्षित		47	अनारक्षित
22	अनारक्षित		48	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति		49	अन्य पिछड़ा वर्ग

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जाति	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनुसूचित जाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनारक्षित
57	अनारक्षित	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनुसूचित जाति	84	अनारक्षित
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनारक्षित	86	अनुसूचित जाति
61	अन्य पिछड़ा वर्ग	87	अनारक्षित
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अनुसूचित जाति	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनुसूचित जनजाति	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनारक्षित	94	अनारक्षित
69	अनुसूचित जाति	95	अनुसूचित जाति
70	अनारक्षित	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अन्य पिछड़ा वर्ग	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
75	अनुसूचित जाति		

36. जिला—विदिशा		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 5 %		
		अनुसूचित जाति 20 %	24	अनुसूचित जाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		27	अनारक्षित
2	अनारक्षित		28	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		29	अनुसूचित जाति
4	अनारक्षित		30	अनारक्षित
5	अनारक्षित		31	अनुसूचित जनजाति
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनारक्षित
7	अनारक्षित		33	अनारक्षित
8	अनुसूचित जाति		34	अनुसूचित जाति
9	अनारक्षित		35	अनारक्षित
10	अनारक्षित		36	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	अनारक्षित		37	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनारक्षित
13	अनारक्षित		39	अनुसूचित जाति
14	अनुसूचित जाति		40	अनारक्षित
15	अनारक्षित		41	अनारक्षित
16	अनुसूचित जनजाति		42	अन्य पिछड़ा वर्ग
17	अनारक्षित		43	अनारक्षित
18	अनुसूचित जाति		44	अनुसूचित जाति
19	अनारक्षित		45	अनारक्षित
20	अनारक्षित		46	अनारक्षित
21	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		48	अनारक्षित
23	अनारक्षित		49	अनुसूचित जाति



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनारक्षित
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जाति	80	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनारक्षित
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनारक्षित	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जाति	85	अनुसूचित जाति
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनुसूचित जाति
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनुसूचित जाति	91	अनारक्षित
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनारक्षित	93	अनुसूचित जाति
68	अनुसूचित जाति	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जनजाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
75	अनुसूचित जाति		

37. जिला—भोपाल		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
	आरक्षण प्रतिशत			
	अनुसूचित जनजाति	3 %		
	अनुसूचित जाति	14 %	24	अनारक्षित
	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अनुसूचित जाति
(1)	(2)		27	अनारक्षित
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनारक्षित		29	अनारक्षित
3	अनारक्षित		30	अन्य पिछड़ा वर्ग
4	अनुसूचित जाति		31	अनारक्षित
5	अनारक्षित		32	अनारक्षित
6	अनारक्षित		33	अनुसूचित जाति
7	अन्य पिछड़ा वर्ग		34	अनारक्षित
8	अनारक्षित		35	अनारक्षित
9	अनारक्षित		36	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	अनुसूचित जाति		37	अनारक्षित
11	अनारक्षित		38	अनारक्षित
12	अनारक्षित		39	अनुसूचित जाति
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अनारक्षित
14	अनारक्षित		41	अनारक्षित
15	अनारक्षित		42	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		43	अनारक्षित
17	अनुसूचित जाति		44	अनारक्षित
18	अनारक्षित		45	अनारक्षित
19	अनारक्षित		46	अनुसूचित जाति
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनारक्षित
21	अनारक्षित		48	अनारक्षित
22	अनारक्षित		49	अन्य पिछड़ा वर्ग
23	अनुसूचित जनजाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जनजाति	78	अन्य पिछड़ा वर्ग
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अनुसूचित जाति	81	अनुसूचित जाति
56	अनारक्षित	82	अनारक्षित
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अन्य पिछड़ा वर्ग	85	अनारक्षित
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अनुसूचित जाति	88	अनुसूचित जाति
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अन्य पिछड़ा वर्ग	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनारक्षित
71	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनुसूचित जाति
72	अनारक्षित	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अन्य पिछड़ा वर्ग
75	अनुसूचित जाति		

38. जिला—सीहोर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 11 %		
		अनुसूचित जाति 20 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)		26	अनारक्षित
1	अनारक्षित		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	अनारक्षित		28	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		29	अनुसूचित जाति
4	अनारक्षित		30	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनारक्षित
6	अनारक्षित		32	अनुसूचित जनजाति
7	अनुसूचित जनजाति		33	अनारक्षित
8	अनारक्षित		34	अनुसूचित जाति
9	अनुसूचित जाति		35	अनारक्षित
10	अनारक्षित		36	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	अनारक्षित		37	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनुसूचित जाति
13	अनारक्षित		39	अनारक्षित
14	अनुसूचित जाति		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	अनारक्षित		41	अनारक्षित
16	अनुसूचित जनजाति		42	अनारक्षित
17	अनारक्षित		43	अनुसूचित जनजाति
18	अन्य पिछड़ा वर्ग		44	अनारक्षित
19	अनारक्षित		45	अनुसूचित जाति
20	अनुसूचित जाति		46	अनारक्षित
21	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		48	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति		49	अनुसूचित जाति

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जाति
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जाति	80	अनुसूचित जनजाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनारक्षित
57	अनारक्षित	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनुसूचित जाति	84	अनारक्षित
59	अनारक्षित	85	अनुसूचित जाति
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनुसूचित जाति	91	अनारक्षित
66	अनारक्षित	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनुसूचित जाति	93	अनारक्षित
68	अनारक्षित	94	अनुसूचित जाति
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनुसूचित जनजाति
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जाति
75	अनारक्षित		

39. जिला—रायसेन		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 16 %		
		अनुसूचित जाति 16 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अनारक्षित
(1)	(2)		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनारक्षित		29	अनुसूचित जाति
3	अनुसूचित जाति		30	अनारक्षित
4	अनारक्षित		31	अनुसूचित जनजाति
5	अनुसूचित जनजाति		32	अनारक्षित
6	अनारक्षित		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अन्य पिछड़ा वर्ग		34	अनारक्षित
8	अनारक्षित		35	अनुसूचित जाति
9	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
10	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
11	अनुसूचित जनजाति		38	अनारक्षित
12	अनारक्षित		39	अनारक्षित
13	अनारक्षित		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अन्य पिछड़ा वर्ग		41	अनारक्षित
15	अनारक्षित		42	अनुसूचित जाति
16	अनुसूचित जाति		43	अनारक्षित
17	अनारक्षित		44	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति		45	अनारक्षित
19	अनारक्षित		46	अन्य पिछड़ा वर्ग
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनारक्षित
21	अनारक्षित		48	अनुसूचित जाति
22	अनुसूचित जाति		49	अनारक्षित
23	अनारक्षित			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनारक्षित	78	अनारक्षित
53	अनुसूचित जाति	79	अनुसूचित जाति
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनुसूचित जनजाति
56	अनारक्षित	82	अनारक्षित
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनुसूचित जाति
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनुसूचित जाति	92	अनुसूचित जाति
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अन्य पिछड़ा वर्ग
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनुसूचित जाति	98	अनुसूचित जाति
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

## 40. जिला—बैतूल

## आरक्षण प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति 39 %

अनुसूचित जाति 11 %

अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %

(1)

(2)

## रोस्टर बिन्दु

## आरक्षित/अनारक्षित

(1)

(2)

1	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति
3	अनारक्षित
4	अनुसूचित जनजाति
5	अनारक्षित
6	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अनुसूचित जाति
8	अनुसूचित जनजाति
9	अनारक्षित
10	अनुसूचित जनजाति
11	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	अनुसूचित जनजाति
14	अनारक्षित
15	अनुसूचित जनजाति
16	अनुसूचित जाति
17	अनारक्षित
18	अनुसूचित जनजाति
19	अन्य पिछड़ा वर्ग
20	अनारक्षित
21	अनुसूचित जनजाति
22	अनारक्षित
23	अनुसूचित जनजाति

24	अनुसूचित जाति
25	अनुसूचित जनजाति
26	अनारक्षित
27	अन्य पिछड़ा वर्ग
28	अनारक्षित
29	अनुसूचित जनजाति
30	अनारक्षित
31	अनुसूचित जनजाति
32	अनुसूचित जाति
33	अनुसूचित जनजाति
34	अनारक्षित
35	अन्य पिछड़ा वर्ग
36	अनुसूचित जनजाति
37	अनारक्षित
38	अनुसूचित जनजाति
39	अनारक्षित
40	अनुसूचित जनजाति
41	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	अनारक्षित
43	अनुसूचित जनजाति
44	अनुसूचित जाति
45	अनारक्षित
46	अनुसूचित जनजाति
47	अन्य पिछड़ा वर्ग
48	अनारक्षित
49	अनुसूचित जनजाति



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनुसूचित जनजाति
52	अनुसूचित जाति	78	अनारक्षित
53	अनारक्षित	79	अनुसूचित जनजाति
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनुसूचित जाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनारक्षित	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जनजाति	85	अनुसूचित जनजाति
60	अनुसूचित जाति	86	अनारक्षित
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनुसूचित जनजाति
62	अनारक्षित	88	अनुसूचित जाति
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनुसूचित जनजाति	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अन्य पिछड़ा वर्ग	94	अनारक्षित
69	अनुसूचित जनजाति	95	अनुसूचित जनजाति
70	अनारक्षित	96	अनुसूचित जाति
71	अनुसूचित जाति	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अन्य पिछड़ा वर्ग		

41. जिला—होशंगाबाद			(1)	(2)
आरक्षण प्रतिशत				
अनुसूचित जनजाति	15 %			
अनुसूचित जाति	16 %	24	अनारक्षित	
अन्य पिछड़ा वर्ग	14 %	25	अनुसूचित जनजाति	
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित	26	अनारक्षित	
(1)	(2)	27	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	अनारक्षित	28	अनारक्षित	
2	अनारक्षित	29	अनुसूचित जाति	
3	अनुसूचित जाति	30	अनारक्षित	
4	अनारक्षित	31	अनारक्षित	
5	अनुसूचित जनजाति	32	अनुसूचित जनजाति	
6	अनारक्षित	33	अनारक्षित	
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	34	अन्य पिछड़ा वर्ग	
8	अनारक्षित	35	अनारक्षित	
9	अनारक्षित	36	अनुसूचित जाति	
10	अनुसूचित जाति	37	अनारक्षित	
11	अनारक्षित	38	अनुसूचित जनजाति	
12	अनुसूचित जनजाति	39	अनारक्षित	
13	अनारक्षित	40	अन्य पिछड़ा वर्ग	
14	अन्य पिछड़ा वर्ग	41	अनारक्षित	
15	अनारक्षित	42	अनारक्षित	
16	अनारक्षित	43	अनुसूचित जाति	
17	अनुसूचित जाति	44	अनारक्षित	
18	अनारक्षित	45	अनुसूचित जनजाति	
19	अनुसूचित जनजाति	46	अनारक्षित	
20	अन्य पिछड़ा वर्ग	47	अनारक्षित	
21	अनारक्षित	48	अन्य पिछड़ा वर्ग	
22	अनारक्षित	49	अनारक्षित	
23	अनुसूचित जाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जाति	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जाति	80	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनारक्षित
57	अनारक्षित	83	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	अनुसूचित जनजाति	84	अनारक्षित
59	अनारक्षित	85	अनुसूचित जनजाति
60	अनुसूचित जाति	86	अनारक्षित
61	अनारक्षित	87	अनुसूचित जाति
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनारक्षित
66	अनारक्षित	92	अनुसूचित जनजाति
67	अनुसूचित जाति	93	अनारक्षित
68	अनारक्षित	94	अनुसूचित जाति
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अन्य पिछड़ा वर्ग
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अनुसूचित जाति
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

42. जिला—हरदा		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 27 %		
		अनुसूचित जाति 16 %	24	अनुसूचित जाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अनुसूचित जनजाति
(1)	(2)		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जनजाति
3	अनारक्षित		30	अनुसूचित जाति
4	अनुसूचित जाति		31	अनारक्षित
5	अनारक्षित		32	अनुसूचित जनजाति
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		33	अनारक्षित
7	अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनुसूचित जनजाति		35	अनारक्षित
9	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
10	अनुसूचित जनजाति		37	अनुसूचित जनजाति
11	अनुसूचित जाति		38	अनारक्षित
12	अनारक्षित		39	अनुसूचित जनजाति
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		40	अनारक्षित
14	अनारक्षित		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	अनुसूचित जनजाति		42	अनारक्षित
16	अनारक्षित		43	अनुसूचित जाति
17	अनुसूचित जाति		44	अनारक्षित
18	अनुसूचित जनजाति		45	अनुसूचित जनजाति
19	अनारक्षित		46	अनारक्षित
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनुसूचित जनजाति
21	अनारक्षित		48	अनारक्षित
22	अनुसूचित जनजाति		49	अन्य पिछड़ा वर्ग
23	अनारक्षित			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जाति	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनारक्षित	77	अनारक्षित
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जाति	80	अनुसूचित जाति
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनुसूचित जनजाति	85	अनुसूचित जनजाति
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनुसूचित जाति	87	अनुसूचित जाति
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनुसूचित जनजाति	92	अनुसूचित जनजाति
67	अनारक्षित	93	अनुसूचित जाति
68	अनुसूचित जाति	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनुसूचित जनजाति
71	अनुसूचित जनजाति	97	अनारक्षित
72	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जनजाति	99	अनुसूचित जाति
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

43. जिला—जबलपुर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 15 %		
		अनुसूचित जाति 13 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		27	अनारक्षित
2	अनारक्षित		28	अनुसूचित जाति
3	अनुसूचित जनजाति		29	अनारक्षित
4	अनारक्षित		30	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनुसूचित जनजाति
6	अनारक्षित		32	अनारक्षित
7	अनारक्षित		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनुसूचित जाति		34	अनारक्षित
9	अनारक्षित		35	अनारक्षित
10	अनारक्षित		36	अनुसूचित जाति
11	अनुसूचित जनजाति		37	अनारक्षित
12	अनारक्षित		38	अनारक्षित
13	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनुसूचित जनजाति
14	अनारक्षित		40	अनारक्षित
15	अनुसूचित जाति		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		42	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		43	अनारक्षित
18	अनारक्षित		44	अनुसूचित जाति
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनारक्षित
20	अनारक्षित		46	अनुसूचित जनजाति
21	अनुसूचित जाति		47	अनारक्षित
22	अनारक्षित		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
23	अनारक्षित		49	अनारक्षित

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनुसूचित जनजाति	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनारक्षित	78	अनारक्षित
53	अनुसूचित जाति	79	अनुसूचित जनजाति
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जाति
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अनुसूचित जनजाति	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनारक्षित
63	अनारक्षित	89	अनुसूचित जाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनुसूचित जनजाति	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनारक्षित	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अन्य पिछड़ा वर्ग
72	अनुसूचित जनजाति	98	अनारक्षित
73	अनारक्षित	99	अनुसूचित जनजाति
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जाति
75	अनारक्षित		

44. जिला—कटनी		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 23 %		
		अनुसूचित जाति 11 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अनारक्षित
(1)	(2)		27	अनारक्षित
1	अनारक्षित		28	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	अनारक्षित		29	अनारक्षित
3	अनुसूचित जनजाति		30	अनुसूचित जनजाति
4	अनारक्षित		31	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनुसूचित जाति
6	अनारक्षित		33	अनारक्षित
7	अनुसूचित जाति		34	अनुसूचित जनजाति
8	अनारक्षित		35	अनारक्षित
9	अनुसूचित जनजाति		36	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	अनारक्षित		37	अनारक्षित
11	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनुसूचित जनजाति
12	अनारक्षित		39	अनारक्षित
13	अनुसूचित जनजाति		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनारक्षित		41	अनारक्षित
15	अनुसूचित जाति		42	अनुसूचित जनजाति
16	अनारक्षित		43	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		44	अनुसूचित जाति
18	अनारक्षित		45	अनारक्षित
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		46	अनुसूचित जनजाति
20	अनारक्षित		47	अनारक्षित
21	अनुसूचित जनजाति		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनारक्षित		49	अनारक्षित
23	अनुसूचित जाति			



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनारक्षित
52	अनारक्षित	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जाति	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनुसूचित जाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अनुसूचित जाति	88	अनुसूचित जाति
63	अनारक्षित	89	अनारक्षित
64	अन्य पिछड़ा वर्ग	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनारक्षित	91	अनारक्षित
66	अनुसूचित जनजाति	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनुसूचित जाति
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनुसूचित जाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनारक्षित	99	अनारक्षित
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

45. जिला—नरसिंहपुर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
	अनुसूचित जनजाति	13 %		
	अनुसूचित जाति	16 %	24	अनुसूचित जाति
	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		27	अनारक्षित
1	अनारक्षित		28	अनुसूचित जनजाति
2	अनारक्षित		29	अनारक्षित
3	अनुसूचित जाति		30	अनारक्षित
4	अनारक्षित		31	अनुसूचित जाति
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनारक्षित
6	अनारक्षित		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अनुसूचित जनजाति		34	अनारक्षित
8	अनारक्षित		35	अनुसूचित जाति
9	अनारक्षित		36	अनारक्षित
10	अनुसूचित जाति		37	अनारक्षित
11	अनारक्षित		38	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनारक्षित
13	अनारक्षित		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनुसूचित जनजाति		41	अनारक्षित
15	अनारक्षित		42	अनुसूचित जाति
16	अनारक्षित		43	अनारक्षित
17	अनुसूचित जाति		44	अनारक्षित
18	अनारक्षित		45	अनुसूचित जनजाति
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		46	अनारक्षित
20	अनारक्षित		47	अन्य पिछड़ा वर्ग
21	अनुसूचित जनजाति		48	अनारक्षित
22	अनारक्षित		49	अनुसूचित जाति
23	अनारक्षित			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनारक्षित
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जाति	80	अनुसूचित जाति
55	अनारक्षित	81	अनारक्षित
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनारक्षित	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनुसूचित जनजाति	85	अनारक्षित
60	अनारक्षित	86	अनारक्षित
61	अनुसूचित जाति	87	अनुसूचित जाति-14
62	अनारक्षित	88	अनारक्षित
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनारक्षित	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	अनुसूचित जनजाति	92	अनारक्षित
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जाति	94	अनुसूचित जाति
69	अनारक्षित	95	अनारक्षित
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनुसूचित जनजाति
71	अनारक्षित	97	अनारक्षित
72	अनारक्षित	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जाति	99	अनारक्षित
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जाति
75	अनुसूचित जनजाति		

46. जिला—मण्डला		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 57 %		
		अनुसूचित जाति 5 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अनुसूचित जनजाति
(1)	(2)		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		28	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति		29	अनारक्षित
3	अनुसूचित जनजाति		30	अनुसूचित जनजाति
4	अनारक्षित		31	अनुसूचित जनजाति
5	अनुसूचित जनजाति		32	अनुसूचित जाति
6	अन्य पिछड़ा वर्ग		33	अनुसूचित जनजाति
7	अनुसूचित जनजाति		34	अनारक्षित
8	अनारक्षित		35	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	अनुसूचित जनजाति		36	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति		37	अनुसूचित जनजाति
11	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनारक्षित
12	अनुसूचित जनजाति		39	अनुसूचित जनजाति
13	अनारक्षित		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनुसूचित जनजाति		41	अनुसूचित जनजाति
15	अनुसूचित जाति		42	अनारक्षित
16	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
17	अनारक्षित		44	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति		45	अनारक्षित
19	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जनजाति
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनुसूचित जनजाति
21	अनारक्षित		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनुसूचित जनजाति		49	अनुसूचित जनजाति
23	अनुसूचित जनजाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनारक्षित	76	अनारक्षित
51	अनुसूचित जनजाति	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जाति	79	अनुसूचित जनजाति
54	अनारक्षित	80	अनारक्षित
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनुसूचित जनजाति
56	अन्य पिछड़ा वर्ग	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनारक्षित
58	अनारक्षित	84	अनुसूचित जनजाति
59	अनुसूचित जनजाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनारक्षित
62	अनारक्षित	88	अनुसूचित जनजाति
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनुसूचित जनजाति	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जाति
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनुसूचित जनजाति
70	अनुसूचित जनजाति	96	अनारक्षित
71	अनारक्षित	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जाति	99	अनुसूचित जनजाति
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनुसूचित जनजाति		

47. जिला—डिण्डौर		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 64 %		
		अनुसूचित जाति 6 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अनुसूचित जनजाति
(1)	(2)		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	अनारक्षित		28	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जाति
3	अनुसूचित जनजाति		30	अनुसूचित जनजाति
4	अनुसूचित जनजाति		31	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		32	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जनजाति		33	अनुसूचित जनजाति
7	अनारक्षित		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनुसूचित जनजाति		35	अनुसूचित जनजाति
9	अनुसूचित जनजाति		36	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जाति		37	अनारक्षित
11	अनुसूचित जनजाति		38	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनुसूचित जनजाति
13	अनारक्षित		40	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	अनुसूचित जनजाति		41	अनुसूचित जनजाति
15	अनुसूचित जनजाति		42	अनुसूचित जनजाति
16	अनुसूचित जनजाति		43	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		44	अनुसूचित जनजाति
18	अनारक्षित		45	अनुसूचित जनजाति
19	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जाति
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनुसूचित जनजाति
21	अनुसूचित जनजाति		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	अनुसूचित जनजाति		49	अनुसूचित जनजाति
23	अनुसूचित जनजाति			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अनुसूचित जनजाति	76	अनुसूचित जनजाति
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनुसूचित जनजाति
54	अन्य पिछड़ा वर्ग	80	अनुसूचित जनजाति
55	अनुसूचित जनजाति	81	अनारक्षित
56	अनारक्षित	82	अनुसूचित जनजाति
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनुसूचित जनजाति
58	अनुसूचित जनजाति	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनुसूचित जनजाति	85	अनुसूचित जनजाति
60	अनुसूचित जाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनुसूचित जनजाति	87	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	88	अनुसूचित जनजाति
63	अनारक्षित	89	अनुसूचित जनजाति
64	अनुसूचित जनजाति	90	अन्य पिछड़ा वर्ग
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जनजाति	92	अनुसूचित जनजाति
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनारक्षित
68	अनारक्षित	94	अनुसूचित जनजाति
69	अनुसूचित जनजाति	95	अनुसूचित जनजाति
70	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	अनुसूचित जाति
71	अनुसूचित जनजाति	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनुसूचित जनजाति	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
73	अनुसूचित जनजाति	99	अनुसूचित जनजाति
74	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

48. जिला—छिन्दवाड़ा		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 35 %		
		अनुसूचित जाति 12 %	24	अनारक्षित
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनुसूचित जनजाति
रोस्टर बिन्दु (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)		26	अनारक्षित
1	अनारक्षित		27	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति		28	अनुसूचित जनजाति
3	अनारक्षित		29	अनारक्षित
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		30	अनुसूचित जाति
5	अनुसूचित जनजाति		31	अनारक्षित
6	अनारक्षित		32	अनुसूचित जनजाति
7	अनुसूचित जाति		33	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		34	अनारक्षित
9	अनुसूचित जनजाति		35	अनुसूचित जनजाति
10	अनारक्षित		36	अनारक्षित
11	अनुसूचित जनजाति		37	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		38	अनुसूचित जाति
13	अनारक्षित		39	अनारक्षित
14	अनुसूचित जनजाति		40	अनुसूचित जनजाति
15	अनुसूचित जाति		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित		42	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
18	अनारक्षित		44	अनारक्षित
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		45	अनुसूचित जनजाति
20	अनुसूचित जनजाति		46	अनुसूचित जाति
21	अनारक्षित		47	अनारक्षित
22	अनुसूचित जनजाति		48	अनुसूचित जनजाति
23	अनुसूचित जाति		49	अनारक्षित



(1)	(2)	(1)	(2)
50	अन्य पिछड़ा वर्ग	76	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	अनुसूचित जनजाति	77	अनारक्षित
52	अनारक्षित	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनुसूचित जनजाति	79	अनारक्षित
54	अनारक्षित	80	अनुसूचित जनजाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनुसूचित जाति
56	अनुसूचित जाति	82	अनारक्षित
57	अनारक्षित	83	अनुसूचित जनजाति
58	अनुसूचित जनजाति	84	अन्य पिछड़ा वर्ग
59	अनारक्षित	85	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जनजाति
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनुसूचित जाति
64	अनारक्षित	90	अनारक्षित
65	अनुसूचित जनजाति	91	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जाति	92	अन्य पिछड़ा वर्ग
67	अनारक्षित	93	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति	94	अनुसूचित जनजाति
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	अनारक्षित
70	अनारक्षित	96	अनुसूचित जनजाति
71	अनुसूचित जनजाति	97	अनुसूचित जाति
72	अनारक्षित	98	अनारक्षित
73	अनुसूचित जाति	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनुसूचित जनजाति	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनारक्षित		

49. जिला—सिवनी		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 37 %		
		अनुसूचित जाति 10 %	24	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	25	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		26	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		27	अनुसूचित जनजाति
1	अनारक्षित		28	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति		29	अनुसूचित जाति
3	अनारक्षित		30	अनुसूचित जनजाति
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		31	अनारक्षित
5	अनुसूचित जनजाति		32	अनुसूचित जनजाति
6	अनारक्षित		33	अनारक्षित
7	अनुसूचित जाति		34	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	अनारक्षित		35	अनुसूचित जनजाति
9	अनुसूचित जनजाति		36	अनारक्षित
10	अनारक्षित		37	अनुसूचित जाति
11	अनुसूचित जनजाति		38	अनुसूचित जनजाति
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		39	अनारक्षित
13	अनारक्षित		40	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति		41	अनारक्षित
15	अनारक्षित		42	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनुसूचित जनजाति		43	अनुसूचित जनजाति
17	अनारक्षित		44	अनारक्षित
18	अनुसूचित जाति		45	अनुसूचित जनजाति
19	अनुसूचित जनजाति		46	अनारक्षित
20	अन्य पिछड़ा वर्ग		47	अनुसूचित जाति
21	अनारक्षित		48	अनारक्षित
22	अनुसूचित जनजाति		49	अनुसूचित जनजाति
23	अनारक्षित			

(1)	(2)	(1)	(2)
50	अन्य पिछड़ा वर्ग	76	अनारक्षित
51	अनारक्षित	77	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	अनुसूचित जनजाति	78	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित	79	अनारक्षित
54	अनुसूचित जनजाति	80	अनुसूचित जाति
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	81	अनुसूचित जनजाति
56	अनारक्षित	82	अनारक्षित
57	अनुसूचित जनजाति	83	अनुसूचित जनजाति
58	अनारक्षित	84	अनारक्षित
59	अनुसूचित जाति	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
60	अनुसूचित जनजाति	86	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	87	अनारक्षित
62	अनुसूचित जनजाति	88	अनुसूचित जाति
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	89	अनारक्षित
64	अनारक्षित	90	अनुसूचित जनजाति
65	अनुसूचित जनजाति	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	अनारक्षित	92	अनारक्षित
67	अनुसूचित जनजाति	93	अनुसूचित जनजाति
68	अनुसूचित जाति	94	अनारक्षित
69	अनारक्षित	95	अनुसूचित जनजाति
70	अनुसूचित जनजाति	96	अनुसूचित जाति
71	अन्य पिछड़ा वर्ग	97	अनुसूचित जनजाति
72	अनारक्षित	98	अनारक्षित
73	अनुसूचित जनजाति	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	अनारक्षित	100	अनुसूचित जनजाति
75	अनुसूचित जनजाति		

50. जिला—बालाघाट		आरक्षण प्रतिशत	(1)	(2)
		अनुसूचित जनजाति 22 %		
		अनुसूचित जाति 8 %	26	अनुसूचित जनजाति
		अन्य पिछड़ा वर्ग 14 %	27	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु	आरक्षित/अनारक्षित		28	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)		29	अनारक्षित
1	अनारक्षित		30	अनुसूचित जनजाति
2	अनारक्षित		31	अनारक्षित
3	अनुसूचित जनजाति		32	अनुसूचित जाति
4	अनारक्षित		33	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग		34	अनारक्षित
6	अनारक्षित		35	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अनुसूचित जाति		36	अनारक्षित
8	अनारक्षित		37	अनुसूचित जनजाति
9	अनारक्षित		38	अनारक्षित
10	अनुसूचित जनजाति		39	अनुसूचित जनजाति
11	अनारक्षित		40	अनारक्षित
12	अन्य पिछड़ा वर्ग		41	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	अनारक्षित		42	अनारक्षित
14	अनुसूचित जनजाति		43	अनारक्षित
15	अनारक्षित		44	अनुसूचित जनजाति
16	अनुसूचित जनजाति		45	अनारक्षित
17	अनारक्षित		46	अनुसूचित जाति
18	अनारक्षित		47	अनारक्षित
19	अन्य पिछड़ा वर्ग		48	अन्य पिछड़ा वर्ग
20	अनारक्षित		49	अनारक्षित
21	अनुसूचित जाति		50	अनुसूचित जनजाति
22	अनारक्षित		51	अनारक्षित
23	अनुसूचित जनजाति		52	अनारक्षित
24	अनारक्षित		53	अनुसूचित जनजाति
25	अनारक्षित		54	अनारक्षित

(1)	(2)	(1)	(2)
55	अन्य पिछड़ा वर्ग	84	अनारक्षित
56	अनारक्षित	85	अन्य पिछड़ा वर्ग
57	अनुसूचित जाति	86	अनारक्षित
58	अनारक्षित	87	अनुसूचित जनजाति
59	अनारक्षित	88	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति	89	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित	90	अनारक्षित
62	अन्य पिछड़ा वर्ग	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
63	अनारक्षित	92	अनारक्षित
64	अनुसूचित जनजाति	93	अनारक्षित
65	अनारक्षित	94	अनुसूचित जनजाति
66	अनुसूचित जनजाति	95	अनारक्षित
67	अनारक्षित	96	अनुसूचित जाति
68	अनारक्षित	97	अनारक्षित
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	98	अन्य पिछड़ा वर्ग
70	अनारक्षित	99	अनारक्षित
71	अनुसूचित जाति	100	अनुसूचित जनजाति
72	अनारक्षित		
73	अनुसूचित जनजाति		
74	अनारक्षित	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अकीला हशमत, उपसचिव.	
75	अनारक्षित		
76	अनुसूचित जनजाति	भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2010	
77	अनारक्षित		
78	अन्य पिछड़ा वर्ग	क्र. एफ. 6-1-2002-आ. प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1-2002-आ. प्र., दिनांक 21 सितम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.	
79	अनारक्षित		
80	अनुसूचित जनजाति		
81	अनारक्षित		
82	अनुसूचित जाति	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अकीला हशमत, उपसचिव.	
83	अनारक्षित		

Bhopal, the 21st September 2010

No. F- 6-1-2002-RC-1.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

## AMENDMENT

In the said rules, for Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE III  
(See rule 3)

- |    |                            |              |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | Name of Office             |              |
| 2. | Name of Post/Cadre         |              |
| 3. | Pay Scale                  |              |
| 4. | Number of sanctioned posts | Class III/IV |

Model Roster for the posts/cadre to be filled by direct recruitment at district level

1. District - Morena Reservation Percentage		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	1 %	
	Scheduled Castes	21 %	20 Other Backward Classes
	Other Backward Classes	14 %	21 Unreserved
Roster Point	Reserved/Unreserved	22	Unreserved
(1)	(2)	23	Scheduled Castes
		24	Unreserved
1	Unreserved	25	Unreserved
2	Unreserved	26	Other Backward Classes
3	Scheduled Castes	27	Unreserved
4	Unreserved	28	Unreserved
5	Unreserved	29	Scheduled Castes
6	Other Backward Classes	30	Unreserved
7	Unreserved	31	Unreserved
8	Unreserved	32	Scheduled Castes
9	Scheduled Castes	33	Unreserved
10	Unreserved	34	Other Backward Classes
11	Unreserved	35	Unreserved
12	Other Backward Classes	36	Unreserved
13	Unreserved	37	Scheduled Castes
14	Scheduled Castes	38	Unreserved
15	Unreserved	39	Unreserved
16	Unreserved	40	Other Backward Classes
17	Scheduled Castes	41	Unreserved
18	Unreserved	42	Scheduled Castes
19	Unreserved	43	Unreserved

(1)	(2)	(1)	(2)
44	Unreserved	85	Unreserved
45	Unreserved	86	Unreserved
46	Scheduled Castes	87	Scheduled Castes
47	Unreserved	88	Unreserved
48	Other Backward Classes	89	Unreserved
49	Unreserved	90	Scheduled Castes
50	Unreserved	91	Unreserved
51	Scheduled Castes	92	Other Backward Classes
52	Unreserved	93	Unreserved
53	Unreserved	94	Unreserved
54	Other Backward Classes	95	Scheduled Castes
55	Unreserved	96	Unreserved
56	Scheduled Castes	97	Unreserved
57	Unreserved	98	Other Backward Classes
58	Unreserved	99	Unreserved
59	Scheduled Tribes	100	Scheduled Castes
60	Unreserved		
61	Unreserved		
62	Scheduled Castes		
63	Unreserved		
64	Other Backward Classes		
65	Unreserved		
66	Unreserved		
67	Scheduled Castes		
68	Unreserved		
69	Unreserved		
70	Other Backward Classes		
71	Unreserved		
72	Unreserved		
73	Scheduled Castes		
74	Unreserved		
75	Scheduled Castes		
76	Unreserved		
77	Unreserved		
78	Other Backward Classes		
79	Unreserved		
80	Unreserved		
81	Scheduled Castes		
82	Unreserved		
83	Unreserved		
84	Other Backward Classes		

  

2. District - Sheopur Reservation Percentage			
	Scheduled Tribes	22 %	
	Scheduled Castes	16 %	
	Other Backward Classes	14 %	

  

Roster Point	Reserved/Unreserved
(1)	(2)
1	Unreserved
2	Scheduled Tribes
3	Unreserved
4	Scheduled Castes
5	Unreserved
6	Other Backward Classes
7	Unreserved
8	Scheduled Tribes
9	Unreserved
10	Scheduled Castes
11	Unreserved
12	Other Backward Classes
13	Unreserved
14	Scheduled Tribes
15	Unreserved
16	Scheduled Castes
17	Unreserved
18	Scheduled Tribes

(1)	(2)	(1)	(2)
19	Unreserved	60	Unreserved
20	Other Backward Classes	61	Scheduled Castes
21	Unreserved	62	Unreserved
22	Scheduled Tribes	63	Scheduled Tribes
23	Unreserved	64	Unreserved
24	Scheduled Castes	65	Other Backward Classes
25	Unreserved	66	Unreserved
26	Scheduled Tribes	67	Scheduled Tribes
27	Unreserved	68	Unreserved
28	Other Backward Classes	69	Scheduled Castes
29	Unreserved	70	Unreserved
30	Scheduled Castes	71	Other Backward Classes
31	Unreserved	72	Unreserved
32	Scheduled Tribes	73	Scheduled Tribes
33	Unreserved	74	Scheduled Castes
34	Other Backward Classes	75	Unreserved
35	Unreserved	76	Scheduled Tribes
36	Scheduled Tribes	77	Unreserved
37	Unreserved	78	Other Backward Classes
38	Scheduled Castes	79	Unreserved
39	Unreserved	80	Scheduled Castes
40	Scheduled Tribes	81	Unreserved
41	Unreserved	82	Scheduled Tribes
42	Other Backward Classes	83	Unreserved
43	Unreserved	84	Other Backward Classes
44	Scheduled Castes	85	Unreserved
45	Unreserved	86	Scheduled Tribes
46	Scheduled Tribes	87	Unreserved
47	Unreserved	88	Scheduled Castes
48	Other Backward Classes	89	Unreserved
49	Scheduled Castes	90	Scheduled Tribes
50	Scheduled Tribes	91	Unreserved
51	Unreserved	92	Other Backward Classes
52	Unreserved	93	Unreserved
53	Scheduled Tribes	94	Scheduled Castes
54	Unreserved	95	Unreserved
55	Scheduled Castes	96	Scheduled Tribes
56	Unreserved	97	Unreserved
57	Other Backward Classes	98	Other Backward Classes
58	Unreserved	99	Scheduled Castes
59	Scheduled Tribes	100	Scheduled Tribes



3. District - Bhind		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 0 %		
		Scheduled Castes 21 %	48	Unreserved
		Other Backward Classes 14 %	49	Other Backward Classes
Roster Point	Reserved/Unreserved		50	Unreserved
(1)	(2)		51	Unreserved
			52	Scheduled Castes
			53	Unreserved
			54	Unreserved
			55	Other Backward Classes
			56	Unreserved
			57	Unreserved
			58	Scheduled Castes
			59	Unreserved
			60	Unreserved
			61	Scheduled Castes
			62	Unreserved
			63	Other Backward Classes
			64	Unreserved
			65	Unreserved
			66	Scheduled Castes
			67	Unreserved
			68	Unreserved
			69	Other Backward Classes
			70	Unreserved
			71	Unreserved
			72	Scheduled Castes
			73	Unreserved
			74	Unreserved
			75	Scheduled Castes
			76	Unreserved
			77	Unreserved
			78	Other Backward Classes
			79	Unreserved
			80	Scheduled Castes
			81	Unreserved
			82	Unreserved
			83	Other Backward Classes
			84	Unreserved
			85	Unreserved
			86	Scheduled Castes
			87	Unreserved
			88	Unreserved
			89	Scheduled Castes
			90	Unreserved
			91	Unreserved
			92	Other Backward Classes
			93	Unreserved
			94	Unreserved
			95	Scheduled Castes
			96	Unreserved
			97	Unreserved
			98	Other Backward Classes
			99	Unreserved
			100	Scheduled Castes

## 4. District - Gwalior Reservation Percentage

Reservation Percentage		(1)	(2)
Scheduled Tribes	3 %		
Scheduled Castes	19 %	48	Other Backward Classes
Other Backward Classes	14 %	49	Unreserved
		50	Unreserved
		51	Scheduled Castes
		52	Unreserved
		53	Scheduled Tribes
		54	Unreserved
		55	Unreserved
		56	Other Backward Classes
		57	Unreserved
		58	Unreserved
		59	Scheduled Castes
		60	Unreserved
		61	Unreserved
		62	Scheduled Castes
		63	Unreserved
		64	Other Backward Classes
		65	Unreserved
		66	Unreserved
		67	Scheduled Castes
		68	Unreserved
		69	Unreserved
		70	Other Backward Classes
		71	Unreserved
		72	Unreserved
		73	Scheduled Castes
		74	Unreserved
		75	Unreserved
		76	Other Backward Classes
		77	Unreserved
		78	Scheduled Castes
		79	Unreserved
		80	Unreserved
		81	Unreserved
		82	Scheduled Castes
		83	Unreserved
		84	Other Backward Classes
		85	Unreserved
		86	Unreserved
		87	Scheduled Tribes
		88	Unreserved
		89	Scheduled Castes
		90	Unreserved
		91	Unreserved
		92	Other Backward Classes
		93	Unreserved
		94	Unreserved
		95	Scheduled Castes
		96	Unreserved
		97	Unreserved
		98	Other Backward Classes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Castes

Roster Point	Reserved/Unreserved
(1)	(2)
1	Unreserved
2	Unreserved
3	Scheduled Castes
4	Unreserved
5	Unreserved
6	Other Backward Classes
7	Unreserved
8	Unreserved
9	Scheduled Castes
10	Unreserved
11	Unreserved
12	Other Backward Classes
13	Unreserved
14	Scheduled Castes
15	Unreserved
16	Unreserved
17	Unreserved
18	Other Backward Classes
19	Unreserved
20	Scheduled Castes
21	Unreserved
22	Unreserved
23	Scheduled Tribes
24	Unreserved
25	Scheduled Castes
26	Unreserved
27	Unreserved
28	Other Backward Classes
29	Unreserved
30	Unreserved
31	Scheduled Castes
32	Unreserved
33	Unreserved
34	Other Backward Classes
35	Unreserved
36	Unreserved
37	Scheduled Castes
38	Unreserved
39	Unreserved
40	Other Backward Classes
41	Unreserved
42	Scheduled Castes
43	Unreserved
44	Unreserved
45	Scheduled Castes
46	Unreserved
47	Unreserved

5. District - Datia		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 2 %		
		Scheduled Castes 25 %	48	Unreserved
		Other Backward Classes 14 %	49	Other Backward Classes
Roster Point	Reserved/Unreserved		50	Unreserved
(1)	(2)		51	Unreserved
			52	Scheduled Castes
			53	Unreserved
			54	Other Backward Classes
			55	Unreserved
			56	Unreserved
			57	Scheduled Castes
			58	Unreserved
			59	Scheduled Castes
			60	Unreserved
			61	Other Backward Classes
			62	Unreserved
			63	Unreserved
			64	Scheduled Castes
			65	Unreserved
			66	Unreserved
			67	Scheduled Castes
			68	Unreserved
			69	Other Backward Classes
			70	Unreserved
			71	Scheduled Castes
			72	Unreserved
			73	Unreserved
			74	Unreserved
			75	Scheduled Castes
			76	Unreserved
			77	Other Backward Classes
			78	Unreserved
			79	Scheduled Castes
			80	Unreserved
			81	Scheduled Tribes
			82	Unreserved
			83	Scheduled Castes
			84	Unreserved
			85	Unreserved
			86	Other Backward Classes
			87	Unreserved
			88	Scheduled Castes
			89	Unreserved
			90	Unreserved
			91	Scheduled Castes
			92	Unreserved
			93	Other Backward Classes
			94	Unreserved
			95	Unreserved
			96	Scheduled Castes
			97	Unreserved
			98	Other Backward Classes
			99	Unreserved
			100	Scheduled Castes

## 6. District - Shivpuri Reservation Percentage

		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	11 %	
	Scheduled Castes	19 %	
	Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
	(1)	(2)	
1	Unreserved	48	Other Backward Classes
2	Unreserved	49	Unreserved
3	Scheduled Castes	50	Unreserved
4	Unreserved	51	Scheduled Castes
5	Other Backward Classes	52	Unreserved
6	Unreserved	53	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes	54	Unreserved
8	Unreserved	55	Other Backward Classes
9	Unreserved	56	Unreserved
10	Scheduled Castes	57	Scheduled Castes
11	Unreserved	58	Unreserved
12	Other Backward Classes	59	Unreserved
13	Unreserved	60	Scheduled Tribes
14	Scheduled Castes	61	Unreserved
15	Unreserved	62	Scheduled Castes
16	Scheduled Tribes	63	Unreserved
17	Unreserved	64	Other Backward Classes
18	Unreserved	65	Unreserved
19	Other Backward Classes	66	Scheduled Castes
20	Unreserved	67	Unreserved
21	Scheduled Castes	68	Unreserved
22	Unreserved	69	Other Backward Classes
23	Scheduled Tribes	70	Unreserved
24	Unreserved	71	Scheduled Tribes
25	Scheduled Castes	72	Unreserved
26	Unreserved	73	Scheduled Castes
27	Unreserved	74	Unreserved
28	Other Backward Classes	75	Unreserved
29	Unreserved	76	Other Backward Classes
30	Scheduled Castes	77	Unreserved
31	Unreserved	78	Scheduled Castes
32	Scheduled Tribes	79	Unreserved
33	Unreserved	80	Scheduled Tribes
34	Unreserved	81	Unreserved
35	Other Backward Classes	82	Scheduled Tribes
36	Unreserved	83	Unreserved
37	Scheduled Castes	84	Unreserved
38	Unreserved	85	Other Backward Classes
39	Unreserved	86	Unreserved
40	Other Backward Classes	87	Scheduled Tribes
41	Scheduled Castes	88	Unreserved
42	Unreserved	89	Scheduled Castes
43	Unreserved	90	Unreserved
44	Scheduled Tribes	91	Other Backward Classes
45	Unreserved	92	Unreserved
46	Scheduled Castes	93	Unreserved
47	Unreserved	94	Scheduled Castes
		95	Unreserved
		96	Scheduled Tribes
		97	Unreserved
		98	Other Backward Classes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Castes

7. District -Guna		Reservation Percentage		(1)	(2)
		Scheduled Tribes	15 %		
		Scheduled Castes	16 %	48	Unreserved
		Other Backward Classes	14 %	49	Scheduled Castes
				50	Unreserved
				51	Unreserved
				52	Scheduled Tribes
				53	Unreserved
				54	Scheduled Castes
				55	Unreserved
				56	Other Backward Classes
				57	Unreserved
				58	Scheduled Tribes
				59	Unreserved
				60	Scheduled Castes
				61	Unreserved
				62	Unreserved
				63	Other Backward Classes
				64	Unreserved
				65	Scheduled Tribes
				66	Unreserved
				67	Scheduled Castes
				68	Unreserved
				69	Other Backward Classes
				70	Unreserved
				71	Unreserved
				72	Scheduled Tribes
				73	Unreserved
				74	Scheduled Castes
				75	Unreserved
				76	Other Backward Classes
				77	Unreserved
				78	Scheduled Tribes
				79	Unreserved
				80	Scheduled Castes
				81	Unreserved
				82	Unreserved
				83	Other Backward Classes
				84	Unreserved
				85	Scheduled Tribes
				86	Unreserved
				87	Scheduled Castes
				88	Unreserved
				89	Unreserved
				90	Other Backward Classes
				91	Unreserved
				92	Scheduled Tribes
				93	Unreserved
				94	Scheduled Castes
				95	Unreserved
				96	Other Backward Classes
				97	Unreserved
				98	Scheduled Tribes
				99	Unreserved
				100	Scheduled Castes

8. District -Ashoknagar		Reservation Percentage	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
(1)	(2)		
	Scheduled Tribes	9 %	
	Scheduled Castes	20 %	
	Other Backward Classes	14 %	
1	Unreserved	48	Unreserved
2	Unreserved	49	Unreserved
3	Scheduled Castes	50	Scheduled Castes
4	Unreserved	51	Unreserved
5	Other Backward Classes	52	Scheduled Tribes
6	Unreserved	53	Unreserved
7	Unreserved	54	Scheduled Castes
8	Scheduled Tribes	55	Unreserved
9	Unreserved	56	Other Backward Classes
10	Scheduled Castes	57	Unreserved
11	Unreserved	58	Unreserved
12	Other Backward Classes	59	Scheduled Castes
13	Unreserved	60	Unreserved
14	Scheduled Castes	61	Unreserved
15	Unreserved	62	Other Backward Classes
16	Unreserved	63	Unreserved
17	Scheduled Tribes	64	Scheduled Castes
18	Unreserved	65	Unreserved
19	Scheduled Castes	66	Scheduled Tribes
20	Unreserved	67	Unreserved
21	Other Backward Classes	68	Scheduled Castes
22	Unreserved	69	Unreserved
23	Unreserved	70	Other Backward Classes
24	Scheduled Castes	71	Unreserved
25	Unreserved	72	Unreserved
26	Unreserved	73	Scheduled Castes
27	Other Backward Classes	74	Unreserved
28	Unreserved	75	Scheduled Tribes
29	Scheduled Castes	76	Unreserved
30	Unreserved	77	Other Backward Classes
31	Scheduled Tribes	78	Unreserved
32	Unreserved	79	Unreserved
33	Other Backward Classes	80	Scheduled Castes
34	Unreserved	81	Unreserved
35	Scheduled Castes	82	Unreserved
36	Unreserved	83	Other Backward Classes
37	Unreserved	84	Unreserved
38	Unreserved	85	Scheduled Castes
39	Scheduled Castes	86	Unreserved
40	Unreserved	87	Scheduled Tribes
41	Other Backward Classes	88	Unreserved
42	Unreserved	89	Scheduled Castes
43	Scheduled Tribes	90	Unreserved
44	Unreserved	91	Other Backward Classes
45	Scheduled Castes	92	Unreserved
46	Unreserved	93	Unreserved
47	Other Backward Classes	94	Scheduled Castes
		95	Unreserved
		96	Scheduled Tribes
		97	Unreserved
		98	Other Backward Classes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Castes

**9. District-Tikamgarh Reservation Percentage**

Scheduled Tribes	4 %
Scheduled Castes	24 %
Other Backward Classes	14 %

Roster Point	Reserved/Unreserved
(1)	(2)
1	Unreserved
2	Unreserved
3	Scheduled Castes
4	Unreserved
5	Other Backward Classes
6	Unreserved
7	Unreserved
8	Scheduled Castes
9	Unreserved
10	Unreserved
11	Scheduled Castes
12	Other Backward Classes
13	Unreserved
14	Unreserved
15	Scheduled Castes
16	Unreserved
17	Unreserved
18	Other Backward Classes
19	Unreserved
20	Scheduled Tribes
21	Unreserved
22	Scheduled Castes
23	Unreserved
24	Scheduled Castes
25	Unreserved
26	Unreserved
27	Other Backward Classes
28	Unreserved
29	Scheduled Castes
30	Unreserved
31	Unreserved
32	Scheduled Castes
33	Unreserved
34	Other Backward Classes
35	Unreserved
36	Scheduled Castes
37	Unreserved
38	Unreserved
39	Scheduled Tribes
40	Unreserved
41	Scheduled Castes
42	Unreserved
43	Other Backward Classes
44	Unreserved
45	Unreserved
46	Scheduled Castes
47	Unreserved

(1)	(2)
48	Other Backward Classes
49	Unreserved
50	Scheduled Castes
51	Unreserved
52	Unreserved
53	Scheduled Castes
54	Unreserved
55	Other Backward Classes
56	Unreserved
57	Unreserved
58	Scheduled Castes
59	Unreserved
60	Unreserved
61	Scheduled Castes
62	Other Backward Classes
63	Unreserved
64	Unreserved
65	Scheduled Castes
66	Unreserved
67	Scheduled Tribes
68	Unreserved
69	Unreserved
70	Other Backward Classes
71	Unreserved
72	Scheduled Castes
73	Unreserved
74	Scheduled Castes
75	Unreserved
76	Unreserved
77	Other Backward Classes
78	Unreserved
79	Scheduled Castes
80	Unreserved
81	Unreserved
82	Scheduled Castes
83	Unreserved
84	Other Backward Classes
85	Unreserved
86	Scheduled Castes
87	Unreserved
88	Unreserved
89	Unreserved
90	Scheduled Tribes
91	Scheduled Castes
92	Unreserved
93	Other Backward Classes
94	Unreserved
95	Unreserved
96	Scheduled Castes
97	Unreserved
98	Other Backward Classes
99	Unreserved
100	Scheduled Castes

**10. District—Chhatarpur Reservation Percentage**

		(1)	(2)
Schedulcd Tribes		4 %	
Schedulcd Castes		23 %	
Other Backward Classes		14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved		
(1)	(2)		
1	Unreserved	48	Unreserved
2	Unreserved	49	Other Backward Classes
3	Schedulcd Castes	50	Unreserved
4	Unreserved	51	Unreserved
5	Other Backward Classes	52	Schedulcd Castes
6	Unreserved	53	Unreserved
7	Unreserved	54	Unreserved
8	Schedulcd Castes	55	Other Backward Classes
9	Unreserved	56	Unreserved
10	Unreserved	57	Schedulcd Castes
11	Other Backward Classes	58	Unreserved
12	Unreserved	59	Unreserved
13	Schedulcd Castes	60	Schedulcd Castes
14	Unreserved	61	Unreserved
15	Schedulcd Tribes	62	Other Backward Classes
16	Unreserved	63	Unreserved
17	Unreserved	64	Schedulcd Castes
18	Schedulcd Castes	65	Unreserved
19	Unreserved	66	Schedulcd Tribes
20	Other Backward Classes	67	Unreserved
21	Unreserved	68	Unreserved
22	Schedulcd Castes	69	Schedulcd Castes
23	Unreserved	70	Unreserved
24	Unreserved	71	Other Backward Classes
25	Schedulcd Castes	72	Unreserved
26	Unreserved	73	Unreserved
27	Other Backward Classes	74	Schedulcd Castes
28	Unreserved	75	Unreserved
29	Unreserved	76	Other Backward Classes
30	Schedulcd Castes	77	Unreserved
31	Unreserved	78	Unreserved
32	Unreserved	79	Schedulcd Castes
33	Other Backward Classes	80	Unreserved
34	Unreserved	81	Schedulcd Castes
35	Schedulcd Castes	82	Unreserved
36	Unreserved	83	Other Backward Classes
37	Unreserved	84	Unreserved
38	Schedulcd Castes	85	Unreserved
39	Unreserved	86	Schedulcd Castes
40	Schedulcd Tribes	87	Unreserved
41	Unreserved	88	Unreserved
42	Other Backward Classes	89	Schedulcd Tribes
43	Unreserved	90	Unreserved
44	Schedulcd Castes	91	Schedulcd Castes
45	Unreserved	92	Unreserved
46	Unreserved	93	Other Backward Classes
47	Schedulcd Castes	94	Unreserved
		95	Unreserved
		96	Schedulcd Castes
		97	Unreserved
		98	Other Backward Classes
		99	Unreserved
		100	Schedulcd Castes



11. District—Panna		Reservation Percentage		(1)	(2)
		Scheduled Tribes	15 %		
		Scheduled Castes	20 %	48	Unreserved
		Other Backward Classes	14 %	49	Scheduled Castes
Roster	Reserved/Unreserved			50	Unreserved
Point				51	Unreserved
(1)	(2)			52	Scheduled Tribes
1	Unreserved			53	Unreserved
2	Unreserved			54	Scheduled Castes
3	Scheduled Castes			55	Unreserved
4	Unreserved			56	Other Backward Classes
5	Scheduled Tribes			57	Unreserved
6	Unreserved			58	Scheduled Tribes
7	Other Backward Classes			59	Unreserved
8	Unreserved			60	Scheduled Castes
9	Scheduled Castes			61	Unreserved
10	Unreserved			62	Other Backward Classes
11	Scheduled Tribes			63	Unreserved
12	Unreserved			64	Scheduled Castes
13	Other Backward Classes			65	Unreserved
14	Unreserved			66	Scheduled Tribes
15	Scheduled Castes			67	Unreserved
16	Unreserved			68	Scheduled Castes
17	Scheduled Tribes			69	Unreserved
18	Unreserved			70	Other Backward Classes
19	Scheduled Castes			71	Unreserved
20	Unreserved			72	Scheduled Tribes
21	Other Backward Classes			73	Unreserved
22	Unreserved			74	Scheduled Castes
23	Scheduled Castes			75	Unreserved
24	Unreserved			76	Other Backward Classes
25	Scheduled Tribes			77	Unreserved
26	Unreserved			78	Scheduled Tribes
27	Other Backward Classes			79	Unreserved
28	Unreserved			80	Scheduled Castes
29	Scheduled Castes			81	Unreserved
30	Unreserved			82	Unreserved
31	Scheduled Tribes			83	Other Backward Classes
32	Unreserved			84	Scheduled Castes
33	Other Backward Classes			85	Unreserved
34	Unreserved			86	Scheduled Tribes
35	Scheduled Castes			87	Unreserved
36	Unreserved			88	Scheduled Castes
37	Scheduled Tribes			89	Unreserved
38	Unreserved			90	Other Backward Classes
39	Scheduled Castes			91	Unreserved
40	Unreserved			92	Scheduled Tribes
41	Other Backward Classes			93	Unreserved
42	Unreserved			94	Scheduled Castes
43	Scheduled Castes			95	Unreserved
44	Unreserved			96	Unreserved
45	Scheduled Tribes			97	Other Backward Classes
46	Unreserved			98	Scheduled Tribes
47	Other Backward Classes			99	Unreserved
				100	Scheduled Castes

12. District—Sagar		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes	10 %	
		Scheduled Castes	21 %	
		Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved			
(1)	(2)			
1	Unreserved		48	Unreserved
2	Unreserved		49	Other Backward Classes
3	Scheduled Castes		50	Unreserved
4	Unreserved		51	Unreserved
5	Other Backward Classes		52	Scheduled Castes
6	Unreserved		53	Unreserved
7	Scheduled Tribes		54	Other Backward Classes
8	Unreserved		55	Unreserved
9	Scheduled Castes		56	Scheduled Castes
10	Unreserved		57	Unreserved
11	Unreserved		58	Scheduled Tribes
12	Other Backward Classes		59	Unreserved
13	Unreserved		60	Scheduled Castes
14	Scheduled Castes		61	Unreserved
15	Unreserved		62	Unreserved
16	Scheduled Tribes		63	Other Backward Classes
17	Unreserved		64	Unreserved
18	Scheduled Castes		65	Scheduled Castes
19	Unreserved		66	Unreserved
20	Other Backward Classes		67	Scheduled Tribes
21	Unreserved		68	Unreserved
22	Unreserved		69	Other Backward Classes
23	Scheduled Castes		70	Unreserved
24	Unreserved		71	Unreserved
25	Unreserved		72	Scheduled Castes
26	Other Backward Classes		73	Unreserved
27	Scheduled Tribes		74	Scheduled Castes
28	Unreserved		75	Unreserved
29	Scheduled Castes		76	Other Backward Classes
30	Unreserved		77	Unreserved
31	Unreserved		78	Scheduled Tribes
32	Scheduled Castes		79	Unreserved
33	Unreserved		80	Scheduled Castes
34	Other Backward Classes		81	Unreserved
35	Unreserved		82	Unreserved
36	Scheduled Tribes		83	Other Backward Classes
37	Unreserved		84	Unreserved
38	Scheduled Castes		85	Scheduled Castes
39	Unreserved		86	Unreserved
40	Other Backward Classes		87	Scheduled Tribes
41	Unreserved		88	Unreserved
42	Unreserved		89	Scheduled Castes
43	Scheduled Castes		90	Unreserved
44	Unreserved		91	Unreserved
45	Unreserved		92	Other Backward Classes
46	Scheduled Castes		93	Unreserved
47	Scheduled Tribes		94	Scheduled Castes
			95	Unreserved
			96	Scheduled Tribes
			97	Unreserved
			98	Other Backward Classes
			99	Unreserved
			100	Scheduled Castes

**13. District—Damoh Reservation Percentage**

		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	13 %	
	Scheduled Castes	19 %	
	Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
1	Unreserved	48	Other Backward Classes
2	Unreserved	49	Unreserved
3	Scheduled Castes	50	Unreserved
4	Unreserved	51	Scheduled Castes
5	Other Backward Classes	52	Unreserved
6	Unreserved	53	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes	54	Unreserved
8	Unreserved	55	Other Backward Classes
9	Scheduled Castes	56	Unreserved
10	Unreserved	57	Scheduled Castes
11	Unreserved	58	Unreserved
12	Other Backward Classes	59	Scheduled Tribes
13	Unreserved	60	Unreserved
14	Scheduled Tribes	61	Scheduled Castes
15	Unreserved	62	Unreserved
16	Scheduled Castes	63	Unreserved
17	Unreserved	64	Other Backward Classes
18	Other Backward Classes	65	Unreserved
19	Unreserved	66	Scheduled Tribes
20	Scheduled Castes	67	Unreserved
21	Unreserved	68	Scheduled Castes
22	Scheduled Tribes	69	Unreserved
23	Unreserved	70	Other Backward Classes
24	Scheduled Castes	71	Unreserved
25	Unreserved	72	Scheduled Castes
26	Unreserved	73	Unreserved
27	Other Backward Classes	74	Scheduled Tribes
28	Unreserved	75	Unreserved
29	Scheduled Tribes	76	Unreserved
30	Unreserved	77	Other Backward Classes
31	Scheduled Castes	78	Unreserved
32	Unreserved	79	Scheduled Castes
33	Other Backward Classes	80	Unreserved
34	Unreserved	81	Scheduled Tribes
35	Scheduled Castes	82	Unreserved
36	Unreserved	83	Scheduled Castes
37	Scheduled Tribes	84	Unreserved
38	Unreserved	85	Other Backward Classes
39	Unreserved	86	Unreserved
40	Other Backward Classes	87	Scheduled Castes
41	Unreserved	88	Unreserved
42	Scheduled Castes	89	Unreserved
43	Unreserved	90	Scheduled Tribes
44	Scheduled Tribes	91	Unreserved
45	Unreserved	92	Other Backward Classes
46	Scheduled Castes	93	Unreserved
47	Unreserved	94	Scheduled Castes
		95	Unreserved
		96	Scheduled Tribes
		97	Unreserved
		98	Other Backward Classes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Castes

14. District—Satna		Reservation Percentage		(1)	(2)
		Scheduled Tribes	14 %		
		Scheduled Castes	16 %	48	Scheduled Tribes
		Other Backward Classes	14 %	49	Unreserved
Roster	Reserved/Unreserved			50	Scheduled Castes
Point				51	Unreserved
(1)	(2)			52	Unreserved
1	Unreserved			53	Scheduled Castes
2	Unreserved			54	Unreserved
3	Scheduled Castes			55	Other Backward Classes
4	Unreserved			56	Unreserved
5	Other Backward Classes			57	Scheduled Tribes
6	Unreserved			58	Unreserved
7	Scheduled Tribes			59	Unreserved
8	Unreserved			60	Scheduled Castes
9	Unreserved			61	Unreserved
10	Scheduled Castes			62	Other Backward Classes
11	Unreserved			63	Unreserved
12	Other Backward Classes			64	Scheduled Tribes
13	Unreserved			65	Unreserved
14	Scheduled Tribes			66	Scheduled Castes
15	Unreserved			67	Unreserved
16	Scheduled Castes			68	Unreserved
17	Unreserved			69	Other Backward Classes
18	Unreserved			70	Unreserved
19	Other Backward Classes			71	Scheduled Tribes
20	Unreserved			72	Unreserved
21	Scheduled Tribes			73	Scheduled Castes
22	Unreserved			74	Unreserved
23	Scheduled Castes			75	Other Backward Classes
24	Unreserved			76	Unreserved
25	Unreserved			77	Unreserved
26	Other Backward Classes			78	Scheduled Tribes
27	Unreserved			79	Unreserved
28	Scheduled Tribes			80	Scheduled Castes
29	Unreserved			81	Unreserved
30	Scheduled Castes			82	Unreserved
31	Unreserved			83	Other Backward Classes
32	Unreserved			84	Unreserved
33	Other Backward Classes			85	Scheduled Tribes
34	Unreserved			86	Unreserved
35	Scheduled Tribes			87	Scheduled Castes
36	Unreserved			88	Unreserved
37	Scheduled Castes			89	Unreserved
38	Unreserved			90	Other Backward Classes
39	Unreserved			91	Unreserved
40	Other Backward Classes			92	Scheduled Tribes
41	Scheduled Tribes			93	Unreserved
42	Unreserved			94	Scheduled Castes
43	Unreserved			95	Unreserved
44	Scheduled Castes			96	Unreserved
45	Unreserved			97	Other Backward Classes
46	Unreserved			98	Scheduled Tribes
47	Other Backward Classes			99	Unreserved
				100	Scheduled Castes

15. District—Rewa		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 13 %		
		Scheduled Castes 16 %	48	Unreserved
		Other Backward Classes 14 %	49	Other Backward Classes
Roster	Reserved/Unreserved		50	Unreserved
Point			51	Unreserved
(1)	(2)		52	Scheduled Tribes
			53	Unreserved
1	Unreserved		54	Scheduled Castes
2	Unreserved		55	Unreserved
3	Scheduled Castes		56	Other Backward Classes
4	Unreserved		57	Unreserved
5	Other Backward Classes		58	Unreserved
6	Unreserved		59	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes		60	Unreserved
8	Unreserved		61	Scheduled Castes
9	Unreserved		62	Unreserved
10	Scheduled Castes		63	Other Backward Classes
11	Unreserved		64	Unreserved
12	Other Backward Classes		65	Unreserved
13	Unreserved		66	Scheduled Tribes
14	Scheduled Tribes		67	Unreserved
15	Unreserved		68	Scheduled Castes
16	Unreserved		69	Unreserved
17	Scheduled Castes		70	Other Backward Classes
18	Unreserved		71	Unreserved
19	Other Backward Classes		72	Unreserved
20	Unreserved		73	Scheduled Castes
21	Scheduled Tribes		74	Unreserved
22	Unreserved		75	Scheduled Tribes
23	Unreserved		76	Unreserved
24	Scheduled Castes		77	Unreserved
25	Unreserved		78	Other Backward Classes
26	Other Backward Classes		79	Unreserved
27	Unreserved		80	Scheduled Castes
28	Scheduled Tribes		81	Unreserved
29	Unreserved		82	Scheduled Tribes
30	Unreserved		83	Unreserved
31	Scheduled Castes		84	Other Backward Classes
32	Unreserved		85	Unreserved
33	Other Backward Classes		86	Unreserved
34	Unreserved		87	Scheduled Castes
35	Scheduled Tribes		88	Unreserved
36	Unreserved		89	Scheduled Tribes
37	Unreserved		90	Unreserved
38	Scheduled Castes		91	Other Backward Classes
39	Unreserved		92	Unreserved
40	Other Backward Classes		93	Unreserved
41	Unreserved		94	Scheduled Castes
42	Scheduled Castes		95	Unreserved
43	Unreserved		96	Unreserved
44	Unreserved		97	Scheduled Tribes
45	Scheduled Tribes		98	Unreserved
46	Unreserved		99	Other Backward Classes
47	Scheduled Castes		100	Scheduled Castes

16. District—Shahdol		Reservation Percentage		(1)	(2)
		Scheduled Tribes	43 %	48	Other Backward Classes
		Scheduled Castes	7 %	49	Unreserved
		Other Backward Classes	14 %	50	Scheduled Tribes
Roster Point	Reserved/Unreserved			51	Scheduled Tribes
(1)	(2)			52	Unreserved
1	Unreserved			53	Scheduled Castes
2	Scheduled Tribes			54	Scheduled Tribes
3	Unreserved			55	Unreserved
4	Scheduled Tribes			56	Other Backward Classes
5	Unreserved			57	Scheduled Tribes
6	Other Backward Classes			58	Unreserved
7	Scheduled Tribes			59	Scheduled Tribes
8	Unreserved			60	Scheduled Tribes
9	Scheduled Tribes			61	Unreserved
10	Scheduled Castes			62	Other Backward Classes
11	Unreserved			63	Unreserved
12	Scheduled Tribes			64	Scheduled Tribes
13	Other Backward Classes			65	Scheduled Tribes
14	Unreserved			66	Unreserved
15	Scheduled Tribes			67	Scheduled Castes
16	Scheduled Tribes			68	Scheduled Tribes
17	Unreserved			69	Unreserved
18	Scheduled Tribes			70	Scheduled Tribes
19	Other Backward Classes			71	Other Backward Classes
20	Unreserved			72	Unreserved
21	Scheduled Tribes			73	Scheduled Tribes
22	Unreserved			74	Scheduled Tribes
23	Scheduled Castes			75	Unreserved
24	Scheduled Tribes			76	Scheduled Tribes
25	Unreserved			77	Unreserved
26	Scheduled Tribes			78	Other Backward Classes
27	Unreserved			79	Scheduled Tribes
28	Other Backward Classes			80	Unreserved
29	Scheduled Tribes			81	Scheduled Castes
30	Unreserved			82	Scheduled Tribes
31	Scheduled Tribes			83	Unreserved
32	Scheduled Tribes			84	Scheduled Tribes
33	Unreserved			85	Other Backward Classes
34	Other Backward Classes			86	Unreserved
35	Scheduled Tribes			87	Scheduled Tribes
36	Unreserved			88	Scheduled Tribes
37	Scheduled Tribes			89	Unreserved
38	Unreserved			90	Scheduled Tribes
39	Scheduled Castes			91	Other Backward Classes
40	Scheduled Tribes			92	Unreserved
41	Unreserved			93	Scheduled Tribes
42	Other Backward Classes			94	Unreserved
43	Scheduled Tribes			95	Scheduled Tribes
44	Unreserved			96	Scheduled Castes
45	Scheduled Tribes			97	Unreserved
46	Scheduled Tribes			98	Scheduled Tribes
47	Unreserved			99	Other Backward Classes
				100	Scheduled Tribes

**17. District—Umariya Reservation Percentage**

		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	44 %	
	Scheduled Castes	7 %	
	Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
1	Unreserved	48	Unreserved
2	Scheduled Tribes	49	Other Backward Classes
3	Unreserved	50	Scheduled Tribes
4	Scheduled Tribes	51	Unreserved
5	Unreserved	52	Scheduled Castes
6	Other Backward Classes	53	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes	54	Unreserved
8	Unreserved	55	Scheduled Tribes
9	Scheduled Tribes	56	Other Backward Classes
10	Scheduled Castes	57	Unreserved
11	Unreserved	58	Scheduled Tribes
12	Scheduled Tribes	59	Scheduled Tribes
13	Other Backward Classes	60	Unreserved
14	Unreserved	61	Scheduled Tribes
15	Scheduled Tribes	62	Unreserved
16	Scheduled Tribes	63	Other Backward Classes
17	Unreserved	64	Scheduled Tribes
18	Scheduled Tribes	65	Unreserved
19	Other Backward Classes	66	Scheduled Tribes
20	Unreserved	67	Scheduled Castes
21	Scheduled Tribes	68	Unreserved
22	Scheduled Tribes	69	Scheduled Tribes
23	Unreserved	70	Other Backward Classes
24	Scheduled Tribes	71	Scheduled Tribes
25	Other Backward Classes	72	Unreserved
26	Unreserved	73	Scheduled Tribes
27	Scheduled Tribes	74	Unreserved
28	Unreserved	75	Scheduled Tribes
29	Scheduled Tribes	76	Other Backward Classes
30	Scheduled Tribes	77	Unreserved
31	Unreserved	78	Scheduled Tribes
32	Scheduled Tribes	79	Scheduled Tribes
33	Other Backward Classes	80	Unreserved
34	Unreserved	81	Scheduled Castes
35	Scheduled Tribes	82	Scheduled Tribes
36	Scheduled Tribes	83	Unreserved
37	Unreserved	84	Scheduled Tribes
38	Scheduled Tribes	85	Other Backward Classes
39	Other Backward Classes	86	Unreserved
40	Unreserved	87	Scheduled Tribes
41	Scheduled Tribes	88	Scheduled Tribes
42	Scheduled Tribes	89	Unreserved
43	Unreserved	90	Other Backward Classes
44	Scheduled Castes	91	Scheduled Tribes
45	Scheduled Tribes	92	Unreserved
46	Unreserved	93	Scheduled Tribes
47	Scheduled Tribes	94	Unreserved
	Other Backward Classes	95	Scheduled Tribes
	Unreserved	96	Scheduled Castes
	Scheduled Tribes	97	Unreserved
	Unreserved	98	Scheduled Tribes
	Scheduled Tribes	99	Other Backward Classes
	Scheduled Tribes	100	Scheduled Tribes

**18. District—Anuppur Reservation Percentage**

		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	46 %	
	Scheduled Castes	7 %	
	Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
1	Unreserved	48	Unreserved
2	Scheduled Tribes	49	Other Backward Classes
3	Unreserved	50	Scheduled Tribes
4	Scheduled Tribes	51	Unreserved
5	Other Backward Classes	52	Scheduled Castes
6	Unreserved	53	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes	54	Unreserved
8	Scheduled Tribes	55	Scheduled Tribes
9	Unreserved	56	Other Backward Classes
10	Scheduled Castes	57	Unreserved
11	Scheduled Tribes	58	Scheduled Tribes
12	Other Backward Classes	59	Scheduled Tribes
13	Unreserved	60	Unreserved
14	Scheduled Tribes	61	Scheduled Tribes
15	Unreserved	62	Other Backward Classes
16	Scheduled Tribes	63	Unreserved
17	Scheduled Tribes	64	Scheduled Tribes
18	Unreserved	65	Scheduled Tribes
19	Other Backward Classes	66	Unreserved
20	Scheduled Tribes	67	Scheduled Castes
21	Unreserved	68	Scheduled Tribes
22	Scheduled Tribes	69	Unreserved
23	Scheduled Castes	70	Scheduled Tribes
24	Unreserved	71	Other Backward Classes
25	Scheduled Tribes	72	Unreserved
26	Scheduled Tribes	73	Scheduled Tribes
27	Unreserved	74	Scheduled Tribes
28	Other Backward Classes	75	Unreserved
29	Scheduled Tribes	76	Scheduled Tribes
30	Unreserved	77	Other Backward Classes
31	Scheduled Tribes	78	Unreserved
32	Scheduled Tribes	79	Scheduled Tribes
33	Unreserved	80	Scheduled Tribes
34	Other Backward Classes	81	Unreserved
35	Scheduled Tribes	82	Scheduled Castes
36	Unreserved	83	Scheduled Tribes
37	Scheduled Tribes	84	Unreserved
38	Scheduled Castes	85	Other Backward Classes
39	Unreserved	86	Scheduled Tribes
40	Scheduled Tribes	87	Unreserved
41	Other Backward Classes	88	Scheduled Tribes
42	Unreserved	89	Scheduled Tribes
43	Scheduled Tribes	90	Unreserved
44	Scheduled Tribes	91	Scheduled Tribes
45	Unreserved	92	Other Backward Classes
46	Scheduled Tribes	93	Unreserved
47	Scheduled Tribes	94	Scheduled Tribes
		95	Scheduled Castes
		96	Unreserved
		97	Scheduled Tribes
		98	Other Backward Classes
		99	Scheduled Tribes
		100	Scheduled Tribes



19. District—Sidhi		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 28 %		
		Scheduled Castes 11 %	48	Other Backward Classes
		Other Backward Classes 14 %	49	Unreserved
Roster	Reserved/Unreserved		50	Scheduled Tribes
Point			51	Unreserved
(1)	(2)		52	Scheduled Castes
			53	Unreserved
1	Unreserved		54	Scheduled Tribes
2	Scheduled Tribes		55	Unreserved
3	Unreserved		56	Other Backward Classes
4	Other Backward Classes		57	Unreserved
5	Unreserved		58	Scheduled Tribes
6	Scheduled Tribes		59	Unreserved
7	Unreserved		60	Scheduled Tribes
8	Scheduled Castes		61	Unreserved
9	Unreserved		62	Scheduled Castes
10	Scheduled Tribes		63	Unreserved
11	Unreserved		64	Other Backward Classes
12	Other Backward Classes		65	Scheduled Tribes
13	Unreserved		66	Unreserved
14	Scheduled Tribes		67	Scheduled Tribes
15	Unreserved		68	Unreserved
16	Scheduled Castes		69	Other Backward Classes
17	Unreserved		70	Unreserved
18	Other Backward Classes		71	Scheduled Tribes
19	Unreserved		72	Scheduled Castes
20	Scheduled Tribes		73	Unreserved
21	Unreserved		74	Scheduled Tribes
22	Scheduled Tribes		75	Unreserved
23	Unreserved		76	Other Backward Classes
24	Scheduled Castes		77	Unreserved
25	Scheduled Tribes		78	Scheduled Tribes
26	Unreserved		79	Unreserved
27	Other Backward Classes		80	Scheduled Castes
28	Unreserved		81	Unreserved
29	Scheduled Tribes		82	Scheduled Tribes
30	Unreserved		83	Unreserved
31	Scheduled Tribes		84	Other Backward Classes
32	Unreserved		85	Unreserved
33	Scheduled Castes		86	Scheduled Tribes
34	Unreserved		87	Unreserved
35	Other Backward Classes		88	Scheduled Castes
36	Unreserved		89	Unreserved
37	Scheduled Tribes		90	Scheduled Tribes
38	Unreserved		91	Other Backward Classes
39	Scheduled Tribes		92	Unreserved
40	Unreserved		93	Scheduled Tribes
41	Other Backward Classes		94	Unreserved
42	Unreserved		95	Scheduled Tribes
43	Scheduled Tribes		96	Unreserved
44	Scheduled Castes		97	Other Backward Classes
45	Unreserved		98	Scheduled Castes
46	Scheduled Tribes		99	Unreserved
47	Unreserved		100	Scheduled Tribes

20. District-Singroli Reservation Percentage		(1)	(2)
	Scheduled Tribes 32 %		
	Scheduled Castes 13%	48	Unreserved
	Other Backward Classes 14 %	49	Other Backward Classes
Roster Point	Reserved/Unreserved	50	Scheduled Tribes
(1)	(2)	51	Unreserved
		52	Scheduled Castes
1	Unreserved	53	Unreserved
2	Scheduled Tribes	54	Scheduled Tribes
3	Unreserved	55	Unreserved
4	Other Backward Classes	56	Other Backward Classes
5	Unreserved	57	Scheduled Tribes
6	Scheduled Castes	58	Unreserved
7	Scheduled Tribes	59	Scheduled Tribes
8	Unreserved	60	Unreserved
9	Scheduled Tribes	61	Scheduled Castes
10	Unreserved	62	Unreserved
11	Other Backward Classes	63	Scheduled Tribes
12	Unreserved	64	Other Backward Classes
13	Scheduled Tribes	65	Unreserved
14	Scheduled Castes	66	Scheduled Tribes
15	Unreserved	67	Unreserved
16	Scheduled Tribes	68	Scheduled Castes
17	Unreserved	69	Scheduled Tribes
18	Other Backward Classes	70	Unreserved
19	Scheduled Tribes	71	Other Backward Classes
20	Unreserved	72	Scheduled Tribes
21	Scheduled Tribes	73	Unreserved
22	Scheduled Castes	74	Scheduled Castes
23	Unreserved	75	Scheduled Tribes
24	Scheduled Tribes	76	Unreserved
25	Unreserved	77	Other Backward Classes
26	Other Backward Classes	78	Scheduled Tribes
27	Scheduled Tribes	79	Unreserved
28	Unreserved	80	Scheduled Tribes
29	Scheduled Castes	81	Unreserved
30	Unreserved	82	Scheduled Castes
31	Scheduled Tribes	83	Unreserved
32	Unreserved	84	Scheduled Tribes
33	Other Backward Classes	85	Other Backward Classes
34	Unreserved	86	Unreserved
35	Scheduled Tribes	87	Scheduled Tribes
36	Unreserved	88	Unreserved
37	Scheduled Castes	89	Scheduled Castes
38	Scheduled Tribes	90	Scheduled Tribes
39	Unreserved	91	Unreserved
40	Scheduled Tribes	92	Other Backward Classes
41	Other Backward Classes	93	Unreserved
42	Unreserved	94	Scheduled Tribes
43	Scheduled Tribes	95	Unreserved
44	Unreserved	96	Scheduled Tribes
45	Scheduled Castes	97	Scheduled Castes
46	Unreserved	98	Other Backward Classes
47	Scheduled Tribes	99	Unreserved
		100	Scheduled Tribes

**21. District-Mandsaur Reservation Percentage**  
 Scheduled Tribes 3 %  
 Scheduled Castes 18%  
 Other Backward Classes 14 %

Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)
1	Unreserved
2	Unreserved
3	Scheduled Castes
4	Unreserved
5	Unreserved
6	Other Backward Classes
7	Unreserved
8	Unreserved
9	Scheduled Castes
10	Unreserved
11	Unreserved
12	Other Backward Classes
13	Unreserved
14	Unreserved
15	Scheduled Castes
16	Unreserved
17	Unreserved
18	Other Backward Classes
19	Unreserved
20	Unreserved
21	Scheduled Castes
22	Unreserved
23	Unreserved
24	Scheduled Tribes
25	Unreserved
26	Unreserved
27	Scheduled Castes
28	Unreserved
29	Other Backward Classes
30	Unreserved
31	Unreserved
32	Scheduled Castes
33	Unreserved
34	Unreserved
35	Other Backward Classes
36	Unreserved
37	Unreserved
38	Scheduled Castes
39	Unreserved
40	Other Backward Classes
41	Unreserved
42	Unreserved
43	Scheduled Castes
44	Unreserved
45	Unreserved
46	Unreserved
47	Other Backward Classes

(1)	(2)
48	Unreserved
49	Scheduled Castes
50	Unreserved
51	Unreserved
52	Unreserved
53	Scheduled Castes
54	Unreserved
55	Unreserved
56	Other Backward Classes
57	Unreserved
58	Unreserved
59	Scheduled Tribes
60	Unreserved
61	Scheduled Castes
62	Unreserved
63	Other Backward Classes
64	Unreserved
65	Unreserved
66	Scheduled Castes
67	Unreserved
68	Unreserved
69	Other Backward Classes
70	Unreserved
71	Unreserved
72	Scheduled Castes
73	Unreserved
74	Unreserved
75	Other Backward Classes
76	Unreserved
77	Scheduled Castes
78	Unreserved
79	Unreserved
80	Unreserved
81	Scheduled Castes
82	Unreserved
83	Unreserved
84	Other Backward Classes
85	Unreserved
86	Unreserved
87	Scheduled Castes
88	Unreserved
89	Unreserved
90	Scheduled Tribes
91	Unreserved
92	Other Backward Classes
93	Unreserved
94	Scheduled Castes
95	Unreserved
96	Unreserved
97	Other Backward Classes
98	Unreserved
99	Unreserved
100	Scheduled Castes

22. District-Neemuch		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 9 %		
		Scheduled Castes 13%	49	Unreserved
		Other Backward Classes 14 %	50	Unreserved
Roster Point	Reserved/Unreserved		51	Scheduled Castes
(1)	(2)		52	Unreserved
			53	Scheduled Tribes
1	Unreserved		54	Unreserved
2	Unreserved		55	Unreserved
3	Other Backward Classes		56	Other Backward Classes
4	Unreserved		57	Unreserved
5	Unreserved		58	Unreserved
6	Scheduled Castes		59	Scheduled Castes
7	Unreserved		60	Unreserved
8	Unreserved		61	Unreserved
9	Scheduled Tribes		62	Other Backward Classes
10	Unreserved		63	Unreserved
11	Unreserved		64	Scheduled Tribes
12	Other Backward Classes		65	Unreserved
13	Unreserved		66	Unreserved
14	Scheduled Castes		67	Scheduled Castes
15	Unreserved		68	Unreserved
16	Unreserved		69	Unreserved
17	Scheduled Tribes		70	Other Backward Classes
18	Unreserved		71	Unreserved
19	Unreserved		72	Unreserved
20	Other Backward Classes		73	Scheduled Tribes
21	Unreserved		74	Unreserved
22	Unreserved		75	Scheduled Castes
23	Scheduled Castes		76	Unreserved
24	Unreserved		77	Unreserved
25	Unreserved		78	Other Backward Classes
26	Other Backward Classes		79	Unreserved
27	Unreserved		80	Unreserved
28	Scheduled Castes		81	Unreserved
29	Unreserved		82	Scheduled Castes
30	Unreserved		83	Unreserved
31	Scheduled Tribes		84	Other Backward Classes
32	Unreserved		85	Unreserved
33	Unreserved		86	Unreserved
34	Other Backward Classes		87	Scheduled Tribes
35	Unreserved		88	Unreserved
36	Unreserved		89	Unreserved
37	Scheduled Castes		90	Scheduled Castes
38	Unreserved		91	Unreserved
39	Unreserved		92	Other Backward Classes
40	Scheduled Tribes		93	Unreserved
41	Unreserved		94	Unreserved
42	Other Backward Classes		95	Scheduled Tribes
43	Unreserved		96	Unreserved
44	Unreserved		97	Unreserved
45	Scheduled Castes		98	Scheduled Castes
46	Unreserved		99	Unreserved
47	Unreserved		100	Other Backward Classes
48	Other Backward Classes			

23. District-Ratlam		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 26 %		
		Scheduled Castes 13%		
		Other Backward Classes 14 %		
Roster Point	Reserved/Unreserved			
(1)	(2)			
1	Unreserved		49	Unreserved
2	Scheduled Tribes		50	Scheduled Tribes
3	Unreserved		51	Scheduled Castes
4	Other Backward Classes		52	Unreserved
5	Unreserved		53	Scheduled Tribes
6	Scheduled Castes		54	Unreserved
7	Unreserved		55	Other Backward Classes
8	Scheduled Tribes		56	Unreserved
9	Unreserved		57	Scheduled Tribes
10	Scheduled Tribes		58	Unreserved
11	Unreserved		59	Scheduled Castes
12	Other Backward Classes		60	Unreserved
13	Unreserved		61	Scheduled Tribes
14	Scheduled Castes		62	Unreserved
15	Unreserved		63	Other Backward Classes
16	Scheduled Tribes		64	Unreserved
17	Unreserved		65	Scheduled Tribes
18	Other Backward Classes		66	Unreserved
19	Scheduled Tribes		67	Scheduled Castes
20	Unreserved		68	Scheduled Tribes
21	Scheduled Castes		69	Unreserved
22	Unreserved		70	Other Backward Classes
23	Scheduled Tribes		71	Unreserved
24	Unreserved		72	Scheduled Tribes
25	Other Backward Classes		73	Unreserved
26	Unreserved		74	Scheduled Castes
27	Scheduled Tribes		75	Unreserved
28	Unreserved		76	Scheduled Tribes
29	Scheduled Castes		77	Unreserved
30	Unreserved		78	Other Backward Classes
31	Scheduled Tribes		79	Unreserved
32	Unreserved		80	Scheduled Tribes
33	Other Backward Classes		81	Unreserved
34	Scheduled Tribes		82	Scheduled Castes
35	Unreserved		83	Unreserved
36	Scheduled Castes		84	Scheduled Tribes
37	Unreserved		85	Other Backward Classes
38	Scheduled Tribes		86	Unreserved
39	Unreserved		87	Scheduled Tribes
40	Other Backward Classes		88	Unreserved
41	Unreserved		89	Scheduled Castes
42	Scheduled Tribes		90	Unreserved
43	Unreserved		91	Other Backward Classes
44	Scheduled Castes		92	Unreserved
45	Unreserved		93	Scheduled Tribes
46	Scheduled Tribes		94	Unreserved
47	Unreserved		95	Scheduled Tribes
48	Other Backward Classes		96	Unreserved
			97	Scheduled Castes
			98	Unreserved
			99	Other Backward Classes
			100	Scheduled Tribes

24. District-Ujjain		Reservation Percentage	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
(1)	(2)		
			Scheduled Tribes 3 %
		49	Scheduled Castes 25 %
		50	Other Backward Classes 14 %
1	Unreserved	51	Unreserved
2	Unreserved	52	Unreserved
3	Scheduled Castes	53	Scheduled Tribes
4	Unreserved	54	Unreserved
5	Other Backward Classes	55	Scheduled Castes
6	Unreserved	56	Unreserved
7	Unreserved	57	Unreserved
8	Scheduled Castes	58	Other Backward Classes
9	Unreserved	59	Unreserved
10	Scheduled Castes	60	Scheduled Castes
11	Unreserved	61	Unreserved
12	Other Backward Classes	62	Other Backward Classes
13	Unreserved	63	Unreserved
14	Unreserved	64	Unreserved
15	Scheduled Castes	65	Scheduled Castes
16	Unreserved	66	Unreserved
17	Unreserved	67	Scheduled Castes
18	Other Backward Classes	68	Unreserved
19	Unreserved	69	Unreserved
20	Scheduled Castes	70	Other Backward Classes
21	Unreserved	71	Unreserved
22	Scheduled Tribes	72	Scheduled Castes
23	Unreserved	73	Unreserved
24	Scheduled Castes	74	Scheduled Castes
25	Unreserved	75	Unreserved
26	Unreserved	76	Unreserved
27	Other Backward Classes	77	Other Backward Classes
28	Unreserved	78	Unreserved
29	Scheduled Castes	79	Scheduled Castes
30	Unreserved	80	Unreserved
31	Scheduled Castes	81	Unreserved
32	Unreserved	82	Scheduled Castes
33	Unreserved	83	Unreserved
34	Other Backward Classes	84	Other Backward Classes
35	Unreserved	85	Unreserved
36	Scheduled Castes	86	Scheduled Castes
37	Unreserved	87	Unreserved
38	Unreserved	88	Unreserved
39	Scheduled Castes	89	Scheduled Tribes
40	Unreserved	90	Unreserved
41	Other Backward Classes	91	Scheduled Tribes
42	Unreserved	92	Unreserved
43	Scheduled Castes	93	Other Backward Classes
44	Unreserved	94	Unreserved
45	Unreserved	95	Unreserved
46	Scheduled Castes	96	Scheduled Castes
47	Unreserved	97	Unreserved
48	Other Backward Classes	98	Other Backward Classes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Castes

25. District-Shajapur		Reservation Percentage
		Scheduled Tribes 3 %
		Scheduled Castes 22 %
		Other Backward Classes 14 %

Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)
1	Unreserved
2	Unreserved
3	Scheduled Castes
4	Unreserved
5	Unreserved
6	Other Backward Classes
7	Unreserved
8	Scheduled Castes
9	Unreserved
10	Unreserved
11	Other Backward Classes
12	Unreserved
13	Scheduled Castes
14	Unreserved
15	Unreserved
16	Scheduled Castes
17	Unreserved
18	Other Backward Classes
19	Unreserved
20	Unreserved
21	Scheduled Castes
22	Unreserved
23	Unreserved
24	Scheduled Tribes
25	Unreserved
26	Scheduled Castes
27	Unreserved
28	Unreserved
29	Other Backward Classes
30	Unreserved
31	Scheduled Castes
32	Unreserved
33	Unreserved
34	Other Backward Classes
35	Unreserved
36	Scheduled Castes
37	Unreserved
38	Unreserved
39	Scheduled Castes
40	Unreserved
41	Unreserved
42	Other Backward Classes
43	Unreserved
44	Scheduled Castes
45	Unreserved
46	Unreserved
47	Other Backward Classes
48	Unreserved

(1)	(2)
49	Scheduled Castes
50	Unreserved
51	Unreserved
52	Scheduled Tribes
53	Unreserved
54	Scheduled Castes
55	Unreserved
56	Unreserved
57	Other Backward Classes
58	Unreserved
59	Scheduled Castes
60	Unreserved
61	Unreserved
62	Other Backward Classes
63	Unreserved
64	Unreserved
65	Scheduled Castes
66	Unreserved
67	Scheduled Castes
68	Unreserved
69	Unreserved
70	Other Backward Classes
71	Unreserved
72	Scheduled Castes
73	Unreserved
74	Unreserved
75	Other Backward Classes
76	Unreserved
77	Scheduled Castes
78	Unreserved
79	Unreserved
80	Scheduled Castes
81	Unreserved
82	Unreserved
83	Other Backward Classes
84	Unreserved
85	Scheduled Castes
86	Unreserved
87	Unreserved
88	Scheduled Tribes
89	Unreserved
90	Scheduled Castes
91	Unreserved
92	Unreserved
93	Other Backward Classes
94	Unreserved
95	Scheduled Castes
96	Unreserved
97	Unreserved
98	Other Backward Classes
99	Unreserved
100	Scheduled Castes

26. District-Dewas		Reservation Percentage	
		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	16 %	
	Scheduled Castes	18 %	
	Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
(1)	(2)		
1	Unreserved	49	Unreserved
2	Unreserved	50	Scheduled Castes
3	Scheduled Castes	51	Unreserved
4	Unreserved	52	Unreserved
5	Scheduled Tribes	53	Scheduled Castes
6	Unreserved	54	Unreserved
7	Other Backward Classes	55	Scheduled Tribes
8	Unreserved	56	Unreserved
9	Scheduled Castes	57	Other Backward Classes
10	Unreserved	58	Unreserved
11	Scheduled Tribes	59	Scheduled Castes
12	Unreserved	60	Unreserved
13	Other Backward Classes	61	Scheduled Tribes
14	Unreserved	62	Unreserved
15	Scheduled Castes	63	Other Backward Classes
16	Unreserved	64	Unreserved
17	Scheduled Tribes	65	Scheduled Castes
18	Unreserved	66	Unreserved
19	Other Backward Classes	67	Scheduled Tribes
20	Unreserved	68	Unreserved
21	Scheduled Castes	69	Other Backward Classes
22	Unreserved	70	Unreserved
23	Scheduled Tribes	71	Scheduled Castes
24	Unreserved	72	Unreserved
25	Unreserved	73	Scheduled Tribes
26	Other Backward Classes	74	Unreserved
27	Unreserved	75	Unreserved
28	Scheduled Castes	76	Scheduled Castes
29	Unreserved	77	Unreserved
30	Scheduled Tribes	78	Other Backward Classes
31	Unreserved	79	Unreserved
32	Scheduled Castes	80	Scheduled Tribes
33	Unreserved	81	Unreserved
34	Other Backward Classes	82	Scheduled Castes
35	Unreserved	83	Unreserved
36	Scheduled Tribes	84	Other Backward Classes
37	Unreserved	85	Unreserved
38	Scheduled Castes	86	Scheduled Tribes
39	Unreserved	87	Unreserved
40	Other Backward Classes	88	Scheduled Castes
41	Unreserved	89	Unreserved
42	Scheduled Tribes	90	Other Backward Classes
43	Unreserved	91	Unreserved
44	Scheduled Castes	92	Scheduled Tribes
45	Unreserved	93	Unreserved
46	Unreserved	94	Scheduled Castes
47	Other Backward Classes	95	Unreserved
48	Scheduled Tribes	96	Unreserved
		97	Other Backward Classes
		98	Scheduled Tribes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Castes



27. District-Jhabua		Reservation Percentage	
		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	85 %	
	Scheduled Castes	2 %	
	Other Backward Classes	5 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved		
(1)	(2)		
1	Unreserved	49	Scheduled Tribes
2	Scheduled Tribes	50	Scheduled Tribes
3	Scheduled Tribes	51	Scheduled Tribes
4	Scheduled Tribes	52	Scheduled Tribes
5	Scheduled Tribes	53	Scheduled Tribes
6	Scheduled Tribes	54	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes	55	Scheduled Tribes
8	Scheduled Tribes	56	Scheduled Tribes
9	Scheduled Tribes	57	Scheduled Tribes
10	Scheduled Tribes	58	Scheduled Tribes
11	Scheduled Tribes	59	Scheduled Tribes
12	Scheduled Tribes	60	Other Backward Classes
13	Unreserved	61	Scheduled Tribes
14	Scheduled Tribes	62	Unreserved
15	Scheduled Tribes	63	Scheduled Tribes
16	Scheduled Tribes	64	Scheduled Tribes
17	Scheduled Tribes	65	Scheduled Tribes
18	Other Backward Classes	66	Scheduled Tribes
19	Scheduled Tribes	67	Scheduled Tribes
20	Scheduled Tribes	68	Scheduled Tribes
21	Scheduled Tribes	69	Scheduled Tribes
22	Scheduled Tribes	70	Scheduled Tribes
23	Scheduled Tribes	71	Scheduled Tribes
24	Scheduled Tribes	72	Scheduled Tribes
25	Scheduled Tribes	73	Scheduled Tribes
26	Scheduled Tribes	74	Unreserved
27	Scheduled Tribes	75	Scheduled Tribes
28	Scheduled Tribes	76	Scheduled Tribes
29	Scheduled Tribes	77	Scheduled Tribes
30	Scheduled Tribes	78	Other Backward Classes
31	Scheduled Tribes	79	Scheduled Tribes
32	Scheduled Tribes	80	Scheduled Tribes
33	Scheduled Tribes	81	Scheduled Tribes
34	Scheduled Tribes	82	Scheduled Tribes
35	Scheduled Tribes	83	Unreserved
36	Unreserved	84	Scheduled Tribes
37	Scheduled Tribes	85	Scheduled Tribes
38	Scheduled Tribes	86	Scheduled Tribes
39	Scheduled Tribes	87	Scheduled Tribes
40	Other Backward Classes	88	Scheduled Tribes
41	Scheduled Tribes	89	Scheduled Tribes
42	Unreserved	90	Scheduled Tribes
43	Scheduled Tribes	91	Scheduled Tribes
44	Scheduled Tribes	92	Scheduled Tribes
45	Scheduled Tribes	93	Scheduled Tribes
46	Scheduled Tribes	94	Scheduled Tribes
47	Scheduled Tribes	95	Scheduled Tribes
48	Scheduled Tribes	96	Scheduled Tribes
		97	Unreserved
		98	Scheduled Tribes
		99	Other Backward Classes
		100	Scheduled Tribes

28. District-Alirajpur		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes	89 %	
		Scheduled Castes	4 %	
		Other Backward Classes	5 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved			
(1)	(2)			
1	Unreserved		49	Scheduled Tribes
2	Scheduled Tribes		50	Scheduled Tribes
3	Scheduled Tribes		51	Scheduled Tribes
4	Scheduled Tribes		52	Scheduled Tribes
5	Scheduled Tribes		53	Scheduled Tribes
6	Scheduled Tribes		54	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes		55	Scheduled Tribes
8	Scheduled Tribes		56	Scheduled Tribes
9	Scheduled Tribes		57	Scheduled Tribes
10	Scheduled Tribes		58	Scheduled Tribes
11	Scheduled Tribes		59	Scheduled Tribes
12	Scheduled Tribes		60	Other Backward Classes
13	Scheduled Tribes		61	Scheduled Tribes
14	Scheduled Tribes		62	Scheduled Tribes
15	Scheduled Tribes		63	Scheduled Tribes
16	Scheduled Tribes		64	Scheduled Tribes
17	Scheduled Tribes		65	Scheduled Tribes
18	Other Backward Classes		66	Unreserved
19	Scheduled Tribes		67	Scheduled Tribes
20	Scheduled Tribes		68	Scheduled Tribes
21	Scheduled Tribes		69	Scheduled Tribes
22	Scheduled Tribes		70	Scheduled Tribes
23	Scheduled Tribes		71	Scheduled Tribes
24	Scheduled Tribes		72	Scheduled Tribes
25	Scheduled Tribes		73	Scheduled Tribes
26	Scheduled Tribes		74	Scheduled Tribes
27	Scheduled Tribes		75	Scheduled Tribes
28	Scheduled Tribes		76	Scheduled Tribes
29	Scheduled Tribes		77	Scheduled Tribes
30	Scheduled Tribes		78	Scheduled Tribes
31	Scheduled Tribes		79	Scheduled Tribes
32	Scheduled Tribes		80	Other Backward Classes
33	Scheduled Tribes		81	Scheduled Tribes
34	Scheduled Tribes		82	Scheduled Tribes
35	Scheduled Tribes		83	Scheduled Tribes
36	Scheduled Tribes		84	Scheduled Tribes
37	Scheduled Tribes		85	Scheduled Tribes
38	Other Backward Classes		86	Scheduled Tribes
39	Scheduled Tribes		87	Scheduled Tribes
40	Scheduled Tribes		88	Scheduled Tribes
41	Scheduled Tribes		89	Scheduled Tribes
42	Scheduled Tribes		90	Scheduled Tribes
43	Scheduled Tribes		91	Scheduled Tribes
44	Scheduled Tribes		92	Scheduled Tribes
45	Scheduled Tribes		93	Scheduled Tribes
46	Scheduled Tribes		94	Scheduled Tribes
47	Scheduled Tribes		95	Scheduled Tribes
48	Scheduled Tribes		96	Scheduled Tribes
			97	Scheduled Tribes
			98	Other Backward Classes
			99	Scheduled Tribes
			100	Scheduled Tribes

29. District-Dhar		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 55 %		
		Scheduled Castes 6 %		
		Other Backward Classes 14 %		
Roster Point	Reserved/Unreserved			
(1)	(2)			
1	Unreserved		49	Scheduled Tribes
2	Scheduled Tribes		50	Other Backward Classes
3	Scheduled Tribes		51	Scheduled Tribes
4	Unreserved		52	Unreserved
5	Scheduled Tribes		53	Scheduled Tribes
6	Other Backward Classes		54	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes		55	Other Backward Classes
8	Unreserved		56	Unreserved
9	Scheduled Tribes		57	Scheduled Tribes
10	Scheduled Castes		58	Scheduled Tribes
11	Scheduled Tribes		59	Scheduled Castes
12	Other Backward Classes		60	Scheduled Tribes
13	Unreserved		61	Unreserved
14	Scheduled Tribes		62	Scheduled Tribes
15	Scheduled Tribes		63	Other Backward Classes
16	Unreserved		64	Scheduled Tribes
17	Scheduled Tribes		65	Unreserved
18	Other Backward Classes		66	Scheduled Tribes
19	Scheduled Tribes		67	Scheduled Tribes
20	Unreserved		68	Unreserved
21	Scheduled Tribes		69	Scheduled Tribes
22	Scheduled Tribes		70	Other Backward Classes
23	Scheduled Tribes		71	Scheduled Tribes
24	Unreserved		72	Unreserved
25	Scheduled Tribes		73	Scheduled Tribes
26	Other Backward Classes		74	Scheduled Tribes
27	Scheduled Tribes		75	Other Backward Classes
28	Unreserved		76	Unreserved
29	Scheduled Tribes		77	Scheduled Tribes
30	Scheduled Castes		78	Scheduled Tribes
31	Scheduled Tribes		79	Scheduled Castes
32	Unreserved		80	Unreserved
33	Scheduled Tribes		81	Scheduled Tribes
34	Other Backward Classes		82	Scheduled Tribes
35	Scheduled Tribes		83	Other Backward Classes
36	Unreserved		84	Unreserved
37	Scheduled Tribes		85	Scheduled Tribes
38	Other Backward Classes		86	Scheduled Tribes
39	Scheduled Tribes		87	Scheduled Tribes
40	Unreserved		88	Unreserved
41	Scheduled Tribes		89	Scheduled Tribes
42	Scheduled Tribes		90	Other Backward Classes
43	Other Backward Classes		91	Scheduled Tribes
44	Unreserved		92	Unreserved
45	Scheduled Tribes		93	Scheduled Tribes
46	Scheduled Castes		94	Scheduled Tribes
47	Scheduled Tribes		95	Scheduled Castes
48	Unreserved		96	Unreserved
			97	Scheduled Tribes
			98	Scheduled Tribes
			99	Other Backward Classes
			100	Scheduled Tribes

30. District—Indore		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 7 %		
		Scheduled Castes 16%	48	Unreserved
		Other Backward Classes 14 %	49	Scheduled Castes
Roster Point	Reserved/Unreserved		50	Unreserved
(1)	(2)		51	Unreserved
			52	Scheduled Tribes
1	Unreserved		53	Unreserved
2	Unreserved		54	Unreserved
3	Scheduled Castes		55	Scheduled Castes
4	Unreserved		56	Unreserved
5	Unreserved		57	Other Backward Classes
6	Other Backward Classes		58	Unreserved
7	Unreserved		59	Unreserved
8	Unreserved		60	Scheduled Castes
9	Scheduled Tribes		61	Unreserved
10	Unreserved		62	Unreserved
11	Scheduled Castes		63	Other Backward Classes
12	Unreserved		64	Unreserved
13	Unreserved		65	Scheduled Tribes
14	Other Backward Classes		66	Unreserved
15	Unreserved		67	Unreserved
16	Unreserved		68	Scheduled Castes
17	Scheduled Castes		69	Unreserved
18	Unreserved		70	Unreserved
19	Other Backward Classes		71	Other Backward Classes
20	Unreserved		72	Unreserved
21	Unreserved		73	Scheduled Castes
22	Scheduled Tribes		74	Unreserved
23	Unreserved		75	Unreserved
24	Unreserved		76	Other Backward Classes
25	Scheduled Castes		77	Unreserved
26	Unreserved		78	Unreserved
27	Unreserved		79	Scheduled Castes
28	Other Backward Classes		80	Unreserved
29	Unreserved		81	Unreserved
30	Scheduled Castes		82	Scheduled Tribes
31	Unreserved		83	Unreserved
32	Unreserved		84	Other Backward Classes
33	Other Backward Classes		85	Unreserved
34	Unreserved		86	Unreserved
35	Unreserved		87	Scheduled Castes
36	Scheduled Castes		88	Unreserved
37	Unreserved		89	Unreserved
38	Scheduled Tribes		90	Other Backward Classes
39	Unreserved		91	Unreserved
40	Unreserved		92	Scheduled Castes
41	Other Backward Classes		93	Unreserved
42	Unreserved		94	Unreserved
43	Unreserved		95	Scheduled Tribes
44	Scheduled Castes		96	Unreserved
45	Unreserved		97	Unreserved
46	Unreserved		98	Other Backward Classes
47	Other Backward Classes		99	Unreserved
			100	Scheduled Castes

31. District—Khargone		Reservation Percentage
	Scheduled Tribes	35 %
	Scheduled Castes	11%
	Other Backward Classes	14 %

Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)
1	Unreserved
2	Scheduled Tribes
3	Unreserved
4	Other Backward Classes
5	Scheduled Tribes
6	Unreserved
7	Scheduled Castes
8	Unreserved
9	Scheduled Tribes
10	Unreserved
11	Scheduled Tribes
12	Other Backward Classes
13	Unreserved
14	Scheduled Tribes
15	Unreserved
16	Scheduled Castes
17	Scheduled Tribes
18	Unreserved
19	Other Backward Classes
20	Scheduled Tribes
21	Unreserved
22	Scheduled Tribes
23	Unreserved
24	Scheduled Castes
25	Unreserved
26	Scheduled Tribes
27	Other Backward Classes
28	Unreserved
29	Scheduled Tribes
30	Unreserved
31	Scheduled Tribes
32	Unreserved
33	Scheduled Castes
34	Scheduled Tribes
35	Unreserved
36	Other Backward Classes
37	Scheduled Tribes
38	Unreserved
39	Scheduled Tribes
40	Unreserved
41	Other Backward Classes
42	Unreserved
43	Scheduled Tribes
44	Scheduled Castes
45	Unreserved
46	Scheduled Tribes
47	Unreserved
48	Scheduled Tribes

(1)	(2)
49	Other Backward Classes
50	Unreserved
51	Scheduled Tribes
52	Unreserved
53	Scheduled Castes
54	Scheduled Tribes
55	Unreserved
56	Other Backward Classes
57	Scheduled Tribes
58	Unreserved
59	Scheduled Tribes
60	Unreserved
61	Scheduled Castes
62	Scheduled Tribes
63	Unreserved
64	Other Backward Classes
65	Unreserved
66	Scheduled Tribes
67	Unreserved
68	Scheduled Tribes
69	Other Backward Classes
70	Unreserved
71	Scheduled Castes
72	Scheduled Tribes
73	Unreserved
74	Scheduled Tribes
75	Unreserved
76	Other Backward Classes
77	Unreserved
78	Scheduled Tribes
79	Scheduled Castes
80	Unreserved
81	Scheduled Tribes
82	Unreserved
83	Scheduled Tribes
84	Unreserved
85	Other Backward Classes
86	Scheduled Tribes
87	Unreserved
88	Scheduled Tribes
89	Schedule Castes
90	Unreserved
91	Scheduled Tribes
92	Other Backward Classes
93	Unreserved
94	Scheduled Tribes
95	Unreserved
96	Scheduled Tribes
97	Scheduled Castes
98	Unreserved
99	Other Backward Classes
100	Scheduled Tribes

32. District—Barwani		Reservation Percentage	
		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	67 %	
	Scheduled Castes	6 %	
	Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
(1)	(2)		
1	Unreserved	49	Other Backward Classes
2	Scheduled Tribes	50	Scheduled Tribes
3	Scheduled Tribes	51	Scheduled Tribes
4	Scheduled Tribes	52	Scheduled Tribes
5	Other Backward Classes	53	Unreserved
6	Scheduled Tribes	54	Scheduled Tribes
7	Unreserved	55	Scheduled Tribes
8	Scheduled Tribes	56	Other Backward Classes
9	Scheduled Tribes	57	Scheduled Tribes
10	Scheduled Tribes	58	Scheduled Tribes
11	Scheduled Castes	59	Scheduled Castes
12	Scheduled Tribes	60	Scheduled Tribes
13	Other Backward Classes	61	Unreserved
14	Scheduled Tribes	62	Scheduled Tribes
15	Scheduled Tribes	63	Scheduled Tribes
16	Unreserved	64	Other Backward Classes
17	Scheduled Tribes	65	Scheduled Tribes
18	Scheduled Tribes	66	Scheduled Tribes
19	Scheduled Tribes	67	Scheduled Tribes
20	Other Backward Classes	68	Scheduled Tribes
21	Scheduled Tribes	69	Unreserved
22	Scheduled Tribes	70	Scheduled Tribes
23	Unreserved	71	Other Backward Classes
24	Scheduled Tribes	72	Scheduled Tribes
25	Scheduled Tribes	73	Scheduled Tribes
26	Other Backward Classes	74	Scheduled Tribes
27	Scheduled Tribes	75	Other Backward Classes
28	Scheduled Tribes	76	Scheduled Tribes
29	Scheduled Castes	77	Unreserved
30	Unreserved	78	Scheduled Tribes
31	Scheduled Tribes	79	Scheduled Tribes
32	Scheduled Tribes	80	Scheduled Castes
33	Scheduled Tribes	81	Scheduled Tribes
34	Other Backward Classes	82	Scheduled Tribes
35	Scheduled Tribes	83	Other Backward Classes
36	Scheduled Tribes	84	Scheduled Tribes
37	Scheduled Tribes	85	Unreserved
38	Unreserved	86	Scheduled Tribes
39	Scheduled Tribes	87	Scheduled Tribes
40	Scheduled Tribes	88	Scheduled Tribes
41	Other Backward Classes	89	Scheduled Tribes
42	Scheduled Tribes	90	Other Backward Classes
43	Scheduled Tribes	91	Scheduled Tribes
44	Scheduled Tribes	92	Unreserved
45	Scheduled Castes	93	Scheduled Tribes
46	Scheduled Tribes	94	Scheduled Tribes
47	Unreserved	95	Scheduled Castes
48	Scheduled Tribes	96	Scheduled Tribes
		97	Scheduled Tribes
		98	Other Backward Classes
		99	Scheduled Tribes
		100	Scheduled Tribes

**33. District—Khandwa Reservation Percentage**

Scheduled Tribes	32%
Scheduled Castes	12%
Other Backward Classes	14%

Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)
1	Unreserved
2	Scheduled Tribes
3	Unreserved
4	Other Backward Classes
5	Unreserved
6	Scheduled Castes
7	Unreserved
8	Scheduled Tribes
9	Unreserved
10	Scheduled Tribes
11	Unreserved
12	Other Backward Classes
13	Scheduled Tribes
14	Unreserved
15	Scheduled Castes
16	Scheduled Tribes
17	Unreserved
18	Scheduled Tribes
19	Other Backward Classes
20	Unreserved
21	Scheduled Tribes
22	Unreserved
23	Scheduled Castes
24	Unreserved
25	Scheduled Tribes
26	Unreserved
27	Other Backward Classes
28	Unreserved
29	Scheduled Tribes
30	Unreserved
31	Scheduled Castes
32	Scheduled Tribes
33	Unreserved
34	Other Backward Classes
35	Scheduled Tribes
36	Unreserved
37	Scheduled Tribes
38	Unreserved
39	Scheduled Castes
40	Unreserved
41	Other Backward Classes
42	Scheduled Tribes
43	Unreserved
44	Scheduled Tribes
45	Unreserved
46	Scheduled Tribes
47	Unreserved
48	Scheduled Castes

(1)	(2)
49	Other Backward Classes
50	Scheduled Tribes
51	Unreserved
52	Scheduled Tribes
53	Unreserved
54	Other Backward Classes
55	Unreserved
56	Scheduled Tribes
57	Unreserved
58	Scheduled Castes
59	Unreserved
60	Scheduled Tribes
61	Unreserved
62	Scheduled Tribes
63	Other Backward Classes
64	Unreserved
65	Scheduled Castes
66	Scheduled Tribes
67	Unreserved
68	Scheduled Tribes
69	Unreserved
70	Other Backward Classes
71	Unreserved
72	Scheduled Tribes
73	Unreserved
74	Scheduled Castes
75	Scheduled Tribes
76	Unreserved
77	Other Backward Classes
78	Unreserved
79	Scheduled Tribes
80	Unreserved
81	Scheduled Tribes
82	Scheduled Castes
83	Unreserved
84	Scheduled Tribes
85	Other Backward Classes
86	Unreserved
87	Scheduled Tribes
88	Unreserved
89	Scheduled Castes
90	Unreserved
91	Scheduled Tribes
92	Other Backward Classes
93	Unreserved
94	Scheduled Tribes
95	Unreserved
96	Scheduled Tribes
97	Scheduled Castes
98	Unreserved
99	Other Backward Classes
100	Scheduled Tribes

**34. District—Burhanpur Reservation Percentage**

		(1)	(2)
Schedulcd Tribes 26 %			
Schedulcd Castes 9 %			
Other Backward Classes 14 %			
Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)		
1	Unreserved	49	Schedulcd Tribes
2	Unreserved	50	Unreserved
3	Schedulcd Tribes	51	Unreserved
4	Unreserved	52	Schedulcd Castes
5	Other Backward Classes	53	Unreserved
6	Unreserved	54	Schedulcd Tribes
7	Schedulcd Tribes	55	Unreserved
8	Unreserved	56	Other Backward Classes
9	Schedulcd Castes	57	Unreserved
10	Unreserved	58	Schedulcd Tribes
11	Schedulcd Tribes	59	Unreserved
12	Unreserved	60	Schedulcd Tribes
13	Other Backward Classes	61	Unreserved
14	Unreserved	62	Other Backward Classes
15	Schedulcd Tribes	63	Unreserved
16	Unreserved	64	Schedulcd Castes
17	Schedulcd Castes	65	Unreserved
18	Unreserved	66	Schedulcd Tribes
19	Schedulcd Tribes	67	Unreserved
20	Unreserved	68	Schedulcd Tribes
21	Other Backward Classes	69	Unreserved
22	Unreserved	70	Other Backward Classes
23	Schedulcd Tribes	71	Unreserved
24	Unreserved	72	Schedulcd Tribes
25	Schedulcd Tribes	73	Unreserved
26	Unreserved	74	Schedulcd Castes
27	Other Backward Classes	75	Unreserved
28	Unreserved	76	Schedulcd Tribes
29	Schedulcd Castes	77	Unreserved
30	Unreserved	78	Other Backward Classes
31	Schedulcd Tribes	79	Unreserved
32	Unreserved	80	Schedulcd Tribes
33	Other Backward Classes	81	Unreserved
34	Unreserved	82	Unreserved
35	Schedulcd Tribes	83	Other Backward Classes
36	Unreserved	84	Schedulcd Tribes
37	Schedulcd Tribes	85	Unreserved
38	Unreserved	86	Schedulcd Castes
39	Unreserved	87	Unreserved
40	Other Backward Classes	88	Schedulcd Tribes
41	Schedulcd Castes	89	Unreserved
42	Unreserved	90	Other Backward Classes
43	Schedulcd Tribes	91	Unreserved
44	Unreserved	92	Schedulcd Tribes
45	Schedulcd Tribes	93	Unreserved
46	Unreserved	94	Unreserved
47	Other Backward Classes	95	Schedulcd Tribes
48	Unreserved	96	Unreserved
		97	Schedulcd Castes
		98	Unreserved
		99	Other Backward Classes
		100	Schedulcd Tribes



35. District—Rajgarh		Reservation Percentage	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
(1)	(2)		
	Scheduled Tribes	4 %	
	Scheduled Castes	17 %	
	Other Backward Classes	14 %	
1	Unreserved	48	Unreserved
2	Unreserved	49	Other Backward Classes
3	Scheduled Castes	50	Unreserved
4	Unreserved	51	Unreserved
5	Unreserved	52	Scheduled Castes
6	Other Backward Classes	53	Unreserved
7	Unreserved	54	Unreserved
8	Unreserved	55	Other Backward Classes
9	Scheduled Castes	56	Unreserved
10	Unreserved	57	Unreserved
11	Unreserved	58	Scheduled Castes
12	Other Backward Classes	59	Unreserved
13	Unreserved	60	Unreserved
14	Unreserved	61	Other Backward Classes
15	Scheduled Tribes	62	Unreserved
16	Unreserved	63	Scheduled Castes
17	Unreserved	64	Unreserved
18	Scheduled Castes	65	Unreserved
19	Unreserved	66	Scheduled Tribes
20	Other Backward Classes	67	Unreserved
21	Unreserved	68	Unreserved
22	Unreserved	69	Scheduled Castes
23	Scheduled Castes	70	Unreserved
24	Unreserved	71	Unreserved
25	Unreserved	72	Other Backward Classes
26	Other Backward Classes	73	Unreserved
27	Unreserved	74	Unreserved
28	Unreserved	75	Scheduled Castes
29	Scheduled Castes	76	Unreserved
30	Unreserved	77	Unreserved
31	Unreserved	78	Other Backward Classes
32	Unreserved	79	Unreserved
33	Other Backward Classes	80	Scheduled Castes
34	Unreserved	81	Unreserved
35	Scheduled Castes	82	Unreserved
36	Unreserved	83	Other Backward Classes
37	Unreserved	84	Unreserved
38	Unreserved	85	Unreserved
39	Scheduled Castes	86	Scheduled Castes
40	Unreserved	87	Unreserved
41	Other Backward Classes	88	Unreserved
42	Unreserved	89	Scheduled Tribes
43	Scheduled Tribes	90	Unreserved
44	Unreserved	91	Unreserved
45	Unreserved	92	Other Backward Classes
46	Scheduled Castes	93	Unreserved
47	Unreserved	94	Unreserved
		95	Scheduled Castes
		96	Unreserved
		97	Unreserved
		98	Other Backward Classes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Castes

36. District—Vidisha		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 5 %		
		Scheduled Castes 20 %	48	Unreserved
		Other Backward Classes 14 %	49	Scheduled Castes
			50	Unreserved
Roster Point	Reserved/Unreserved		51	Unreserved
(1)	(2)		52	Scheduled Tribes
			53	Unreserved
1	Unreserved		54	Scheduled Castes
2	Unreserved		55	Unreserved
3	Scheduled Castes		56	Unreserved
4	Unreserved		57	Other Backward Classes
5	Unreserved		58	Unreserved
6	Other Backward Classes		59	Scheduled Castes
7	Unreserved		60	Unreserved
8	Scheduled Castes		61	Unreserved
9	Unreserved		62	Other Backward Classes
10	Unreserved		63	Unreserved
11	Unreserved		64	Unreserved
12	Other Backward Classes		65	Scheduled Castes
13	Unreserved		66	Unreserved
14	Scheduled Castes		67	Unreserved
15	Unreserved		68	Scheduled Castes
16	Scheduled Tribes		69	Unreserved
17	Unreserved		70	Other Backward Classes
18	Scheduled Castes		71	Unreserved
19	Unreserved		72	Scheduled Tribes
20	Unreserved		73	Unreserved
21	Other Backward Classes		74	Unreserved
22	Unreserved		75	Scheduled Castes
23	Unreserved		76	Unreserved
24	Scheduled Castes		77	Other Backward Classes
25	Unreserved		78	Unreserved
26	Other Backward Classes		79	Unreserved
27	Unreserved		80	Scheduled Castes
28	Unreserved		81	Unreserved
29	Scheduled Castes		82	Unreserved
30	Unreserved		83	Other Backward Classes
31	Scheduled Tribes		84	Unreserved
32	Unreserved		85	Scheduled Castes
33	Unreserved		86	Unreserved
34	Scheduled Castes		87	Unreserved
35	Unreserved		88	Scheduled Castes
36	Other Backward Classes		89	Unreserved
37	Unreserved		90	Other Backward Classes
38	Unreserved		91	Unreserved
39	Scheduled Castes		92	Unreserved
40	Unreserved		93	Scheduled Castes
41	Unreserved		94	Unreserved
42	Other Backward Classes		95	Scheduled Tribes
43	Unreserved		96	Unreserved
44	Scheduled Castes		97	Unreserved
45	Unreserved		98	Other Backward Classes
46	Unreserved		99	Unreserved
47	Other Backward Classes		100	Scheduled Castes

37. District—Bhopal		Reservation Percentage	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
(1)	(2)		
	Scheduled Tribes	3 %	
	Scheduled Castes	14 %	
	Other Backward Classes	14 %	
1	Unreserved	48	Unreserved
2	Unreserved	49	Other Backward Classes
3	Unreserved	50	Unreserved
4	Scheduled Castes	51	Unreserved
5	Unreserved	52	Scheduled Tribes
6	Unreserved	53	Unreserved
7	Other Backward Classes	54	Unreserved
8	Unreserved	55	Scheduled Castes
9	Unreserved	56	Unreserved
10	Scheduled Castes	57	Unreserved
11	Unreserved	58	Unreserved
12	Unreserved	59	Other Backward Classes
13	Other Backward Classes	60	Unreserved
14	Unreserved	61	Unreserved
15	Unreserved	62	Scheduled Castes
16	Unreserved	63	Unreserved
17	Scheduled Castes	64	Unreserved
18	Unreserved	65	Other Backward Classes
19	Unreserved	66	Unreserved
20	Other Backward Classes	67	Unreserved
21	Unreserved	68	Scheduled Castes
22	Unreserved	69	Unreserved
23	Scheduled Tribes	70	Unreserved
24	Unreserved	71	Other Backward Classes
25	Unreserved	72	Unreserved
26	Scheduled Castes	73	Unreserved
27	Unreserved	74	Unreserved
28	Unreserved	75	Scheduled Castes
29	Unreserved	76	Unreserved
30	Other Backward Classes	77	Unreserved
31	Unreserved	78	Other Backward Classes
32	Unreserved	79	Unreserved
33	Scheduled Castes	80	Unreserved
34	Unreserved	81	Scheduled Castes
35	Unreserved	82	Unreserved
36	Other Backward Classes	83	Unreserved
37	Unreserved	84	Other Backward Classes
38	Unreserved	85	Unreserved
39	Scheduled Castes	86	Unreserved
40	Unreserved	87	Unreserved
41	Unreserved	88	Scheduled Castes
42	Other Backward Classes	89	Unreserved
43	Unreserved	90	Unreserved
44	Unreserved	91	Other Backward Classes
45	Unreserved	92	Unreserved
46	Scheduled Castes	93	Unreserved
47	Unreserved	94	Scheduled Tribes
		95	Unreserved
		96	Unreserved
		97	Scheduled Castes
		98	Unreserved
		99	Unreserved
		100	Other Backward Classes

38. District—Sehore		Reservation Percentage		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	11 %			
	Scheduled Castes	20 %		48	Unreserved
	Other Backward Classes	14 %		49	Scheduled Castes
Roster Point	Reserved/Unreserved			50	Unreserved
(1)	(2)			51	Unreserved
				52	Scheduled Tribes
1	Unreserved			53	Unreserved
2	Unreserved			54	Scheduled Castes
3	Scheduled Castes			55	Unreserved
4	Unreserved			56	Other Backward Classes
5	Other Backward Classes			57	Unreserved
6	Unreserved			58	Scheduled Castes
7	Scheduled Tribes			59	Unreserved
8	Unreserved			60	Scheduled Tribes
9	Scheduled Castes			61	Unreserved
10	Unreserved			62	Unreserved
11	Unreserved			63	Other Backward Classes
12	Other Backward Classes			64	Unreserved
13	Unreserved			65	Scheduled Castes
14	Scheduled Castes			66	Unreserved
15	Unreserved			67	Scheduled Castes
16	Scheduled Tribes			68	Unreserved
17	Unreserved			69	Other Backward Classes
18	Other Backward Classes			70	Unreserved
19	Unreserved			71	Unreserved
20	Scheduled Castes			72	Scheduled Tribes
21	Unreserved			73	Unreserved
22	Unreserved			74	Scheduled Castes
23	Scheduled Castes			75	Unreserved
24	Unreserved			76	Other Backward Classes
25	Scheduled Tribes			77	Unreserved
26	Unreserved			78	Scheduled Castes
27	Other Backward Classes			79	Unreserved
28	Unreserved			80	Scheduled Tribes
29	Scheduled Castes			81	Unreserved
30	Unreserved			82	Unreserved
31	Unreserved			83	Other Backward Classes
32	Scheduled Tribes			84	Unreserved
33	Unreserved			85	Scheduled Castes
34	Scheduled Castes			86	Unreserved
35	Unreserved			87	Scheduled Tribes
36	Other Backward Classes			88	Unreserved
37	Unreserved			89	Scheduled Castes
38	Scheduled Castes			90	Unreserved
39	Unreserved			91	Unreserved
40	Other Backward Classes			92	Other Backward Classes
41	Unreserved			93	Unreserved
42	Unreserved			94	Scheduled Castes
43	Scheduled Tribes			95	Unreserved
44	Unreserved			96	Scheduled Tribes
45	Scheduled Castes			97	Unreserved
46	Unreserved			98	Other Backward Classes
47	Other Backward Classes			99	Unreserved
				100	Scheduled Castes

39. District—Raisen		Reservation Percentage	
		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	16 %	
	Scheduled Castes	16 %	
	Other Backward Classes	14 %	
Roster Point	Reserved/Unreserved	(1)	(2)
(1)	(2)		
1	Unreserved		
2	Unreserved		
3	Scheduled Castes		
4	Unreserved		
5	Scheduled Tribes		
6	Unreserved		
7	Other Backward Classes		
8	Unreserved		
9	Scheduled Castes		
10	Unreserved		
11	Scheduled Tribes		
12	Unreserved		
13	Unreserved		
14	Other Backward Classes		
15	Unreserved		
16	Scheduled Castes		
17	Unreserved		
18	Scheduled Tribes		
19	Unreserved		
20	Other Backward Classes		
21	Unreserved		
22	Scheduled Castes		
23	Unreserved		
24	Scheduled Tribes		
25	Unreserved		
26	Unreserved		
27	Other Backward Classes		
28	Unreserved		
29	Scheduled Castes		
30	Unreserved		
31	Scheduled Tribes		
32	Unreserved		
33	Other Backward Classes		
34	Unreserved		
35	Scheduled Castes		
36	Unreserved		
37	Scheduled Tribes		
38	Unreserved		
39	Unreserved		
40	Other Backward Classes		
41	Unreserved		
42	Scheduled Castes		
43	Unreserved		
44	Scheduled Tribes		
45	Unreserved		
46	Other Backward Classes		
47	Unreserved		
		48	Scheduled Castes
		49	Unreserved
		50	Scheduled Tribes
		51	Unreserved
		52	Unreserved
		53	Scheduled Castes
		54	Unreserved
		55	Scheduled Tribes
		56	Unreserved
		57	Other Backward Classes
		58	Unreserved
		59	Scheduled Castes
		60	Unreserved
		61	Scheduled Tribes
		62	Unreserved
		63	Unreserved
		64	Other Backward Classes
		65	Unreserved
		66	Scheduled Castes
		67	Unreserved
		68	Scheduled Tribes
		69	Unreserved
		70	Other Backward Classes
		71	Unreserved
		72	Scheduled Castes
		73	Unreserved
		74	Scheduled Tribes
		75	Unreserved
		76	Unreserved
		77	Other Backward Classes
		78	Unreserved
		79	Scheduled Castes
		80	Unreserved
		81	Scheduled Tribes
		82	Unreserved
		83	Unreserved
		84	Unreserved
		85	Other Backward Classes
		86	Unreserved
		87	Scheduled Castes
		88	Unreserved
		89	Unreserved
		90	Other Backward Classes
		91	Unreserved
		92	Scheduled Castes
		93	Unreserved
		94	Scheduled Tribes
		95	Unreserved
		96	Other Backward Classes
		97	Unreserved
		98	Scheduled Castes
		99	Unreserved
		100	Scheduled Tribes

40. District-Betul	Reservation Percentage
	Scheduled Tribes 39 %
	Scheduled Castes 11%
	Other Backward Classes 14 %

Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)
1	Unreserved
2	Scheduled Tribes
3	Unreserved
4	Scheduled Tribes
5	Unreserved
6	Other Backward Classes
7	Scheduled Castes
8	Scheduled Tribes
9	Unreserved
10	Scheduled Tribes
11	Unreserved
12	Other Backward Classes
13	Scheduled Tribes
14	Unreserved
15	Scheduled Tribes
16	Scheduled Castes
17	Unreserved
18	Scheduled Tribes
19	Other Backward Classes
20	Unreserved
21	Scheduled Tribes
22	Unreserved
23	Scheduled Tribes
24	Scheduled Castes
25	Scheduled Tribes
26	Unreserved
27	Other Backward Classes
28	Unreserved
29	Scheduled Tribes
30	Unreserved
31	Scheduled Tribes
32	Scheduled Castes
33	Scheduled Tribes
34	Unreserved
35	Other Backward Classes
36	Scheduled Tribes
37	Unreserved
38	Scheduled Tribes
39	Unreserved
40	Scheduled Tribes
41	Other Backward Classes
42	Unreserved
43	Scheduled Tribes
44	Scheduled Castes
45	Unreserved
46	Scheduled Tribes
47	Other Backward Classes
48	Unreserved

(1)	(2)
49	Scheduled Tribes
50	Unreserved
51	Scheduled Tribes
52	Scheduled Castes
53	Unreserved
54	Scheduled Tribes
55	Other Backward Classes
56	Unreserved
57	Scheduled Tribes
58	Unreserved
59	Scheduled Tribes
60	Scheduled Castes
61	Scheduled Tribes
62	Unreserved
63	Other Backward Classes
64	Unreserved
65	Scheduled Tribes
66	Unreserved
67	Scheduled Tribes
68	Other Backward Classes
69	Scheduled Tribes
70	Unreserved
71	Scheduled Castes
72	Scheduled Tribes
73	Unreserved
74	Scheduled Tribes
75	Other Backward Classes
76	Unreserved
77	Scheduled Tribes
78	Unreserved
79	Scheduled Tribes
80	Scheduled Castes
81	Unreserved
82	Scheduled Tribes
83	Other Backward Classes
84	Unreserved
85	Scheduled Tribes
86	Unreserved
87	Scheduled Tribes
88	Scheduled Castes
89	Unreserved
90	Scheduled Tribes
91	Other Backward Classes
92	Unreserved
93	Scheduled Tribes
94	Unreserved
95	Scheduled Tribes
96	Scheduled Castes
97	Scheduled Tribes
98	Unreserved
99	Other Backward Classes
100	Scheduled Tribes

41. District- Hoshangabad		Reservation Percentage		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	15%		48	Other Backward Classes
	Scheduled Castes	16%		49	Unreserved
	Other Backward Classes	14%		50	Scheduled Castes
Roster Point	Reserved/Unreserved				
(1)	(2)				
1	Unreserved			51	Unreserved
2	Unreserved			52	Scheduled Tribes
3	Scheduled Castes			53	Unreserved
4	Unreserved			54	Scheduled Castes
5	Scheduled Tribes			55	Unreserved
6	Unreserved			56	Other Backward Classes
7	Other Backward Classes			57	Unreserved
8	Unreserved			58	Scheduled Tribes
9	Unreserved			59	Unreserved
10	Scheduled Castes			60	Scheduled Castes
11	Unreserved			61	Unreserved
12	Scheduled Tribes			62	Unreserved
13	Unreserved			63	Other Backward Classes
14	Other Backward Classes			64	Unreserved
15	Unreserved			65	Scheduled Tribes
16	Unreserved			66	Unreserved
17	Scheduled Castes			67	Scheduled Castes
18	Unreserved			68	Unreserved
19	Scheduled Tribes			69	Other Backward Classes
20	Other Backward Classes			70	Unreserved
21	Unreserved			71	Unreserved
22	Unreserved			72	Scheduled Tribes
23	Scheduled Castes			73	Unreserved
24	Unreserved			74	Scheduled Castes
25	Scheduled Tribes			75	Unreserved
26	Unreserved			76	Other Backward Classes
27	Other Backward Classes			77	Unreserved
28	Unreserved			78	Scheduled Tribes
29	Scheduled Castes			79	Unreserved
30	Unreserved			80	Scheduled Castes
31	Unreserved			81	Unreserved
32	Scheduled Tribes			82	Unreserved
33	Unreserved			83	Other Backward Classes
34	Other Backward Classes			84	Unreserved
35	Unreserved			85	Scheduled Tribes
36	Scheduled Castes			86	Unreserved
37	Unreserved			87	Scheduled Castes
38	Scheduled Tribes			88	Unreserved
39	Unreserved			89	Unreserved
40	Other Backward Classes			90	Other Backward Classes
41	Unreserved			91	Unreserved
42	Unreserved			92	Scheduled Tribes
43	Scheduled Castes			93	Unreserved
44	Unreserved			94	Scheduled Castes
45	Scheduled Tribes			95	Unreserved
46	Unreserved			96	Unreserved
47	Unreserved			97	Other Backward Classes
				98	Unreserved
				99	Scheduled Castes
				100	Scheduled Tribes

42. District- Harda		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 27%		
		Scheduled Castes 16%	48	Unreserved
		Other Backward Classes 14%	49	Other Backward Classes
			50	Scheduled Castes
Roster Point	Reserved/Unreserved		51	Unreserved
(1)	(2)		52	Scheduled Tribes
			53	Unreserved
1	Unreserved		54	Scheduled Castes
2	Scheduled Tribes		55	Scheduled Tribes
3	Unreserved		56	Unreserved
4	Scheduled Castes		57	Other Backward Classes
5	Unreserved		58	Unreserved
6	Other Backward Classes		59	Scheduled Tribes
7	Unreserved		60	Unreserved
8	Scheduled Tribes		61	Scheduled Castes
9	Unreserved		62	Scheduled Tribes
10	Scheduled Tribes		63	Unreserved
11	Scheduled Castes		64	Other Backward Classes
12	Unreserved		65	Unreserved
13	Other Backward Classes		66	Scheduled Tribes
14	Unreserved		67	Unreserved
15	Scheduled Tribes		68	Scheduled Castes
16	Unreserved		69	Unreserved
17	Scheduled Castes		70	Other Backward Classes
18	Scheduled Tribes		71	Scheduled Tribes
19	Unreserved		72	Unreserved
20	Other Backward Classes		73	Scheduled Tribes
21	Unreserved		74	Scheduled Castes
22	Scheduled Tribes		75	Unreserved
23	Unreserved		76	Other Backward Classes
24	Scheduled Castes		77	Unreserved
25	Unreserved		78	Scheduled Tribes
26	Scheduled Tribes		79	Unreserved
27	Other Backward Classes		80	Scheduled Castes
28	Unreserved		81	Unreserved
29	Scheduled Tribes		82	Scheduled Tribes
30	Scheduled Castes		83	Unreserved
31	Unreserved		84	Other Backward Classes
32	Scheduled Tribes		85	Scheduled Tribes
33	Unreserved		86	Unreserved
34	Other Backward Classes		87	Scheduled Castes
35	Unreserved		88	Scheduled Tribes
36	Scheduled Castes		89	Unreserved
37	Scheduled Tribes		90	Other Backward Classes
38	Unreserved		91	Unreserved
39	Scheduled Tribes		92	Scheduled Tribes
40	Unreserved		93	Scheduled Castes
41	Other Backward Classes		94	Unreserved
42	Unreserved		95	Unreserved
43	Scheduled Castes		96	Scheduled Tribes
44	Unreserved		97	Unreserved
45	Scheduled Tribes		98	Other Backward Classes
46	Unreserved		99	Scheduled Castes
47	Scheduled Tribes		100	Scheduled Tribes



43. District- Jabalpur		Reservation Percentage		(1)	(2)
		Scheduled Tribes	15%		
		Scheduled Castes	13%	48	Other Backward Classes
		Other Backward Classes	14%	49	Unreserved
				50	Unreserved
Roster Point	Reserved/Unreserved			51	Scheduled Tribes
(1)	(2)			52	Unreserved
				53	Scheduled Castes
1	Unreserved			54	Unreserved
2	Unreserved			55	Other Backward Classes
3	Scheduled Tribes			56	Unreserved
4	Unreserved			57	Unreserved
5	Other Backward Classes			58	Scheduled Tribes
6	Unreserved			59	Unreserved
7	Unreserved			60	Scheduled Castes
8	Scheduled Castes			61	Unreserved
9	Unreserved			62	Other Backward Classes
10	Unreserved			63	Unreserved
11	Scheduled Tribes			64	Unreserved
12	Unreserved			65	Scheduled Tribes
13	Other Backward Classes			66	Unreserved
14	Unreserved			67	Scheduled Castes
15	Scheduled Castes			68	Unreserved
16	Unreserved			69	Unreserved
17	Scheduled Tribes			70	Other Backward Classes
18	Unreserved			71	Unreserved
19	Other Backward Classes			72	Scheduled Tribes
20	Unreserved			73	Unreserved
21	Scheduled Castes			74	Scheduled Castes
22	Unreserved			75	Unreserved
23	Unreserved			76	Unreserved
24	Scheduled Tribes			77	Other Backward Classes
25	Unreserved			78	Unreserved
26	Other Backward Classes			79	Scheduled Tribes
27	Unreserved			80	Unreserved
28	Scheduled Castes			81	Unreserved
29	Unreserved			82	Scheduled Castes
30	Unreserved			83	Unreserved
31	Scheduled Tribes			84	Other Backward Classes
32	Unreserved			85	Unreserved
33	Other Backward Classes			86	Scheduled Tribes
34	Unreserved			87	Unreserved
35	Unreserved			88	Unreserved
36	Scheduled Castes			89	Scheduled Castes
37	Unreserved			90	Unreserved
38	Unreserved			91	Other Backward Classes
39	Scheduled Tribes			92	Unreserved
40	Unreserved			93	Scheduled Tribes
41	Other Backward Classes			94	Unreserved
42	Unreserved			95	Unreserved
43	Unreserved			96	Unreserved
44	Scheduled Castes			97	Other Backward Classes
45	Unreserved			98	Unreserved
46	Scheduled Tribes			99	Scheduled Tribes
47	Unreserved			100	Scheduled Castes

44. District- Katni		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 23%		
		Scheduled Castes 11%	48	Other Backward Classes
		Other Backward Classes 14%	49	Unreserved
Roster Point	Reserved/Unreserved		50	Unreserved
(1)	(2)		51	Scheduled Tribes
1	Unreserved		52	Unreserved
2	Unreserved		53	Scheduled Castes
3	Scheduled Tribes		54	Unreserved
4	Unreserved		55	Other Backward Classes
5	Other Backward Classes		56	Unreserved
6	Unreserved		57	Scheduled Tribes
7	Scheduled Castes		58	Unreserved
8	Unreserved		59	Unreserved
9	Scheduled Tribes		60	Scheduled Tribes
10	Unreserved		61	Unreserved
11	Other Backward Classes		62	Scheduled Castes
12	Unreserved		63	Unreserved
13	Scheduled Tribes		64	Other Backward Classes
14	Unreserved		65	Unreserved
15	Scheduled Castes		66	Scheduled Tribes
16	Unreserved		67	Unreserved
17	Scheduled Tribes		68	Scheduled Tribes
18	Unreserved		69	Unreserved
19	Other Backward Classes		70	Other Backward Classes
20	Unreserved		71	Unreserved
21	Scheduled Tribes		72	Scheduled Castes
22	Unreserved		73	Unreserved
23	Scheduled Castes		74	Scheduled Tribes
24	Unreserved		75	Unreserved
25	Scheduled Tribes		76	Other Backward Classes
26	Unreserved		77	Unreserved
27	Unreserved		78	Scheduled Tribes
28	Other Backward Classes		79	Unreserved
29	Unreserved		80	Scheduled Castes
30	Scheduled Tribes		81	Unreserved
31	Unreserved		82	Scheduled Tribes
32	Scheduled Castes		83	Unreserved
33	Unreserved		84	Other Backward Classes
34	Scheduled Tribes		85	Unreserved
35	Unreserved		86	Scheduled Tribes
36	Other Backward Classes		87	Unreserved
37	Unreserved		88	Scheduled Castes
38	Scheduled Tribes		89	Unreserved
39	Unreserved		90	Scheduled Tribes
40	Other Backward Classes		91	Unreserved
41	Unreserved		92	Other Backward Classes
42	Scheduled Tribes		93	Unreserved
43	Unreserved		94	Scheduled Tribes
44	Scheduled Castes		95	Unreserved
45	Unreserved		96	Scheduled Castes
46	Scheduled Tribes		97	Unreserved
47	Unreserved		98	Other Backward Classes
			99	Unreserved
			100	Scheduled Tribes

45. District- Narsinghpur		Reservation Percentage	(1)	(2)
	Scheduled Tribes	13%		
	Scheduled Castes	16%	48	Unreserved
	Other Backward Classes	14%	49	Scheduled Castes
			50	Unreserved
Roster Point	Reserved/Unreserved		51	Unreserved
(1)	(2)		52	Scheduled Tribes
			53	Unreserved
1	Unreserved		54	Scheduled Castes
2	Unreserved		55	Unreserved
3	Scheduled Castes		56	Other Backward Classes
4	Unreserved		57	Unreserved
5	Other Backward Classes		58	Unreserved
6	Unreserved		59	Scheduled Tribes
7	Scheduled Tribes		60	Unreserved
8	Unreserved		61	Scheduled Castes
9	Unreserved		62	Unreserved
10	Scheduled Castes		63	Other Backward Classes
11	Unreserved		64	Unreserved
12	Other Backward Classes		65	Unreserved
13	Unreserved		66	Scheduled Tribes
14	Scheduled Tribes		67	Unreserved
15	Unreserved		68	Scheduled Castes
16	Unreserved		69	Unreserved
17	Scheduled Castes		70	Other Backward Classes
18	Unreserved		71	Unreserved
19	Other Backward Classes		72	Unreserved
20	Unreserved		73	Scheduled Castes
21	Scheduled Tribes		74	Unreserved
22	Unreserved		75	Scheduled Tribes
23	Unreserved		76	Unreserved
24	Scheduled Castes		77	Other Backward Classes
25	Unreserved		78	Unreserved
26	Other Backward Classes		79	Unreserved
27	Unreserved		80	Scheduled Castes
28	Scheduled Tribes		81	Unreserved
29	Unreserved		82	Scheduled Tribes
30	Unreserved		83	Unreserved
31	Scheduled Castes		84	Other Backward Classes
32	Unreserved		85	Unreserved
33	Other Backward Classes		86	Unreserved
34	Unreserved		87	Scheduled Castes
35	Scheduled Castes		88	Unreserved
36	Unreserved		89	Scheduled Tribes
37	Unreserved		90	Unreserved
38	Scheduled Tribes		91	Other Backward Classes
39	Unreserved		92	Unreserved
40	Other Backward Classes		93	Unreserved
41	Unreserved		94	Scheduled Castes
42	Scheduled Castes		95	Unreserved
43	Unreserved		96	Scheduled Tribes
44	Unreserved		97	Unreserved
45	Scheduled Tribes		98	Other Backward Classes
46	Unreserved		99	Unreserved
47	Other Backward Classes		100	Scheduled Castes

46. District- Mandla	Reservation Percentage		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	57%	48	Other Backward Classes
	Scheduled Castes	5%	49	Scheduled Tribes
	Other Backward Classes	14%	50	Unreserved
Roster Point	Reserved/Unreserved		51	Scheduled Tribes
(1)	(2)		52	Scheduled Tribes
1	Unreserved		53	Scheduled Castes
2	Scheduled Tribes		54	Unreserved
3	Scheduled Tribes		55	Scheduled Tribes
4	Unreserved		56	Other Backward Classes
5	Scheduled Tribes		57	Scheduled Tribes
6	Other Backward Classes		58	Unreserved
7	Scheduled Tribes		59	Scheduled Tribes
8	Unreserved		60	Scheduled Tribes
9	Scheduled Tribes		61	Scheduled Tribes
10	Scheduled Tribes		62	Unreserved
11	Other Backward Classes		63	Other Backward Classes
12	Scheduled Tribes		64	Scheduled Tribes
13	Unreserved		65	Scheduled Tribes
14	Scheduled Tribes		66	Unreserved
15	Scheduled Castes		67	Scheduled Tribes
16	Scheduled Tribes		68	Scheduled Tribes
17	Unreserved		69	Other Backward Classes
18	Scheduled Tribes		70	Scheduled Tribes
19	Scheduled Tribes		71	Unreserved
20	Other Backward Classes		72	Scheduled Tribes
21	Unreserved		73	Scheduled Castes
22	Scheduled Tribes		74	Scheduled Tribes
23	Scheduled Tribes		75	Scheduled Tribes
24	Scheduled Tribes		76	Unreserved
25	Unreserved		77	Other Backward Classes
26	Scheduled Tribes		78	Scheduled Tribes
27	Other Backward Classes		79	Scheduled Tribes
28	Scheduled Tribes		80	Unreserved
29	Unreserved		81	Scheduled Tribes
30	Scheduled Tribes		82	Scheduled Tribes
31	Scheduled Tribes		83	Unreserved
32	Scheduled Castes		84	Scheduled Tribes
33	Scheduled Tribes		85	Other Backward Classes
34	Unreserved		86	Scheduled Tribes
35	Other Backward Classes		87	Unreserved
36	Scheduled Tribes		88	Scheduled Tribes
37	Scheduled Tribes		89	Scheduled Tribes
38	Unreserved		90	Other Backward Classes
39	Scheduled Tribes		91	Scheduled Tribes
40	Other Backward Classes		92	Unreserved
41	Scheduled Tribes		93	Scheduled Tribes
42	Unreserved		94	Scheduled Castes
43	Scheduled Tribes		95	Scheduled Tribes
44	Scheduled Tribes		96	Unreserved
45	Unreserved		97	Scheduled Tribes
46	Scheduled Tribes		98	Other Backward Classes
47	Scheduled Tribes		99	Scheduled Tribes
			100	Scheduled Tribes

47. District- Dindori		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes 64%		
		Scheduled Castes 6%	48	Other Backward Classes
		Other Backward Classes 14%	49	Scheduled Tribes
			50	Scheduled Tribes
Roster Point	Reserved/Unreserved		51	Unreserved
(1)	(2)		52	Scheduled Tribes
			53	Scheduled Tribes
1	Unreserved		54	Other Backward Classes
2	Scheduled Tribes		55	Scheduled Tribes
3	Scheduled Tribes		56	Unreserved
4	Scheduled Tribes		57	Scheduled Tribes
5	Other Backward Classes		58	Scheduled Tribes
6	Scheduled Tribes		59	Scheduled Tribes
7	Unreserved		60	Scheduled Castes
8	Scheduled Tribes		61	Scheduled Tribes
9	Scheduled Tribes		62	Other Backward Classes
10	Scheduled Castes		63	Unreserved
11	Scheduled Tribes		64	Scheduled Tribes
12	Other Backward Classes		65	Scheduled Tribes
13	Unreserved		66	Scheduled Tribes
14	Scheduled Tribes		67	Scheduled Tribes
15	Scheduled Tribes		68	Unreserved
16	Scheduled Tribes		69	Scheduled Tribes
17	Scheduled Tribes		70	Other Backward Classes
18	Unreserved		71	Scheduled Tribes
19	Scheduled Tribes		72	Scheduled Tribes
20	Other Backward Classes		73	Scheduled Tribes
21	Scheduled Tribes		74	Scheduled Castes
22	Scheduled Tribes		75	Unreserved
23	Scheduled Tribes		76	Scheduled Tribes
24	Scheduled Tribes		77	Other Backward Classes
25	Unreserved		78	Scheduled Tribes
26	Scheduled Tribes		79	Scheduled Tribes
27	Other Backward Classes		80	Scheduled Tribes
28	Scheduled Tribes		81	Unreserved
29	Scheduled Castes		82	Scheduled Tribes
30	Scheduled Tribes		83	Scheduled Tribes
31	Unreserved		84	Other Backward Classes
32	Scheduled Tribes		85	Scheduled Tribes
33	Scheduled Tribes		86	Scheduled Tribes
34	Other Backward Classes		87	Unreserved
35	Scheduled Tribes		88	Scheduled Tribes
36	Scheduled Tribes		89	Scheduled Tribes
37	Unreserved		90	Other Backward Classes
38	Scheduled Tribes		91	Scheduled Tribes
39	Scheduled Tribes		92	Scheduled Tribes
40	Other Backward Classes		93	Unreserved
41	Scheduled Tribes		94	Scheduled Tribes
42	Scheduled Tribes		95	Scheduled Tribes
43	Unreserved		96	Scheduled Castes
44	Scheduled Tribes		97	Scheduled Tribes
45	Scheduled Tribes		98	Other Backward Classes
46	Scheduled Castes		99	Scheduled Tribes
47	Scheduled Tribes		100	Scheduled Tribes

48. District- Chhindwara		Reservation Percentage	(1)	(2)
		Scheduled Tribes	35%	
		Scheduled Castes	12%	
		Other Backward Classes	14%	
Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)			
1	Unreserved		48	Scheduled Tribes
2	Scheduled Tribes		49	Unreserved
3	Unreserved		50	Other Backward Classes
4	Other Backward Classes		51	Scheduled Tribes
5	Scheduled Tribes		52	Unreserved
6	Unreserved		53	Scheduled Tribes
7	Scheduled Castes		54	Unreserved
8	Unreserved		55	Other Backward Classes
9	Scheduled Tribes		56	Scheduled Castes
10	Unreserved		57	Unreserved
11	Scheduled Tribes		58	Scheduled Tribes
12	Other Backward Classes		59	Unreserved
13	Unreserved		60	Scheduled Tribes
14	Scheduled Tribes		61	Unreserved
15	Scheduled Castes		62	Scheduled Tribes
16	Unreserved		63	Other Backward Classes
17	Scheduled Tribes		64	Unreserved
18	Unreserved		65	Scheduled Tribes
19	Other Backward Classes		66	Scheduled Castes
20	Scheduled Tribes		67	Unreserved
21	Unreserved		68	Scheduled Tribes
22	Scheduled Tribes		69	Other Backward Classes
23	Scheduled Castes		70	Unreserved
24	Unreserved		71	Scheduled Tribes
25	Scheduled Tribes		72	Unreserved
26	Unreserved		73	Scheduled Castes
27	Other Backward Classes		74	Scheduled Tribes
28	Scheduled Tribes		75	Unreserved
29	Unreserved		76	Other Backward Classes
30	Scheduled Castes		77	Unreserved
31	Unreserved		78	Scheduled Tribes
32	Scheduled Tribes		79	Unreserved
33	Other Backward Classes		80	Scheduled Tribes
34	Unreserved		81	Scheduled Castes
35	Scheduled Tribes		82	Unreserved
36	Unreserved		83	Scheduled Tribes
37	Scheduled Tribes		84	Other Backward Classes
38	Scheduled Castes		85	Unreserved
39	Unreserved		86	Scheduled Tribes
40	Scheduled Tribes		87	Unreserved
41	Other Backward Classes		88	Scheduled Tribes
42	Unreserved		89	Scheduled Castes
43	Scheduled Tribes		90	Unreserved
44	Unreserved		91	Scheduled Tribes
45	Scheduled Tribes		92	Other Backward Classes
46	Scheduled Castes		93	Unreserved
47	Unreserved		94	Scheduled Tribes
			95	Unreserved
			96	Scheduled Tribes
			97	Scheduled Castes
			98	Unreserved
			99	Other Backward Classes
			100	Scheduled Tribes

49. District- Seoni	Reservation Percentage		(1)	(2)
	Scheduled Tribes	37%	30	Scheduled Tribes
	Scheduled Castes	10%	31	Unreserved
	Other Backward Classes	14%	32	Scheduled Tribes
Roster Point (1)	Reserved/Unreserved (2)		33	Unreserved
1	Unreserved		34	Other Backward Classes
2	Scheduled Tribes		35	Scheduled Tribes
3	Unreserved		36	Unreserved
4	Other Backward Classes		37	Scheduled Castes
5	Scheduled Tribes		38	Scheduled Tribes
6	Unreserved		39	Unreserved
7	Scheduled Castes		40	Scheduled Tribes
8	Unreserved		41	Unreserved
9	Scheduled Tribes		42	Other Backward Classes
10	Unreserved		43	Scheduled Tribes
11	Scheduled Tribes		44	Unreserved
12	Other Backward Classes		45	Scheduled Tribes
13	Unreserved		46	Unreserved
14	Scheduled Tribes		47	Scheduled Castes
15	Unreserved		48	Unreserved
16	Scheduled Tribes		49	Scheduled Tribes
17	Unreserved		50	Other Backward Classes
18	Scheduled Castes		51	Unreserved
19	Scheduled Tribes		52	Scheduled Tribes
20	Other Backward Classes		53	Unreserved
21	Unreserved		54	Scheduled Tribes
22	Scheduled Tribes		55	Other Backward Classes
23	Unreserved		56	Unreserved
24	Scheduled Tribes		57	Scheduled Tribes
25	Unreserved		58	Unreserved
26	Other Backward Classes		59	Scheduled Castes
27	Scheduled Tribes		60	Scheduled Tribes
28	Unreserved		61	Unreserved
29	Scheduled Castes		62	Scheduled Tribes

(1)	(2)	50. District- Balaghat	Reservation Percentage	
			Scheduled Tribes	22%
63	Other Backward Classes		Scheduled Castes	8%
64	Unreserved		Other Backward Classes	14%
65	Scheduled Tribes	Roster Point	Reserved/Unreserved	
66	Unreserved	(1)	(2)	
67	Scheduled Tribes	1	Unreserved	
68	Scheduled Castes	2	Unreserved	
69	Unreserved	3	Scheduled Tribes	
70	Scheduled Tribes	4	Unreserved	
71	Other Backward Classes	5	Other Backward Classes	
72	Unreserved	6	Unreserved	
73	Scheduled Tribes	7	Scheduled Castes	
74	Unreserved	8	Unreserved	
75	Scheduled Tribes	9	Unreserved	
76	Unreserved	10	Scheduled Tribes	
77	Other Backward Classes	11	Unreserved	
78	Scheduled Tribes	12	Other Backward Classes	
79	Unreserved	13	Unreserved	
80	Scheduled Castes	14	Scheduled Tribes	
81	Scheduled Tribes	15	Unreserved	
82	Unreserved	16	Scheduled Tribes	
83	Scheduled Tribes	17	Unreserved	
84	Unreserved	18	Unreserved	
85	Other Backward Classes	19	Other Backward Classes	
86	Scheduled Tribes	20	Unreserved	
87	Unreserved	21	Scheduled Castes	
88	Scheduled Castes	22	Unreserved	
89	Unreserved	23	Scheduled Tribes	
90	Scheduled Tribes	24	Unreserved	
91	Other Backward Classes	25	Unreserved	
92	Unreserved	26	Scheduled Tribes	
93	Scheduled Tribes	27	Unreserved	
94	Unreserved	28	Other Backward Classes	
95	Scheduled Tribes	29	Unreserved	
96	Scheduled Castes	30	Scheduled Tribes	
97	Scheduled Tribes	31	Unreserved	
98	Unreserved	32	Scheduled Castes	
99	Other Backward Classes			
100	Scheduled Tribes			



(1)	(2)	(1)	(2)
33	Unreserved	68	Unreserved
34	Unreserved	69	Other Backward Classes
35	Other Backward Classes	70	Unreserved
36	Unreserved	71	Scheduled Castes
37	Scheduled Tribes	72	Unreserved
38	Unreserved	73	Scheduled Tribes
39	Scheduled Tribes	74	Unreserved
40	Unreserved	75	Unreserved
41	Other Backward Classes	76	Scheduled Tribes
42	Unreserved	77	Unreserved
43	Unreserved	78	Other Backward Classes
44	Scheduled Tribes	79	Unreserved
45	Unreserved	80	Scheduled Tribes
46	Scheduled Castes	81	Unreserved
47	Unreserved	82	Scheduled Castes
48	Other Backward Classes	83	Unreserved
49	Unreserved	84	Unreserved
50	Scheduled Tribes	85	Other Backward Classes
51	Unreserved	86	Unreserved
52	Unreserved	87	Scheduled Tribes
53	Scheduled Tribes	88	Unreserved
54	Unreserved	89	Scheduled Tribes
55	Other Backward Classes	90	Unreserved
56	Unreserved	91	Other Backward Classes
57	Scheduled Castes	92	Unreserved
58	Unreserved	93	Unreserved
59	Unreserved	94	Scheduled Tribes
60	Scheduled Tribes	95	Unreserved
61	Unreserved	96	Scheduled Castes
62	Other Backward Classes	97	Unreserved
63	Unreserved	98	Other Backward Classes
64	Scheduled Tribes	99	Unreserved
65	Unreserved	100	Scheduled Tribes
66	Scheduled Tribes	By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, AQUEELA HASHMAT, Dy. Secy.	
67	Unreserved		